

<div><div></div><div>वर्ष: 12</div></div>
<div><div></div><div>अंक: 33</div></div>
<div><div></div><div>सोमवार, 12-18 सितंबर, 2022</div></div>
<div><div></div><div>मूल्य: 5 रु प्रति</div></div>
<div><div></div><div>रु 250 वार्षिक</div></div>

तीन चरणों में जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया की वर्चुअल मीटिंग हुई संपन्न

'कांग्रेस को भारत से जोड़ो यात्रा' नाम रखते राहुल गांधी तो ज्यादा अच्छा रहता

03

08



NCR समाचार

बाहरी ताकतों को खुद को अस्थिर करने का मौका न दें एससीओ के सदस्य देश: चिनफिंग

फेडरर और सेरेना के संन्यास से टेनिस में शुरू होगा अल्काराज, स्विगतेक का दौर

10

11



इस्माईल खान

www.ncrsamacharlive.in

BY C.R.O. TEAM

twitter-@ncrsamacharlive

भारत का नं

साप्ताहिक समाचार पत्र

कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव अभी भी वेंटिलेटर पर, धीरे-धीरे हालत में हो रहा है सुधार

12

राहुल गांधी अध्यक्ष हों या नहीं हों, उनका हमेशा विशेष स्थान रहेगा: पी चिदंबरम

एजेंसी

नयी दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के अध्यक्ष के चयन के लिए सर्वसम्मति का रविवार को समर्थन किया और कहा कि राहुल गांधी पार्टी के अध्यक्ष हों या नहीं हों, उनका पार्टी में हमेशा “विशेष स्थान” रहेगा क्योंकि पार्टी के आम कार्यकर्ताओं में उनकी “स्वीकार्यता” है। पूर्व केंद्रीय मंत्री चिदंबरम ने एआईसीसी प्रमुख के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने से कुछ दिन पहले कहा कि अभी तक राहुल गांधी ने पार्टी के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी लेने से इनकार किया है, लेकिन उनका विचार संभवतः बदल जाए। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य चिदंबरम ने साक्षात्कार में कहा कि पार्टी अध्यक्ष के चुनाव की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर किसी भी विवाद की कोई संभावना नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष मधुसूदन मिश्री यदि कुछ नेताओं की चिंताओं पर पहले दिन ही बयान दे देते, तो मामला तभी सुलझ जाता। उन्होंने कहा कि कोई दल



निर्वाचक मंडल की सूची प्रकाशित नहीं करता। उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी)-वार मतदाता सूची संबंधित पीसीसी के कार्यालय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगी, जबकि अखिल भारतीय मतदाता सूची एआईसीसी के कार्यालय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगी। चिदंबरम ने कहा, “नामांकन करने वाला प्रत्येक उम्मीदवार मतदाता सूची की एक प्रति पाने का हकदार होगा। मिश्री ने इन स्वतः स्पष्ट बिंदुओं को और स्पष्ट कर दिया है तथा सांसदों ने कहा है कि वे संतुष्ट हैं। मामला शांत हो गया है।” लोकसभा सदस्यों राशि थरूर,

मनीष तिवारी, प्रद्युत बारदोलोई, कार्ति चिदंबरम और अब्दुल खालिक ने मिश्री को पत्र लिखकर पीसीसी निर्णायक मंडल (डेलीगेट) की सूची उपलब्ध कराने का आग्रह किया था। इसके बाद मिश्री ने इन सांसदों से कहा था कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करने को इच्छुक व्यक्ति निर्वाचन मंडल के 9,000 से अधिक सदस्यों की सूची एआईसीसी के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण कार्यालय में 20 सितंबर से देख सकेंगे। पी. चिदंबरम ने सवाल किया कि जब भाजपा एवं किसी अन्य दल ने अपने पार्टी चुनाव कराए, तो

क्या तब भी मीडिया ने इस प्रकार के सवाल किए थे। उन्होंने कहा, “मुझे नहीं याद कि जे पी नन्दा ने मतदाता सूची मांगी हो या नामांकन दाखिल किया हो।” यह पूछे जाने पर कि सर्वसम्मति या चुनाव में से एआईसीसी के अध्यक्ष के पद के लिए क्या बेहतर रहेगा, चिदंबरम ने कहा कि हालांकि चुनाव स्वाभाविक विकल्प है, “बेहतर मार्ग सर्वसम्मति से राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन करना है और सभी दल इसका पालन करते हैं।” उन्होंने कहा, “यदि मेरी याददाश्त ठीक है, तो नन्दा और उनसे पहले अमित शाह, राजनाथ सिंह और गडकरी, सभी सर्वसम्मति

से चुने गए थे।” यह पूछे जाने पर कि क्या गांधी पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के आग्रह पर विचार करेंगे, चिदंबरम ने कहा कि उन्हें इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा, “राहुल गांधी पार्टी के आम कार्यकर्ताओं के स्वीकार्य नेता हैं। वे भी उन्हें पार्टी का अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। अभी तक उन्होंने इनकार किया है। उनका विचार संभवतः बदल जाए।” यह पूछे जाने पर कि यदि किसी अन्य को अध्यक्ष चुना जाता है, तो भी क्या गांधी परिवार का कांग्रेस में अहम स्थान बना रहेगा, चिदंबरम ने

कांग्रेस के इतिहास का जिक्र किया और कहा कि 1921 से 1948 तक महात्मा गांधी कांग्रेस के स्वीकार्य नेता थे और उनके बाद जवाहरलाल नेहरू एवं इंदिरा गांधी, एक के बाद एक पार्टी के स्वीकार्य नेता थे। उन्होंने कहा, “नेता” के अलावा भी पार्टी के अन्य लोगों ने एक या दो या तीन साल के लिए अध्यक्ष पद संभाला। कांग्रेस के इतिहास में ऐसा भी समय आया, जब ‘नेता’ और अध्यक्ष एक ही व्यक्ति था, ऐसा भी लंबा समय था, जब ‘नेता’ एवं अध्यक्ष अलग-अलग व्यक्ति थे।”

अमानतुल्ला खान के परिजनों को अधिकारियों से बदसलूकी करना पड़ा भारी, चार गिरफ्तार

एजेंसी

नयी दिल्ली। दिल्ली के ओखला विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक अमानतुल्लाह खान की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ गयी हैं। वह काफी हद तक एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) के निशाने पर आ गए हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने उनके घर समेत 5 ठिकानों पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान एंटी करप्शन ब्यूरो को कई ऐसी सामग्री मिली जिसके बाद अमानतुल्लाह और उनके साथी हमिद को गिरफ्तार कर लिया था।

रेड के दौरान अमानतुल्लाह के करीबियों को ऊपर ACB के अधिकारियों पर हमला कर धक्का-मुक्की और बदसलूकी करने का आरोप लगा था। इस मामले में अब दिल्ली पुलिस ने उनके 4 करीबियों को गिरफ्तार कर लिया है। अमानतुल्लाह खान के सहयोगियों ने जांच एजेंसी को काम करने में भी परेशान किया। पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उनके नाम शकील अहमद (45), अफसर (20), अनवर (31) और सिकंदर (45) हैं। दिल्ली वक्फ बोर्ड भ्रष्टाचार मामले में अमानतुल्ला खान को चार दिन की



पुलिस हिरासत में भेजे जाने के बाद, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आप विधायक और उनके करीबी सहयोगियों ने घोटाले में करोड़ों रुपये कमाए। दिल्ली वक्फ बोर्ड भर्ती में कथित अनियमितताओं से जुड़े एक मामले में आप विधायक अमानतुल्ला खान को भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। मामले में शिकायतकर्ता हाफिज इरशाद कुरैशी ने आरोप लगाया कि सभी मानदंडों और सरकारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करके कई लोगों को बोर्ड में भर्ती किया गया था। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि नियुक्त किए गए लोगों में से कुछ अमानतुल्ला खान के रिश्तेदार या करीबी थे। हाफिज इरशाद कुरैशी ने दावा किया कि पिछले चार वर्षों से भ्रष्टाचार चल रहा था, यह कहते हुए कि अमानतुल्ला खान और उनके करीबी सहयोगियों ने घोटाले में करोड़ों रुपये कमाए। आप विधायक

की गिरफ्तारी के बाद शिकायतकर्ता ने इंडिया टुडे को बताया, हमने केवल अमानतुल्लाह को कानूनी रूप से काम करने के लिए कहा था। दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को छापेमारी के दौरान अमानतुल्ला खान के कथित सहयोगी हमिद अली को उसके आवास से एक बिना लाइसेंस वाली पिस्टल और 12 लाख रुपये नकद बरामद करने के बाद गिरफ्तार किया। हमिद अली ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) को खुलासा किया कि अमानतुल्ला खान ने अपने घर में हथियार और नकदी रखी थी और सभी लेनदेन उनके निर्देश पर किए गए थे। हमिद अली ने पुलिस को बताया, ‘मैं मूल रूप से यूपी के बुलंदशहर का रहने वाला हूँ और दिल्ली में प्रॉपर्टी से जुड़ा काम करता हूँ, मैं शुरू से ही आप विधायक अमानतुल्लाह खान से जुड़ा हूँ। मैं विधायक अमानतुल्लाह खान के वित्तीय मामलों को देखता हूँ और सभी संपत्ति लेनदेन उनके निर्देशों के अनुसार किए जाते हैं। आज भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने मेरे घर पर छापा मारा और मेरे घर से एक देशी पिस्तौल, जिंदा कारतूस और लगभग 12,09,000 रुपये बरामद किए।

राघव चड्ढा को गुजरात चुनाव का राज्य सह-प्रभारी बनाया गया



एजेंसी

अहमदाबाद। आम आदमी पार्टी (आप) ने रविवार को अपने राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा को इस साल के अंत में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का राज्य सह-प्रभारी नियुक्त किया। इससे पहले अरविंद केजरीवाल नीत ‘आप’ ने राज्यसभा सदस्य संदीप पाठक को गुजरात का प्रभारी नियुक्त किया था। पंजाब में इस साल की शुरुआत में हुए विधानसभा चुनाव से पहले चड्ढा को पार्टी की ओर से राज्य मामलों का सह प्रभारी बनाया गया था। पंजाब विधानसभा चुनाव में पार्टी ने प्रचंड

जीत दर्ज की थी। आम आदमी पार्टी ने पिछले 27 वर्षों से गुजरात की सत्ता पर काबिज भाजपा के मुकाबले खुद को मुख्य प्रतिद्वंद्वी के तौर पर पेश किया है। ‘आप’ की गुजरात इकाई ने ट्वीट किया, “राज्यसभा सदस्य और युवा नेता राघव चड्ढा को ‘आप’ का गुजरात मामलों का सह-प्रभारी नियुक्त किए जाने पर बधाई और शुभकामनाएं।” अपनी नियुक्ति पर प्रतिक्रिया देते हुए चड्ढा ने कहा, “मुझे यह बड़ी जिम्मेदारी सौंपने के लिए मैं अरविंद केजरीवाल जी को धन्यवाद देता हूँ। मैं अपनी पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा।

संक्षिप्त समाचार

अनूपशहर में डिलीवरी के समय महिला की मौत, परिजनों ने बताई डॉक्टर की लापरवाही

एनसीआर समाचार

अनूपशहर क्षेत्र के गांव नगला हरी नाम सिंह ताल विवियाना थाना अहमदगढ बुलंदशहर की गर्भवती महिला गरिमा पत्नी नरेंद्र सिंह गांव की ही आशा रीजा पत्नी अजिल के द्वारा सरकारी अस्पताल अनूप शहर में प्रसव के लिए गई थी। महिला चिकित्सक से परिजनों ने बहार प्रसव कराने को कहा तो, आशा निजी अस्पताल लाइफ केयर अस्पताल ले गई। चिकित्सक राजेश चौहान पुत्र सकुशल ले वहां से सभी परिजनों को बाहर निकाल दिया। प्रसव के दौरान महिला की हालत खराब हो जाने पर बुलंदशहर राणा अस्पताल में ले जाया गया। उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई। परिवार वालों का आरोप है कि, डॉक्टर की लापरवाही से महिला की मौत हुई। घर की बहु के जाने से घर में कोहराम मचा हुआ है।



एजेंसी

चंडीगढ़। हॉस्टल में रहने वाली एक छात्रा द्वारा कई अन्य छात्राओं का ‘आपत्तिजनक’ वीडियो बनाए जाने की ‘अफवाह’ को लेकर पंजाब के मोहाली स्थित एक निजी विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने रविवार को मामले की जांच के आदेश दिए। शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने एक छात्रा को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश से 23 वर्षीय एक युवक को गिरफ्तार किया गया है जिसे उक्त छात्रा का बॉयफ्रेंड बताया जा रहा है। युवक को गिरफ्तार कर उसे पंजाब



पुलिस के हवाले कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने इस मामले में 31 वर्षीय एक अन्य व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया है। रात भर हुए प्रदर्शन के बाद स्थिति का जायजा लेने के लिये अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के

परिसर पहुंची पंजाब की अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक गुरप्रीत देव ने संवाददाताओं से कहा कि ऐसा लगता है कि आरोपी छात्रा ने अपना एक वीडियो युवक के साथ साझा किया और किसी अन्य छात्रा का कोई आपत्तिजनक वीडियो नहीं मिला है।

विश्वकर्मा पूजा

जानें इस वर्ष बन रहे हैं कौन से शुभ योग

कन्या संक्रांति में करें भगवान विश्वकर्मा की पूजा

एनसीआर समाचार

हिन्दू धर्म की मान्यता शास्त्रों में लिखी कथा पर आधारित है और शास्त्रों में लिखी कथा के अनुसार जब भगवान ब्रह्मा ने इस धरती की रचना की तो उन्होंने इसको सजाने और सवारेने का काम भगवान विश्वकर्मा को सौंपा गया और उन्होंने किया।

विश्वकर्मा को इस धरती व पूरे ब्रह्माण्ड का सबसे पहला और बड़ा इंजीनियर कहा जाता है। आपको बता दें कि कन्या संक्रांति के दिन शिल्पकार विश्वकर्मा की जयंती मनाई जाती है। कन्या संक्रांति से अर्थ है जिस दिन सूर्य कन्या राशि में गोचर करता है। इस दिन लोग अपने औजारों और मशीनों की पूजा करते हैं और ऐसा आना जाता है कि स दिन पूजा करने से मशीने बार बार खराब नहीं होती। हिन्दू धर्म की मान्यता शास्त्रों में लिखी कथा पर आधारित है और शास्त्रों में लिखी कथा के अनुसार जब भगवान ब्रह्मा ने इस



धरती की रचना की तो उन्होंने इसको सजाने और सवारेने का काम भगवान विश्वकर्मा को सौंपा गया और उन्होंने किया भी। विश्वकर्मा को इस धरती व पूरे ब्रह्माण्ड का सबसे पहला और बड़ा इंजीनियर कहा जाता है।

आपको बता दें कि कन्या संक्रांति के दिन शिल्पकार विश्वकर्मा की जयंती मनाई जाती है। कन्या संक्रांति से अर्थ है जिस दिन सूर्य कन्या राशि में गोचर करता है। इस दिन लोग अपने औजारों और मशीनों की पूजा करते हैं और ऐसा आना जाता है कि स दिन पूजा करने से मशीने बार बार खराब नहीं होती।

विश्वकर्मा पूजा का शुभ योग
इस वर्ष विश्वकर्मा पूजा के दिन

एक साथ कई शुभ योग बन रहे हैं। हिंदी पंचांग के मुताबिक इस वर्ष विश्वकर्मा पूजा के दिन 17 सितंबर को सुबह से रात्रि तक वृद्धि योग बना रहेगा। वहीं सुबह से दोपहर तक अमृत सिद्धि योग रहेगा, इसके अलावा रवि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग भी बनेंगे। इन सभी योगों को ज्योतिष शास्त्र में बहुत महत्व दिया गया है। इन सभी योग में पूजा करने से कई गुना ज्यादा फल की प्राप्ति होती है। इस वर्ष 2022 में 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा के दिन मशीन व वाहनों की पूजा करने के लिए शुभ मुहूर्त सुबह के 7 बजकर 35 मिनट से शुरू होकर सुबह के 9 बजकर 10 मिनट तक रहेगा। वहीं दोपहर में शुभ मुहूर्त 1:45 बजे से दोपहर 3:20 बजे तक है। इसके बाद दोपहर 3:20 बजे से शाम 4:53 बजे तक पूजा के लिए शुभ मुहूर्त रहेगा।

विश्वकर्मा पूजा की विधि
विश्वकर्मा पूजा के दिन सुबह

स्नान करने के बाद पीला वस्त्र धारण करें। फिर अपने कार्यस्थल पर चौकी पर नया पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति या चित्र की स्थापना करें। इसके बाद मशीनों, औजारों और वाहनों की पूजा करें। इस दौरान मंत्रों का जाप अवश्य करें। भगवान को हल्दी, अक्षत, फूल अर्पित करें। धूप-दीप दिखाएं। फल मिठाइयों का भोग लगाएं। अंत में भगवान विश्वकर्मा की आरती करें व प्रसाद वितरण करें। इस वर्ष विश्वकर्मा पूजा के दिन एक साथ कई शुभ योग बन रहे हैं। हिंदी पंचांग के मुताबिक इस वर्ष विश्वकर्मा पूजा के दिन 17 सितंबर को सुबह से रात्रि तक वृद्धि योग बना रहेगा। वहीं सुबह से दोपहर तक अमृत सिद्धि योग रहेगा, इसके अलावा रवि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग भी बनेंगे। इन सभी योगों को ज्योतिष शास्त्र में बहुत महत्व दिया गया है। इन सभी योग में पूजा करने से कई गुना ज्यादा फल की प्राप्ति

होती है। इस वर्ष 2022 में 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा के दिन मशीन व वाहनों की पूजा करने के लिए शुभ मुहूर्त सुबह के 7 बजकर 35 मिनट से शुरू होकर सुबह के 9 बजकर 10 मिनट तक रहेगा। वहीं दोपहर में शुभ मुहूर्त 1:45 बजे से दोपहर 3:20 बजे तक है। इसके बाद दोपहर 3:20 बजे से शाम 4:53 बजे तक पूजा के लिए शुभ मुहूर्त रहेगा।



दिगंबर कामत, माइकल लोबो, डेलिला लोबो, राजेश फलदेसाई, केदार नाइक, संकल्प अमोनकर, एलेक्सियो सिक्वेरा और रुडोल्फ फर्नांडिस कांग्रेस विधायक दल की बैठक में एक प्रस्ताव पारित करने के बाद भाजपा में शामिल हो गए थे। भाजपा के सूत्रों के अनुसार, इस समूह के दिल्ली दौरे के दौरान पार्टी अध्यक्ष जे पी नन्दा तथा गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करने की संभावना है। भाजपा इस साल हुए गोवा विधानसभा चुनावों के बाद राज्य में सत्ता में फिर लौटी थी। चालीस सदस्यीय गोवा विधानसभा में उसके पास 20 विधायक थे, जबकि कांग्रेस के विधायकों की संख्या हालिया दल-बदल के बाद 11 से घटकर तीन रह गयी है।

एनसीआर समाचार, साप्ताहिक समाचार पत्र में विज्ञापन के लिए संपर्क करें।
कार्यालय: 12/276, संगम विहार नई दिल्ली-62
फोन: 8888883968, 981111715

एनसीआर समाचार पत्र के स्वामित्व/ प्रकाशन परिवर्तन के संबंध में आवश्यक सूचना
एनसीआर समाचार के समस्त पाठकों तथा पत्र के साथ जुड़े समस्त पत्रकारों, व्यावसायिक संयोजक, सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं/ संस्थानों को यह सूचित किया जाता है कि गत वर्षों से श्री बलबीर सिंह के नेतृत्व व स्वामित्व में चले आ रहे वर्तमान एनसीआर समाचार पत्र का प्रकाशन व स्वामित्व मो. हनीफ, पुत्र श्री इस्माईल खान मास्टरजी, संगम विहार के स्वामित्व व नेतृत्व में हो रहा हैं। अतः भविष्य में समस्त प्रकार की व्यावसायिक, कानूनी एवं सामाजिक गतिविधियों के संचालन हेतु मो. हनीफ/ नये कार्यालय जी 12/276, संगम विहार, नई दिल्ली - 110062, दूरभाष (मोबाईल) 8888883968, 981111715 से सम्पर्क करें

संक्षिप्त समाचार

मुकेश अंबानी और राधिका मर्चेंट ने भगवान वेंकटेश्वर के मंदिर में की पूजा-अर्चना

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL के मालिक मुकेश अंबानी ने बीते शुक्रवार को आंध्र प्रदेश के तिरुमाला में भगवान वेंकटेश्वर मंदिर का दौरा किया। मुकेश अंबानी के साथ उनके बेटे अनंत की मंगेतर राधिका मर्चेंट और रिलायंस रिटेल लिमिटेड के निदेशक मनोज मोदी भी थे। उन्होंने तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम में 1.5 करोड़ की पेशकश की, एक स्वतंत्र ट्रस्ट जो आंध्र प्रदेश में तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर के साथ मंदिरों का प्रबंधन करता है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में मुकेश अंबानी और राधिका मर्चेंट वेंकटेश्वर मंदिर में पूजा-अर्चना करते हुए नजर आए। उन्होंने मंदिर परिसर में एक हाथी को खाना भी खिलाया और उसका आशीर्वाद लिया। मुकेश अंबानी ने कहा कि, वह भगवान वेंकटेश्वर का आशीर्वाद लेने मंदिर आए थे। उन्होंने कहा, मंदिर में हर वर्ष कुछ कुछ सुधार हो रहा है और पहले से कई ज्यादा बेहतर हो रहा है। आगे उन्होंने कहा, यह हम भारतीयों को बहुत गौरवान्वित करता है कि हम यहां हम सभी के लिए आशीर्वाद लेने आते हैं। शुक्रवार से पहले सोमवार को मुकेश अंबानी ने राजस्थान में स्थित नाथद्वारा के श्रीनाथजी मंदिर में दर्शन किए थे।

मुरैना में सारी लाइट की लाइन टूटने से ग्रामीणों की बढ़ी परेशानीयां, किसी भी तरह की दुर्घटना होने की संभावना

मध्य प्रदेश जिला मुरैना तहसील पोरसा रजौथा पीटर सेलाइन ढाका पंप की है। बता दे की यहां पर यह लाइट की लाइन चोल गांव में टूटी पड़ी है, जिसे लगभग डेढ़ महीने या 2 महीने लगभग में हो गए हैं एलान पानी की टंकी की लाइन खुदाई हो रही थी इसी कारण खंबे से जेसीबी टकराने के कारण लाइन का खंबा टूट गया, जिसके बाद ग्रामीण लोगों ने ठेकेदार से बोला की हमारी यह लाइट ठीक करा दो, जिसके बाद ठेकेदार ने कोई सुनवाई नहीं की फिर उसके बाद विद्युत विभाग ने सभी कर्मचारियों से बोला की सारी लाइट टूटी पड़ी हुई है यहा कभी भी ग्रामीण लोगों को किसी भी तरह की दुर्घटना होने की संभावना है। साथ ही यहां के कर्मचारी वर्ग सुनवाई ना करते हुए ग्रामीणों को हो को काफी परेशानियो का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही यहां के ग्रामीण लोग बिल टाइम पर भरते समय भी नहीं हो रही कोई सुनाई शासन और प्रशासन की लापरवाही से ग्रामीण परेशान हो रहे है। आरसा लाइनमैन को दी गई जानकारी में बताया गया है कि लाइनमैन को भी फोन करते समय अपना फोन रिवच ऑफ नही करता है कोई सुनाई कर्मचारी महेश गौतम से ग्रामीणों ने जाकर अपील की और कहा कि जल्द से जल्द इसकी लाइट जोड़े जाए।

हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर 'उत्तरांचल विश्वविद्यालय' देहरादून के प्रांगण में कवि महा सम्मेलन सम्पन्न

सलमान थानवी / एनसीआर समाचार

हिंदी दिवस के सुभ अवसर प उतरांचल विश्वविद्यालय देहरादून के प्रांगण में कवि सम्मेलन 14 सितंबर 2022 को सम्पन्न हुआ। आयोजन का प्रारम्भ हुआ कविता बिष्ट के वाणी वंदना से हुआ। दूसरे सत्र का संचालन कविता बिष्ट के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में फार्मसी के डीन डॉ. विकास जखमोला, कुलपति प्रोफेसर डॉ. राजेश बहुगुणा, कुलपति प्रोफेसर डॉ. धर्मबुद्धि, डीन एस.एल.ए.के प्रोफेसर डॉ. श्रवण कुमार डारेक्ट डॉ जितेंद्र सिन्हा विश्वविद्यालय के गणमान्य जन एवं छात्र छात्राएं भी उपस्थित रहे। कुलपति प्रोफेसर डॉ. राजेश बहुगुणा जी ने कार्यक्रम को काफी सराहा और इसे एक बड़े स्तर पर आयोजित करने का सुझाव दिया। कार्यक्रम में देश के जाने-माने कवि शादाब अली कवयित्री डॉली डबराल, कवयित्री कविता बिष्ट, एवं कवि शिव मोहन सिंह, ने अपने काव्य का जादू बिखेरा। कार्यक्रम में मुख्य कवयित्रीयों कविता बिष्ट एवं डॉली डबराल ने प्रेम रस और विरह के गीतों को सुना कर खूब वाह वाही बटोरी। शायर शादाब अली एवं कवि शिव मोहन सिंह ने भी खूब तालियां बटोरी। इस कार्यक्रम में पत्रकारिता एवं जनसंचार के शिक्षक एवं शिक्षिका वेद प्रकाश, पवन डबराल, अंजुलिका घोषाल, रुही कादरी ने भी ने भी कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना पूर्ण सहयोग दिया। मंच का पहले सत्र का संचालन स्मृति उनियाल ने बखूबी किया। सफल आयोजन एवं हिंदी दिवस की सभी को शुभकामनाएं प्रेषित की गई।

किताब के दुकानदार सुधीरलाल दास से हथियार लूट कर भाग रहे अपराधियों को ग्रामीणों ने की पिटाई

बिहार के मधुबनी जिला में लूट कर भाग रहे अपराधियों को पकड़ ग्रामीणों ने की पिटाई लूट कर भाग रहे अपराधियों को ग्रामीणों ने की पिटाई लदनियां, गुरुवार की सुबह मध्या निवासी किताब के दुकानदार सुधीरलाल दास से हथियार बंद लूट कर भाग रहे अपराधियों को ग्रामीणों ने की पिटाई मधुबनी लदनियां। बिहार के मधुबनी जिला में गुरुवार की सुबह मध्या निवासी किताब के दुकानदार सुधीरलाल दास से हथियार बंद अपराधियों ने उनके हाथ में रखा थैला छीन लिया। लदनियां बाजार की तरफ से एक ही बाइक पर सवार दो अपराधी उनका झपटने का प्रयास किया। विरोध करने पर देसी कट्ठा के बट से सिर पर प्रहार कर दुकानदानदर को जखमी कर दिया और थैला लेकर भागा। नोकझोंक में थैले से कुछ रुपये बाहर भी गिर गए थे। छिनतई की घटना को अंजाम देकर छपकी महुआ निर्माणाधीन सड़क पर हथियार लहराते हुए भाग रहे थे। ग्रामीण अपराधी का पीछा कर रहे थे। इसी बीच लोगों ने छिनतई के घटना की जानकारी पुलिस को दे दी।

महेंद्रगढ़ सीहमा में अस्पताल और बैंक के सामने पड़े कचरे के ढेर और गंदे नाले से बढ़ रही बीमारियां

महेंद्रगढ़ क्षेत्र के गांव सीहमा में सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक के सामने कचरे का ढेर लगा हुआ है, जिसके कारण मच्छर व बदबू फैल रही है। इसके पास ही एक बस स्टैंड है और बैंक भी जिसके पास यह गंदा नाला और कचरे का ढेर है। इसकी साफ सफाई की ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। इसके कारण मच्छर और गंदगी बहुत ज्यादा फैल गई है जिससे की बीमारी होने का खतरा बना रहता है। यहां के दुकानदार व बैंक वालों का कहना है कि, यहां की साफ सफाई की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है और हमने कई बार कहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यहां पास में ही सुभाष हॉस्पिटल है जिसमें मरीज अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं उनका और बीमार होने का खतरा बना रहता है।

कुल्लू में 17 परियोजनाओं का लोकार्पण

एनसीआर समाचार

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने ‘प्रगतिशील हिमाचल: स्थापना के 75 वर्ष’ समारोहों की कड़ी में आज बंजार विधानसभा क्षेत्र के मेला ग्राउंड में लगभग 60 करोड़ रुपये की 17 विकासाल्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए तथा विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के गठन के 75 वर्ष के उपलक्ष्य पर प्रदेश भर में आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों में सरकार को मिल रहे अपार जनसमर्थन से कांग्रेस के नेता बौखला गए हैं। उन्होंने कांग्रेस नेताओं को जवाब देते हुए कहा कि इन समारोहों का राजनीति से कोई लेना- देना नहीं है। ये कार्यक्रम केवल हिमाचल प्रदेश की 75 वर्ष की गौरवमयी यात्रा और इसे देश का अग्रणी राज्य बनाने में योगदान देने वाले सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए ही आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के इस गौरवशाली इतिहास का श्रेय प्रदेश के



सक्षम नेतृत्व के साथ-साथ राज्य के मेहनती एवं ईमानदार लोगों को भी जाता है। जय राम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के चहुंमुखी विकास में डॉ. वाई.एस. परमार, राम लाल ठाकुर, शांता कुमार, वीरभद्र सिंह और प्रेम कुमार धूमल सहित सभी मुख्यमंत्रियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि गठन के समय प्रदेश की साक्षरता दर केवल 4.8 प्रतिशत थी, जबकि आज यह 83 प्रतिशत को पार कर गई है। वर्ष 1948 में राज्य में केवल 228 किलोमीटर लंबी सड़कें थीं, जो आज लगभग 40,000 किलोमीटर हो गई हैं। उन्होंने कहा कि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के

अंतरिक्ष में तैरते सोलर पैनल एक दिन आपके घर को बिजली दे सकते हैं

एनसीआर समाचार

नई दिल्ली: दुनिया की सबसे बड़ी सोलर प्रौद्योगिकी निर्माता कंपनी लोंगी ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी कंपनी कक्षा में सूर्य की शक्ति का उपयोग करने और इसे वापस पृथ्वी पर संचारित करने की व्यवहार्यता का परीक्षण करने की योजना के पहले चरण के रूप में अंतरिक्ष में पैनल भेजेगी। शीआन स्थित स्वच्छ ऊर्जा की दिग्गज कंपनी, जिसने चीन को सौर उद्योग पर हावी होने और लागत कम करने में मदद की है, अपने उत्पादों के कठोर वातावरण में उपयोग का भी अध्ययन करेगी और अंतरिक्ष कार्यक्रमों में उपयोग के लिए उनकी उपयुक्तता का आकलन करेगी यह एक बथान में कहा गया है। कार्य पर केंद्रित एक

प्रयोगशाला स्थापित करने का लोंगी का निर्णय चीन के अंतरिक्ष कार्यक्रम के साथ सौर क्षेत्र के सहयोग और ऑफ-प्लैनेट पावर स्टेशनों की ओर पहला कदम हो सकता है, चीन स्पेस फाउंडेशन के अध्यक्ष वू झिजियान ने कहा, जो सरकार समर्थित एजेंसी है। अंतरिक्ष से सौर ऊर्जा का उपयोग करने की संभावना उद्योग और शिक्षाविदों का ध्यान आकर्षित कर रही है क्योंकि यह प्रौद्योगिकी की बड़ी खामी को दूर करने का वादा करती है कि पैनल अंधेरे में प्रभावी ढंग से काम नहीं करते हैं, उन्हें सूर्य के अप्रतिबंधित दृश्य के साथ कक्षा में रखकर। उन्होंने प्रशिक्षण दिलाया जा।। सर्वे दल में चीनी शोधकर्ताओं ने इस साल की शुरुआत में कहा था।

गाजियाबाद में मुठभेड़ के बाद तीन आरोपी गिरफ्तार

एनसीआर समाचार

गाजियाबाद पुलिस ने शुक्रवार की सुबह लोनी सीमा क्षेत्र में एक मुठभेड़ के बाद तीन लोगों को गिरफ्तार किया, जिसके बाद पुलिस ने बताया कि इनके पास से तमंचा और चोरी का सामान बरामद किया गया है। गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों की पहचान वसीम के रूप में हुई, जिसे गोली मारकर पैर में गोली मार दी गई, सुहेल और प्रमोद, जबकि चौथा आरोपी भरत मौके से फरार हो गया। पुलिस ने कहा कि मुठभेड़ नियमित जांच से शुरू हुई। आरोपियों को दो बाइक पर देखा गया तो पुलिस ने शक होने पर रुकने को कहा लेकिन उन्होंने भागने का प्रयास किया। लोनी के डीएसपी / सर्कल ऑफिसर रजनीश कुमार



उपाध्याय ने कहा, 'लाल बाग चौकी के पास चेकिंग चल रही थी सड़क पर आगे पुलिस टीम को भी सूचना दी गई। जब आपरियों ने देखा कि उन्हें चारों तरफ से घेर लिया गया है तो उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने वसीम को घायल करते हुए खुद को बचाने के लिए गोलियां चलाई। साथ ही पुलिस


ने कहा कि अन्य तीन आरोपी भागने के लिए पास के जंगल की ओर भागे, जिनमें से दो का पीछा कर रही पुलिस ने पकड़ लिया। उन्होंने बताया कि उनके पास से एक 315 बोर की पिस्तौल और 12 बोर की बंदूक, जिंदा गोला बारुद और एक चाकू बरामद किया गया। उन्होंने कथित तौर पर दोनों मोटरसाइकिलों की चोरी करने

की बात कबूल की, जिन पर वे सवार थे, साथ ही पूर्व की घटनाओं में आभूषण, नकदी और एक मोबाइल फोन भी। पुलिस ने कहा कि आईपीसी की धारा 307 (हत्या का प्रयास) के साथ-साथ आर्म्स एक्ट के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था, जबकि कथित सैन्यिंग की घटना की जांच की जा रही थी। उन्होंने यह भी कहा कि अन्य सह आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस ने कहा कि आईपीसी की धारा 307 (हत्या का प्रयास) के साथ-साथ आर्म्स एक्ट के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था, जबकि कथित सैन्यिंग की घटना की जांच की जा रही थी। उन्होंने यह भी कहा कि अन्य सह आरोपियों की तलाश की जा रही है।

गौतम अडानी बने दुनिया के दूसरे सबसे बड़े अमीर व्यक्ति

एनसीआर समाचार

अरबपति गौतम अडानी ने शुक्रवार को दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बनने के लिए फ्रांस के बिजनेस मैग्नेट बर्नाई अरनॉल्ट को कुछ समय के लिए पीछे छोड़ दिया। फोर्ब्स रियल-टाइम बिलियनेयरर्स लिस्ट के अनुसार, अडानी और उनके परिवार की कुल संपत्ति बढ़कर \$155.4 बिलियन हो गई, जो LVMH मोएट हेन्नेस्सी- लुई वुड्रोन SE, सह-संस्थापक, अध्यक्ष, CEO अर्नॉल्ट को पार कर गई। अडानी अब टेस्ला के प्रमुख एलोन मस्क से पीछे हैं, जिनकी कुल संपत्ति 273.5 बिलियन डॉलर है। फोर्ब्स की सूची में शीर्ष 10 में अब दो भारतीय हैं, जिसमें मुकेश अंबानी 92.2 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ 8वें स्थान पर हैं। अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस 149.7 अरब



डॉलर की संपत्ति के साथ तीसरे नंबर पर हैं, इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स (105.3 अरब डॉलर), लैरी एलिसन (98.3 अरब डॉलर) और वॉल स्ट्रीट निवेशक वारेन बफे (96.5 अरब डॉलर) हैं। पिछले महीने ही अडानी गेट्स को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए थे। फोर्ब्स

में अडानी की रैंकिंग में उछाल इस साल अडानी ग्रुप के शेयरों में तेजी के कारण उनके भाग्य में भारी उछाल का परिणाम है। अदानी और मस्क को छोड़कर, शीर्ष 10 में अन्य सभी अरबपतियों ने शुक्रवार को अपने निवल मूल्य में गिरावट देखी। अडानी की संपत्ति आज लगभग 5 बिलियन डॉलर बढ़ गई, जबकि अर्नॉल्ट की

कुल संपत्ति 1.97% घटकर 3.1 बिलियन डॉलर हो गई। अडानी के शीर्ष पर चढ़ने का प्रमुख कारण हाल ही के दिनों में अडानी समूह के शेयरों में उछाल है। अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट और अडानी ट्रांसमिशन कुछ ऐसे अडानी समूह के शेयर हैं, जिन्होंने शुक्रवार के शुरूआती सौदों में बीएसएफ पर अपने रिकॉर्ड उच्च स्तर

राष्ट्रीय परशुराम सेना ने कई प्रकोष्ठों के अध्यक्ष किए मनोनीत

एनसीआर समाचार


राजस्थान के राष्ट्रीय परशुराम सेना राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष पंडित सुनील पीढ़ी के नेतृत्व और प्रदेश महामंत्री श्यामसुंदर कटारा की सहमति से सेवानिवृत्त वरिष्ठ शिक्षक हरदयाल शर्मा को राष्ट्रीय परशुराम सेना भरतपुर का जिला अध्यक्ष मनोनीत किया है। इसी के साथ एडवोकेट पंकज पाठक एल एल एम जिला उपाध्यक्ष बार एसोसिएशन भरतपुर को विधि प्रकोष्ठ भरतपुर का जिला अध्यक्ष बनाया है। इसी क्रम मे सेवा निवृत्त वरिष्ठ अध्यापक हरनारायण शर्मा को शैक्षणिक प्रकोष्ठ भरतपुर का जिला अध्यक्ष मनोनीत किया है। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उक्त सभी नियुक्तियों से समाज को प्रगति की राह मिल पायेगी। प्रदेश महामंत्री ने कहा कि जिला अध्यक्ष सहित सभी प्रकोष्ठों के अध्यक्ष अगले 15 दिवस मे अपनी अपनी कार्यकारिणीयो का गठन कर समाज हित मे ऊर्जावान

बनकर कार्य करे। इस अवसर पर संभाग प्रभारी प्रधानाचार्य ब्रजभूषण शर्मा ने कहा कि अगले माह जिला कार्यकारिणी सहित सभी प्रकोष्ठों की कार्यकारिणीयो का शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा। इस अवसर पर प्रदेश प्रभारी रोहिताश चतुर्वेदी, प्रदेश महासचिव डॉक्टर गुलाब चंद शर्मा, प्रदेश कोषाध्यक्ष मनीष कलसाडा, प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष नीतीश कौशिक, प्रदेश प्रवक्ता रविन्द्र मोहन शर्मा, युवा मोर्चा अध्यक्ष पंडित सोनू जाटौली, युवा मोर्चा प्रदेश महासचिव मनोज मिश्रा, युवा मोर्चा प्रदेश सचिव राजेश खेड़ी, महिला मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष गीता शर्मा, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष दीपशिखा शर्मा, जिला प्रभारी विनोद चतुर्वेदी, जिला समन्वयक संजीव तिवारी, जिला उपाध्यक्ष देवेन्द्र चतुर्वेदी, मोहन तिवारी, कुम्हेर अध्यक्ष हेमू पाहुआ, डीग अध्यक्ष दिनेश चंद शर्मा, डीग युवा अध्यक्ष भानु जोशी ने बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित की।

चिन्हांकित सेवाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों को दिलाएं

धीरेंद्र कुमार / एनसीआर समाचार

मध्य प्रदेश के शिविरों में सांसद विधाक तथा नगरीय एवं पंचायती राज्य संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं अन्य प्रतिनिधियों की सहभागिता सुनिश्चित की जाए उमरिया, मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान का संचालन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस 17 सितंबर से प्रारंभ होकर 2 अक्टूबर तक संचालित किया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य शासन द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों को दिलाया जाना है। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामवार तथा नगरीय क्षेत्रों में वार्डवार सर्वे दल गठित कर उन्हें प्रशिक्षण दिलाया जा।। सर्वे दल को प्राप्त होने वाले आवेदनों में जो आवेदन अपात्र पाए जाते हैं उसका



कारण सहित उत्तर होना चाहिए। इस अवधि में मंत्री समूह उमरिया जिले के लिए वन मंत्री कुंवर विजय शाह तथा ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जिले का भ्रमण कर छोटे छोटे समूहों में चर्चा कर अभियान की जानकारी लेंगे। सर्वे के पश्चात शिविर लगाकर चिन्हांकित हितग्राहियों को लाभान्वित भी किया जाएगा। यह जानकारी देते हुए प्रदेश शासन के जल संसाधन

राज्य मंत्री एवं आयुष मंत्री स्वतंत्र प्रभार तथा जिला प्रभारी मंत्री राम किशोर कांवेरे ने मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के संचालन की वेयारियों की समीक्षा करते हुए दिए। बैठक में कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव, अपर कलेक्टर अशोक ओहरी, सीईओ जिला पंचायत इला तिवारी सहित नृगल मीट के माध्यम से एसडीएम, सीईओ जनपद पंचायत तथा जिले के

बरैल गांव के जमीनी विवाद में दो पक्षों के बीच मारपीट में महिला घायल

एनसीआर समाचार

बिहार मधुबनी जिला के बाबूबरही थाना क्षेत्र के बरैल गांव के जमीनी विवाद में दो पक्षों के बीच मारपीट में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला को परिजनों के द्वारा खुटौना पीसीएच अस्पताल में भर्ती कराया जहां डॉक्टर ने प्राथमिक इलाज कर महिला की नाजुक स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए मधुबनी सदर अस्पताल रेफर कर दिया। जहां घायल महिला के परिजन मधुबनी सदर अस्पताल लेकर आए यहां महिला का इलाज चल रहा है। वहीं महिला के परिजनों का कहना है कि 10 साल पूर्व भी इसी जमीनी विवाद को लेकर मेरे पति के साथ

मारपीट किया गया था और इस जमीनी विवाद को लेकर ही मेरे पति की हत्या कर गांव के नहर के किनारे फेंक दिया गया।

उसी जमीनी विवाद को लेकर अक्सर हमारे साथ गाली गलौज और मारपीट किया करते हैं। घायल महिला की पहचान प्रमिला देवी उम्र 45 वर्ष पति स्वर्गीय सूरज नारायण बरैल गांव निवासी के रूप में हुई है। साथ ही परिजनों का कहना है कि रिशतेदार अक्सर जमीनी विवाद को लेकर मारपीट किया करते हैं। जिसको लेकर महिला अक्सर परेशान रहती है, इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए नगर थाना पुलिस को सूचना दी गई है।

बिलियन ट्रांसफर कर रहे हैं, जबकि वॉरेन बफेट पहले ही चैरिटी के लिए \$35 बिलियन से अधिक का दान कर चुके हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनेयरर्स इंडेक्स के अनुसार, अडानी ने इस साल अब तक अपने भाग्य में 72 बिलियन डॉलर जोड़े हैं, दुनिया के 10 सबसे धनी लोगों में मुकेश अंबानी के अलावा केवल एक ने इस साल अपनी कुल संपत्ति में वृद्धि देखी है। अडानी, 60, भारत के सबसे बड़े पोर्ट ऑपरेटर अडानी ग्रुप के संस्थापक हैं। मार्च 2022 स्टॉक एक्सचेंज फाईलिंग के अनुसार, अरबपति के पास अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पावर और अडानी ट्रांसमिशन में 75% हिस्सेदारी है। वह अडानी टोटल गैस का लाभग 37%, अडानी पोर्टर्स और विशेष आर्थिक क्षेत्र का 65% और अडानी ग्रीन एनर्जी का 61% मालिक है।

पर पहुंच गए, जिससे समूह के अध्यक्ष के वास्तविक समय के निवल मूल्य में वृद्धि हुई। कुछ सांसदों और बाजार पर नजर रखने वालों के अपारदर्शी शेयरधारक संरचनाओं पर चिंता व्यक्त करने और समूह की कंपनियों में विश्लेषक कवरेज की कमी के बावजूद, अडानी समूह के शेयरों में तेजी आई है। कुछ अडानी समूह की कुल कंपनी के शेयरों में 2020 के बाद से 1,000% से अधिक की वृद्धि हुई है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार, एक और कारण है कि अडानी इस साल दुनिया के कुछ सबसे अमीर अमेरिकी अरबपतियों को पीछे छोड़ने में सक्षम है, क्योंकि आंशिक रूप से अमेरिका के कुछ सबसे अमीर लोगों ने हाल ही में बढ़ावा दिया है। जुलाई में, बिल गेट्स ने कहा कि वह बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को \$20

बिलियन ट्रांसफर कर रहे हैं, जबकि वॉरेन बफेट पहले ही चैरिटी के लिए \$35 बिलियन से अधिक का दान कर चुके हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनेयरर्स इंडेक्स के अनुसार, अडानी ने इस साल अब तक अपने भाग्य में 72 बिलियन डॉलर जोड़े हैं, दुनिया के 10 सबसे धनी लोगों में मुकेश अंबानी के अलावा केवल एक ने इस साल अपनी कुल संपत्ति में वृद्धि देखी है। अडानी, 60, भारत के सबसे बड़े पोर्ट ऑपरेटर अडानी ग्रुप के संस्थापक हैं। मार्च 2022 स्टॉक एक्सचेंज फाईलिंग के अनुसार, अरबपति के पास अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पावर और अडानी ट्रांसमिशन में 75% हिस्सेदारी है। वह अडानी टोटल गैस का लाभग 37%, अडानी पोर्टर्स और विशेष आर्थिक क्षेत्र का 65% और अडानी ग्रीन एनर्जी का 61% मालिक है।

संक्षिप्त समाचार

डॉक्टर की लापरवाही से जच्चे बच्चे की मौत, परिजनों ने किया जमकर हंगामा

उत्तर प्रदेश गोंडा जनपद के अस्पताल में एक महिला की मौत पर परिजनों ने किया जमकर हंगामा साथ ही तोड़फोड़ खिड़की दरवाजे के शीशे टूटे और स्टाफ नर्स कर्मचारी उठकर भाग्य सूचना पर पहुँची मौके पर पुलिस जांच में जुटी परिवार वालों का आरोप इंजेक्शन से गई जान। बता दे कि चले कि गोंडा शहर के गति पुरम मोहल्ले में प्रियंका गर्भवती महिला को परिजनों ने लाकर जिला महिला अस्पताल में भर्ती कराया जहां महिला का इलाज चल रहा था। डॉक्टर की लापरवाही से जच्चा बच्चा प्रसूता महिला की मौत हो गई और मौत की खबर सुनते ही परिजन व रिश्तेदार ने अस्पताल में पहुंचकर हंगामा किया टांडा तोड़फोड़ मर्जन सी मर्ज एन सी लेबर रूम में बैठे स्टाफ नर्स डॉक्टर का मैच थोड़ा रखे कागजात को फेंक दिए दशत में अस्पताल के कर्मचारी उठकर भागने लगे और कुछ देर के बाद नगर कोतवाली की पुलिस सूचना पर पहुँची व अपनी जांच में जुटी वहीं पर जन जच्चा बच्चा प्रसूता महिला मृतक को घर ले जा चुके थे इस घटना की खबर सुनते ही शहर में चर्चा का विषय बना और अस्पताल में भीड़ लगने लगी।

मुख्यमंत्री से राजस्व अधिकारी संघ के प्रतिनिधिमण्डल ने की भेंट

हिमाचल प्रदेश राजस्व अधिकारी संघ के एक प्रतिनिधिमण्डल ने अध्यक्ष जय गोपाल शर्मा के नेतृत्व में वीरवार साय शिमला में मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर से भेंट की और उन्हें अपनी विभिन्न मांगों से अवगत करवाया। हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री ने उनकी जायज मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया।

राजीव गांधी ब्लॉक स्तरीय ग्रामीण ओलंपिक खेल कार्यक्रम के दूसरे चरण में ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम का हुआ समापन

राजस्थान भिनाय उपखंड पर चल रहे राजीव गांधी ब्लॉक स्तरीय ग्रामीण ओलंपिक खेल कार्यक्रम के दूसरे चरण में आज ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम का हुआ समापन। मसूदा विधायक राकेश पारीक ने की शिरकत राजीव गांधी खेल प्रतियोगिता में भिनाय क्षेत्र की सभी ग्राम पंचायतों द्वारा प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीमों के विजेता खिलाड़ियों को किया गया पुरस्कृत कार्यक्रम में कांजोस नेता संग्राम सिंह, गुर्जर प्रधान संपत राज लोढा, उपखंड अधिकारी प्रभात त्रिपाठी, विकास अधिकारी, सीमा, गौड सहित शिक्षा विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।

सेवड़ा विधानसभा तहसील इंदरगढ़ क्षेत्र से भूख हड़ताल का चौथा दिन समाप्त

मध्य प्रदेश जिला दतिया सेवड़ा विधानसभा तहसील इंदरगढ़ क्षेत्र से भूख हड़ताल का चोथा दिन समाप्त कोई भी वरिष्ठ अधिकारी नहीं पहुंचा मौके पर इंदरगढ़ दतिया जिले के इंदरगढ़ कस्बे में सहारा कम्पनी से नगर व क्षेत्र के उपभोक्ताओं के पैसे वापस दिलाने के लिए 13 सितंबर से शीतला माता प्रांगण पर अनिश्चित कालीन भूख हड़ताल पर बैठे समाजसेवी बेध राम कुमार गुप्ता, गुरुवार चोथा दिन भी मौके पर नहीं पहुंचे कोई भी वरिष्ठ अधिकारी, बेध राम कुमार की स्वास्थ्य में आई गिरावट, बेध रामकुमार गुप्ता का कहना है कि जब कोई वरिष्ठ अधिकारी आकर आश्वासन देगा तभी भूख हड़ताल खत्म होगी। इंदरगढ़ तहसीलदार मोहिनी साहू की समझायास पर भी रामकुमार बेध ने नहीं तोड़ी भूख हड़ताल नगर व क्षेत्र के लगभग 2 हजार उपभोक्ता ढाई वर्ष से सहारा कम्पनी से अपने जमा पैसे वापस करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन आज तक उन्हें सिर्फ आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला जिसके बाद मजबूर होकर समस्त उपभोक्ताओं ने बेध राम कुमार गुप्ता के साथ मिलकर यह कदम उठाया। लोगों भूख हड़ताल अभी जारी रहेगी।

मधुबनी में सेप्टिक टैंक बना मौत का कुआं, एक साथ 4 मजदूरों की दर्दनाक मौत

बिहार मधुबनी में चार मजदूरों की एक साथ मौत से पूरे गांव में कोहराम मच गया है। उनकी पहचान को लेकर अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है। बताया जा रहा है कि एक ग्रामीण के मकान में बन रहे शौचालय की टंकी का सेटरिंग मजदूर खोल रहे थे। जिस दौरान उसमे गिरकर उनकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया।

मध्य प्रदेश सागर जनपद पंचायत में पृथ्वीसिंह बामोरा बने सांसद प्रतिनिधि

सागर जनपद पंचायत में पृथ्वीसिंह बामोरा सांसद प्रतिनिधि बने। सांसद राजबहादुर सिंह ने जनपद पंचायत सीईओ को संसद प्रतिनिधि सम्बन्धी भेजी सारी जानकारी। पृथ्वी सिंह को अपने हाथों से सांसद प्रतिनिधि नियुक्ति पत्र देते हुए सागर सांसद राजबहादुर सिंह। जनपद पंचायत सागर में सांसद प्रतिनिधि नियुक्त होने से अब पृथ्वी सिंह आधिकारिक रूप से होने वाली जनपद की बैठकों, मीटिंगों में शामिल हो सकेगे।

चौहटन विधानसभा वरिष्ठ कार्यकर्ता ने की दिल्ली के राज्यपाल चौधरी सतपाल मलिक से मुलाकात

धनाऊ चौहटन विधानसभा क्षेत्र से भाजपा पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता व भाजपा से दावेदार दोलतराम खंभु मिठडाऊ ने आज दिल्ली प्रवास के दौरान मेघालय के राज्यपाल चौधरी सतपाल मलिक से शिष्टाचार मुलाकात की। आपको बता दें, यह दोलतराम खंभु वहीं हैं, जिनके पिता स्वर्गीय चतरोमल खंभू जो मेघवाल समाज के कदावर नेता माने जाते थे, जिन्होंने इस क्षेत्र में राजनीति में बहुत बड़ा नाम कमाया था। आज भी क्षेत्र की जनता स्वर्गीय चतरोमल खंभू को दिल से याद करती है। चतरोमल खंभू की राजनीतिक पहुंच देश के प्रधानमंत्री तक थी, तथा देश विदेश की जानी मानी हस्तियों के साथ आज भी खंभू परिवार का अच्छा खासा संबंध है। 1992 में भाजपा संगठन ज्वाइन करने के बाद आजतक भाजपा संगठन के वफादार कार्यकर्ता के रूप में खंभु परिवार संघर्षशील है।




तीन चरणों में जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया की वर्चुअल मीटिंग हुई संपन्न

एनसीआर समाचार

उत्तर प्रदेश के तीन चरणों में संपन्न हुई इस मीटिंग के कई प्रदेशों से जुड़े पत्रकार साथियों ने रखे अपने विचार ओड़िशा, पंजाब, झारखंड, बिहार और यूपी के पत्रकार हुए शामिल गैर मान्यता प्राप्त पत्रकारों की संस्था जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया (रजि) द्वारा पत्रकारों के उत्पीड़न फर्जी तरीके से मुकदमा कायम करने और उन्हें परेशान करने को लेकर एक वर्चुअल मीटिंग का आयोजन संस्था के अध्यक्ष अनुराग सक्सेना की अध्यक्षता में किया गया। इस बैठक में सरकार द्वारा गैर मान्यता प्राप्त पत्रकारों को उचित सुविधा सुरक्षा एवं सहायता न दिए जाने को लेकर चिंता

व्यक्त की गई संस्था के अध्यक्ष अनुराग सक्सेना ने कहा कि सरकार गैर मान्यता प्राप्त पत्रकारों की उपेक्षा करके क्या सिद्ध करना चाहती है जबकि सूचना संकलन में इन्हीं की महती भूमिका है अगर यही पत्रकार अपनी कलम बंद कर दें तो समाचारों का संकलन अधूरा रह जाएगा। दूरदराज के क्षेत्रों से खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के समाचारों का संकलन साधारण बात नहीं है फिर भी इन पत्रकारों पर फर्जी मुकदमे कायम करवाना इन्हें इमानदारी से अपना काम न करने देना एवं सरकार द्वारा आवश्यक सुविधाएं न दिया जाना चिंता का विषय है। इसके बाद डॉ. आर सी श्रीवास्तव ने अपने विचार



व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार यदि गैर मान्यता प्राप्त पत्रकारों को मिलने वाली सुविधा नहीं प्रदान करती है और यदि इन्हें पत्रकार का दर्जा नहीं देना चाहती है तो सरकार को पत्रकारों के लिए एक अलग कानून बनाकर विभिन्न स्तर पर पत्रकारों की योग्यता निर्धारित कर देना चाहिए। आज बहुत

मामूली पढ़े लिखे लोग मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं जबकि पत्रकारिता की डिग्री लेकर भी लोगों को अपना अस्तित्व कायम करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। इसी क्रम में वरिष्ठ पत्रकार नागेंद्र पांडे ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि अब समय आ गया है पत्रकारों को आपसी सामंजस्य

ज़ापन दिवस के उपलक्ष्य में विभिन्न मांगों को लेकर प्रदेश व केंद्र सरकार को ज़ापन सौंपा

एनसीआर समाचार

मध्य प्रदेश में भारतीय किसान संघ ने भरी हूँकार, सेकंडो ट्रेंक्टर लेकर पहुंचे किसान भारतीय किसान संघ द्वारा ज्ञापन दिवस के उपलक्ष्य में पूरे भारत की तहसील स्तर पर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदेश व केंद्र सरकार को ज्ञापन सौंपा।

लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य मिलें यह विषय मुख्य रहा शुजालपुर तहसील कार्यकारिणी के द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया, जिसमें सैकड़ों किसान अपने ट्रेंक्टर लेकर पहुंचे कृषि उपज मंडी प्रांगण नंबर 3 में सभा का आयोजन हुआ जिसमें क्षेत्रीय संगठन मंत्री महेश चौधरी जिला कोषाध्यक्ष सोहन सिंह सिसोदिया व तहसील अध्यक्ष चन्द्र सिंह सिसोदिया ने सभा को संबोधित किया इसके बाद भगवान बलराम की सौभा यात्रा ट्रेंक्टर

व बैंड बाजे के साथ नगर भ्रमण पर निकली जहां नगर वासियों ने भव्य स्वागत किया। यात्रा तहसील कार्यालय पहुंची और कलेक्टर, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम विभिन्न मांगों को लेकर तहसीलदार राकेश खजुरिया को ज्ञापन दिया गया कार्यक्रम में जिला उपाध्यक्ष राधेश्याम धनगर तहसील उपाध्यक्ष प्रेम सिंह यादव, दिनेश जाट, चैन सिंह पटेल, मंत्री राजेन्द्र सिंह मेवाडा, सहमंत्री एलम सिंह परमार, युवा वाहिनी अभिषेक जोशी, मिडिया अकित यादव, सदस्य करण सिंह चोधरी, प्रेम सिंह सिसोदिया, फुलसिंह धनगर सिद्धनाथ मैवाडा, नारायण सिंह पाटीदार, भंवरलाल परमार, बाबुलाल यादव, जसमंत सिंह राजपूत, जगदीश जाट, धर्मेन्द्र जाट, नरेंद्र पाटीदार, सहित क्षेत्र के सेकंडो किसानों की उपस्थिति रही।

चुनौतियों के बावजूद विकास के मार्ग पर अग्रसर है किन्नौर: राज्यपाल

एनसीआर समाचार

राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर चार दिवसीय किन्नौर दौरे के दौरान आज प्रातः सांगला पहुंचे। उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक और जिला प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने हैलीपैड पर राज्यपाल का स्वागत किया।

राज्यपाल का किन्नौर जिले का यह पहला दौरा है। राज्यपाल ‘विद्यार्थियों से संवाद’ के अपने अभियान के तहत सांगला की वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पहुंचे और स्कूल के नौवी कक्षा के विद्यार्थियों से संवाद किया। उन्होंने कंप्यूटर, भूगोल, ऑप्शनल विषय सुरक्षा और आपदा प्रबंधन के विषयों पर विद्यार्थियों से जानकारी ली। वे कौन-कौन से विषय पढ़ते हैं, स्कूल पुस्तकालय और पाठ्य



पुस्तकों के अलावा पढ़ने के प्रति उनकी रूचि कितनी है, इस विषय पर बातचीत की। आलेंकर ने विद्यार्थियों से कहा, “पुस्तकें हमारी सच्ची मित्र होती हैं। यह हमारी मार्गदर्शक और दार्शनिक होती हैं, जिनसे हमें ज्ञान और अनुभव मिलता है।” उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में पूरी दुनिया की जानकारी होना आवश्यक है इसलिए यह ज्ञान हमें पुस्तकों से ही मिलेगा।

इसलिए “पुस्तकें पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे।” राज्यपाल ने विद्यार्थियों को आगे बढ़ने और जीवन में सफल होने का मार्गदर्शन दिया। उन्होंने विद्यार्थियों को निःशुल्क पुस्तकें वितरित कीं और उन्हें पढ़कर राज्यपाल के नाम अपने अनुभव के तौर पर पत्र लिखने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि, इससे उनकी पढ़ने और लिखने की आदत बनी रहेगी। बाद में, राज्यपाल ने

स्कूल के प्रधानाचार्य बलविंदर सिंह नेगी और स्टॉफ के अन्य शिक्षकों के साथ भी बातचीत की और विद्यार्थियों के साथ हुए संवाद की जानकारी दी। उन्होंने स्कूल प्रशासन से पुस्तकालय को समृद्ध करने तथा विद्यार्थियों में पढ़ने का शौक विकसित करने के निर्देश दिए। इससे पूर्व, राज्यपाल ने सी.एस.के. एच.पी.के.बी. माउंटेन एरीकल्चर रिसर्च एण्ड एक्सपेंशन सेंटर सांगला का दौरा भी किया। केंद्र के निदेशक अनुसंधान डॉ. नवीन ने राज्यपाल का स्वागत किया। उन्होंने केंद्र में काला जीरा, राजमाश और केसर पर किए जा रहे अनुसंधान की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि काला जीरा और केसर को पुनः जीवित करने के लिए प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं।

विश्व ओजोन दिवस के अवसर पर लें पृथ्वी को बचाने का संकल्प

एनसीआर समाचार

विश्व ओजोन दिवस या ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस हर वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत की कमी के बारे में लोगों को जागरूक करने और इसे संरक्षित करने के संभावित समाधान खोजने के लिए यह दिन पूरे विश्व में मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर की वर्षगांठ के तौर पर मनाया जाता है, जिसमें ओजोन परत के खराब होने का कारण बनने वाले पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया गया था। इस दिन दुनिया भर के लोग ओजोन परत और इसके महत्व के बारे में बैठक और सेमिनार आयोजित करते हैं। ओजोन परत क्या होती है? आपको बता दें कि ओजोन परत



गैस की एक नाजुक ढाल है जो पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाने का काम करती है। इस तरह वो मानव जीवन का संरक्षण करती है। ओजोन परत में छिद्र होने का मुख्य कारण निर्मित रसायन, प्रणोदक, फोम-ब्लोइंग एजेंट, निर्मित हेलेकार्बन रेफ्रिजेंट और सॉल्वेंट्स हैं। आपको बता दें कि, वर्ष 1970 के

दशक की शुरुआत से ही वैज्ञानिकों ने स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन में कमी देखी है, जिससे हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं। हालाँकि, हम मनुष्य पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली का पालन करके हुए नुकसान की भरपाई कर सकते हैं।

पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली रखने के कुछ तरीके

कचरे से खाद बनाना शुरू करें हर दिन लैंडफिल में डंप किए जाने वाले कचरे की मात्रा को कम करने में अपना योगदान दें। अपने किचन-कचरे को डंप करने से बचें और उसे खाद बनाना शुरू करें। इस तरह आप मिथेन गैस के निर्माण को रोकने में सक्षम होंगे। यह आर्थिक रूप से व्यवहार्य समाधान भी है और आपके

बनाकर अपनी समस्या सरकार के आगे रखना चाहिए और अपने हक के लिए लड़ाई करना चाहिए। वहीं वरिष्ठ पत्रकार अजय शुक्ला ने कहा कि पत्रकारों को अब एक मंच पर आकर अपनी समस्या के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए क्योंकि झाड़ू की तीली जब अकेली होती है तो आसानी से टूट जाती है परंतु झाड़ू को तोड़ना इतना आसान नहीं है। सहिन श्रीवास्तव ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि नए पत्रकारों को वरिष्ठ पत्रकारों से सीखना चाहिए और जहां भी वह भटके अपने वरिष्ठ के निर्देशन में कार्य करना चाहिए इससे उनकी क्षमता में निखार आएगा और वह और अच्छी पत्रकारिता कर सकेंगे। इसी

प्रकार से डॉ. अरशद अली ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि अब समय आ गया है की पत्रकार अपने हक और हुकूक की लड़ाई के लिए एकजुट होकर संघर्ष करें। पंजाब से पत्रकार विशाल शर्मा ने कहा कि हर वर्ष गैर मान्यता प्राप्त पत्रकारों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है लेकिन सरकार की ओर से न सुरक्षा मिल रह रही है न सहूलियत, इस वर्चुअल मीटिंग में जहां वरिष्ठ पत्रकारो ने अपने अनुभवों व सुझावों को साझा किया तो वही युवा पत्रकारों ने अपनी समस्याओं से अवगत कराया। इस अवसर ओड़िशा से किशोर कुमार मोहंते, झारखंड से विश्वजीत नंदा, ने हिस्सा लिया।

पीएम ने अपने जन्मदिन के अवसर पर करेंगे 'चीता प्रोजेक्ट' का शुभारम्भ, नामीबिया से भारत लाए जा रहे हैं 8 चीते

एनसीआर समाचार

मध्यप्रदेश श्योपुर जिले के कूनो नेशनल पार्क में बहुत जल्द सभी भारतवासियों को अफ्रीकी चीता देखने को मिलेगा। अफ्रीकी चीतों को भारत लेन की तैयारियां नामीबिया में अपने अंतिम चरण में हैं। आपको बता दें कि आठों अफ्रीकी चीतों को एक खास विमान से भारत लाया जा रहा है। चीतों को लेन वाला विमान आज नामीबिया से भारत के लिए उड़ान भरेगा और कल यानि 17 सितंबर को ग्वालियर में लैंड करेगा। चीता प्रोजेक्ट के प्रमुख एस.पी यादव के मुताबिक विशेष चार्टर कार्गो फ्लाइट जोकि पहले जयपुर में उतरने वाली थी, अब वह ग्वालियर में उतरेगी, फिर ग्वालियर से हैलीकॉप्टर को कूनो नेशनल पार्क श्योपुर लाया



जाएगा। विशेष विमान की तस्वीरें हाल ही में एयरलाइन कंपनी ने ट्वीट कर शेयर की हैं। इस फ्लाइट को स्पेशल फ्लैग नंबर 118 दिया गया है। वहीं विमान में चीते की एक आकर्षक पेंटिंग भी बनी हुई है।

17 सितंबर को प्रधानमंत्री कूनो नेशनल पार्क में छोड़ेंगे चीते

पूरी दुनिया के किसी भी देश में चीतों को एक देश से दूसरे में शिफ्ट

करने का काम एयरलाइन कंपनी पहली बार करने जा रही है। ये क्षण विमान कंपनी के लिए भी बहुत यादगार होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन 17 सितंबर के अवसर पर खुद कूनो नेशनल पार्क में बने बाड़े में चीतों को आजाद कर देश के पहले 'चीता प्रोजेक्ट' का शुभारंभ करेंगे। चीतों को लेने के लिए विमान नामीबिया पहुंच चुका है, जिसकी पहली तस्वीर नामीबिया में भारतीय दूतावास ने ट्वीट कर शेयर की है।

भारत लाये जाने वाले 8 चीतों की तस्वीर हुई जारी

भारत में करीब 70 साल बाद

भारतीय लोगों को चीता देखने को मिलेगा। सभी देशवासी इस ऐतिहासिक क्षण का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि दक्षिण एनसीआर समाचारअफ्रीका से 5 मादा और तीन नर चीते भारत लाए जा रहे हैं, जिनकी तस्वीर भी सामने आ चुकी है। चीतों की उम्र ढाई से साढ़े पांच साल के बीच है। वहीं, ये जानकारी भी सामने आई है कि आठ चीतों में दो सगे भाई भी शामिल हैं। चीता प्रोजेक्ट में शामिल एक एजेंसी चीता संरक्षण कोष से मिली जानकारी के अनुसार इन चीतों में तीन पुरुष हैं जबकि पांच मादा हैं। इनकी उम्र साढ़े चार साल, एक की उम्र दो साल, एक की ढाई साल और एक की उम्र तीन से चार साल के बीच बतायी गई है। वहीं, एक चीते की उम्र 12 साल भी बताई गई है।

जिला कॉलेज प्रभारी के नेतृत्व में छात्र अदालत ने दूर की छात्रों की समस्याएं

एनसीआर समाचार

बिहार मिथिला स्टूडेंट यूनियन के जिला कॉलेज प्रभारी अनिश चौधरी के नेतृत्व में गुरुवार को छात्र अदालत से दूर की छात्रों की समस्याएं। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के जिला कॉलेज प्रभारी अनिश चौधरी के नेतृत्व में गुरुवार को लनामि विवि परिसर में छात्र अदालत लगायी गयी। इसके माध्यम से दूर-दराज से आये छात्र-छात्राओं की समस्याओं का निदान करवाया गया। विवि प्रभारी जय प्रकाश झा ने कहा कि दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, झंझारपुर, सीतामढ़ी, सहरसा, पूर्णिया जैसे इलाकों से छात्र आए। उन्होंने कहा कि किसी को एबसेंट, किसी का प्रमोटेड तो किसी का रिजल्ट नहीं दिखाई देता है, तो किसी को प्रैक्टिकल

में नंबर नहीं दिया गया है। इसे लेकर छात्र बार-बार विश्वविद्यालय के चक्कर काट रहे हैं लेकिन प्रशासन उनकी समस्या का समाधान करने में विफल साबित हो रही है। इसका नतीजा है कि हमारे यूनियन को मजबूरी में विश्वविद्यालय में छात्र अदालत लगानी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि छात्र अदालत के माध्यम से परीक्षा नियंत्रक को नोटिस भी जारी की गयी है। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि छात्र अदालत में आए छात्रों की समस्याओं का समाधान हो, नहीं तो परीक्षा नियंत्रक अगली बार छात्र अदालत में उपस्थित हों। जिनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ होगा उन सभी छात्रों के साथ परीक्षा नियंत्रक के चेंबर में तालाबंदी की जाएगी।

प्लास्टिक को रीसायकल करें और पुनः उपयोग करें

प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक के उपयोग को कम करें। एक साधारण रीफिल करने योग्य पानी की बोतल और किराने के सामान के लिए जूट बैग जैसी कोई चीज पर्यावरण पर बहुत सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है आपको बता दें कि, जानवर का पूरा शरीर खाने योग्य नहीं होता है, इसलिए अखाद्य भागों को विघटित करना पड़ता है। जो अपघटन मिट्टी को उपजाऊ बनाने में मदद करता है, वहीं यह नाइट्रस ऑक्साइड भी पैदा करता है जो अगर ठीक से दोबारा इस्तेमाल नहीं किया गया तो हानिकारक हो सकता है। यह पोल्ट्री, डेयरी और बीफ उत्पादों को गैस के बड़े उत्पादक बनाता है।

कागजों के उपयोग से बचे जो दिन बीत गए जब हमें बिलों को संरक्षित करने या समाचार पढ़ने के लिए कागजों पर निर्भर रहना पड़ता था। डिजिटल तकनीक के आने से न केवल हमें गति और सुविधा का लाभ मिला है, बल्कि हमें पेपरलेस होने का विकल्प भी मिला है। इसलिए हर काम डिजिटल तरीके से करने की कोशिश करें।

संक्षिप्त समाचार

चार दिन से धरना में बैठे ग्रामीणों से चर्चा करने पहुंचे अध्यक्ष उपाध्यक्ष

इन्ड्रेग्नेन मार्कों / एनसीआर समाचार

मध्य प्रदेश सुडगांव मोहगांव विकासखंड के ग्राम पंचायत ठेभा में सरपंच के साथ ग्रामीण जन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले चार दिनों से जारी धरना प्रदर्शन में अधिकारी व जनप्रतिनिधियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। मांगो पर उचित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया जा रहा है, लेकिन ग्रामीण अपनी मांगो को लेकर डटे हुए हैं। मंगलवार को ग्राम पंचायत ठेभा के ग्रामीणों से मिलने जनपद पंचायत अध्यक्ष गत सिंह भवेदी, उपाध्यक्ष शिव कुमार मिश्रा पहुंचे, उन्होंने ग्रामीणों से चर्चा कर शीघ्र उनकी मांगों को शासन स्तर पर पहुंचाने का आश्वासन दिया है। गौरतलब है कि ग्राम पंचायत ठेभा के ग्रामीण गांव में सड़क, पुल, स्कूल के उन्वयन सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं की मांगों को लेकर पिछले धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।

गुरुनानकपुरा में 5 दिन से नहीं आ रहा पानी, पानी न आने से लोग परेशान

हरियाणा मोहल्ला गुरुनानक पुरा में पिछले एक साल से एक दिन छोड़ कर पानी आ रहा है लेकिन पिछले 5 दिन से मोहल्ला गुरु नानक पुरा में पानी नहीं आया। मोहल्लावासी टैंकर मंगवा कर पानी की पूर्ति कर रहे हैं। वहीं पानी की टैंकी पर पानी सप्लाई छोड़ने वालों से निजी / दूरभाष के संपर्क करने पर कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया जा रहा। जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी / प्रशासन इस ओर ध्यान दें और शीघ्रातिशीघ्र पानी सप्लाई करवाने का कष्ट करे ताकि मोहल्लावासियों को किसी प्रकार दिकत का सामना न करना पड़े।

राज्यपाल ने नीट-2022 के प्रदेश टॉपर आदित्य राज शर्मा को किया सम्मानित

राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर से आज राजभवन में नीट-2022 में हिमाचल प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल करने वाले आदित्य राज शर्मा ने भेंट की। राज्यपाल ने आदित्य राज को सम्मानित किया और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। आदित्य की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए राज्यपाल ने कहा कि, उनकी इस उपलब्धि से प्रदेश का नाम रोशन हुआ है। वह प्रदेश के युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत हैं। राज्यपाल ने आदित्य राज के अभिभावकों और शिक्षकों को भी बधाई देते हुए कहा कि उनकी प्रेरणा और योगदान से आदित्य प्रथम स्थान अर्जित करने में सफल हो गए हैं। इस अवसर पर एम्पायर एकेडमी के प्रबन्धक और आदित्य राज की माता उपस्थित थी।

आगामी चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में अपना परचम लहराने की तैयारियां शुरू की

मध्य प्रदेश सारंगपुर आम आदमी पार्टी के प्रति निष्ठा एवं समर्पण की भावनाओं को देखते हुए राजगढ़ जिले में अपने कर्मठ निष्ठावान कार्यकर्ताओं की नियुक्तियां की जा रही है इसी क्रम में आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश के प्रभारी मुकेश गोयल की सहमति से एवं प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह, व प्रदेश सेंट्रल सचिव ठाकुर नरेंद्र दंगी की अनुशंसा पर राजगढ़ जिला अध्यक्ष वीरेंद्र यादव के द्वारा राजगढ़ जिले के सारंगपुर विधानसभा अध्यक्ष पद पर एम.ए.अलीबाबा (सदर) को नियुक्त किया गया। वहीं जिम्मेदारियों का निर्वाह करने वाले पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता अश्विन सिंह छाबड़ा को जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है नवनियुक्त विधानसभा प्रभारी एम.ए.अलीम बाबा ने कहा कि सत्ता नहीं व्यवस्था परिवर्तन की इस लड़ाई में हम सब मिलकर राजनैतिक क्रांतियों के लिए संकल्पित होकर जनता की सेवा करेंगे नगर सारंगपुर में एक विशाल सदस्यता अभियान शिविर भी आयोजित किया गया था, जिसमें सारंगपुर विधानसभा के करीब 250 आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपना रजिस्ट्रेशन भी करवाया, जो एक विशाल पार्टी बनकर उभरेगी।

किसान सभा ने जिला कलेक्टर को सौपा झापन, मुजावज व फसल बीमा क्लेम दिलवाने की मांग

राजस्थान चूरु में अखिल भारतीय किसान सभा जिला कमेटी ने जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग को झपन देकर जिले में लंबे समय से बरसात नहीं होने के कारण अकाल की स्थिति बन गई है। ऐसे में किसानों के फसल खराब होने का सुआवया दिलवाया जाए, खराब फसलों की करोपकटिंग रिपोर्ट करवाई जाकर फसल बीमा क्लेम दिलवाया जाए व जिले की भानीपुरा तहसील का रेवेन्यू रिकॉर्ड ऑनलाइन नहीं होने के कारण गिरदावरी व करोपकटिंग रिपोर्ट में आ रही अड़वनों का समाधान करने की मांग की गई है। भानीपुरा का रेवेन्यू रिकॉर्ड ऑनलाइन नहीं होने के कारण आ रही बाधा का समाधान आज ही करने का आश्वासन दिया है। झपन देने वालों में राज्य कमेटी सदस्य निर्मल कुमार, जिलाध्यक्ष इंद्राजसिंह, जिला कमेटी सदस्य दीपाराम प्रजापत शामिल रहे।

59 जनपदों में न्यूनतम 1 मेट्रिक कौंलेज क्रियाशील

16 जनपदों में पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज के स्थापना की प्रक्रिया शुरू

गोरखपुर, रायबरेली एम्स का संचालन शुरू और सभी लोगों ने आभार व्यक्त किया हैं। कि देश के यस्वी प्रधानमंत्री यूवाओं के लिए विकास कार्य कर रहे हैं और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं।

प्रदेशाध्यक्ष पंडित सुनील पीढ़ी ने क्षेत्र के उभरते सितारे जे.पी. शर्मा को भरतपुर संभाग के उपाध्यक्ष पद पर मनोनीत किया भानु जोशी / एनसीआर समाचार

राजस्थान राष्ट्रीय परशुराम सेना के प्रदेशाध्यक्ष पंडित सुनील पीढ़ी ने क्षेत्र के उभरते सितारे जे.पी. शर्मा को भरतपुर संभाग के उपाध्यक्ष पद पर मनोनीत किया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष सुनील पीढ़ी ने बताया कि जे.पी. शर्मा राजनैतिक और सामाजिक पकड़ रखते हुए लोगों की मदद के लिए हर संभव प्रयासरत रहते है। इस मौके पर प्रदेश प्रभारी रोहिताश चतुर्सेदी, प्रदेश महामंत्री श्याम सुंदर कटार, प्रदेश कोषाध्यक्ष मनीष कलसाडा, प्रदेश महासचिव डॉक्टर गुलाब चंद शर्मा, प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष नीतीश कोशिक, प्रदेश पवक्ता रविन्द्र मोहन शर्मा, प्रदेश सचिव अचनीश शर्मा, युवा प्रदेश अध्यक्ष पंडित सोनू पंडित जाटौली, युवा मोर्चा तहसील अध्यक्ष भानु जोशी, एवं संभाग प्रभारी प्रधानाचार्य ने शुभकामनाएं दी।

सीएम ने किया कई परियोजनाओं का शिलान्यास

एनसीआर समाचार

हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज मण्डी जिला के सराज विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत बस्सी व मुस्सरानी में विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के शिलान्यास किये। उन्होंने 1.68 करोड़ रुपये की लागत से धरोटधार हेलीपैड के सौन्दर्यीकरण तथा 22 लाख रुपये की लागत से निर्मित होने पशु औषधालय भवन बस्सी का शिलान्यास किया। उन्होंने ग्राम पंचायत बस्सी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भी शुभारंभ किया।

इस अवसर पर उन्होंने धरोटधार व बस्सी में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि, पूर्व में सराज विधानसभा क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं का बहुत अभाव था, लेकिन पिछले 25 वर्षों से लोगों के सहयोग से क्षेत्र में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य मूलभूत सुविधाएं सुदृढ़ की गई हैं। उन्होंने कहा कि, सराज विधानसभा क्षेत्र को प्रदेश का नेतृत्व करने का अवसर



प्राप्त हुआ है जो प्रत्येक क्षेत्रवासी के लिये गौरव का विषय है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 वैश्विक महामारी संकट काल के दौरान भी संपूर्ण प्रदेश में विकास कार्यों में कोई कमी नहीं आने दी गई। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने लगभग पांच वर्षों के दौरान राज्य में विकास की गति को तेज किया है तथा विकास कार्यों के लिये धन की कोई कमी नहीं आने दी गई।

आदित्य अजय कपूर की गिरफ्तारी का हुआ खुलासा, तेलुगु अभिनेत्री से शादी के बहाने किया था बलात्कार

एनसीआर समाचार

खबरों में चल रही हलचल को देखते हुए यह दावा किया गया है कि, हाल ही में मुंबई पुलिस ने एक फिटनेस ट्रेनर को एक तेलुगु अभिनेत्री से शादी के बहाने बलात्कार करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, पीड़िता ने आरोपी आदित्य अजय कपूर से एक कॉमन फ्रेंड के घर पर मुलाकात की और दोनों ने वहां फोन नंबर का आदान-प्रदान किया।

एक दूसरे के संपर्क में रहने के बाद दोनों समय के साथ करीब आ गए। FIR में दावा किया गया है कि अभिनेत्री के साथ मुंबई और गोवा में भी बलात्कार किया गया था। इस मामले में गहराई से खुलासा करते हुए अधिकारी ने FIR का हवाला देते हुए कहा, रकपूर ने शादी का वादा कर महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाए। जब अभिनेत्री ने शादी के लिए कहा, तो उसने जोर देकर कहा कि

वह उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए रखे। जब उसने मना कर दिया। उसने उसे गालियां देना और मारपीट करना शुरू कर दिया। उसने पीड़िता के माता-पिता के फोन नंबरों पर अश्लील संदेश भेजे और उसे जान से मारने की धमकी दी। उत्पीड़न से तंग आकर महिला ने पुलिस से संपर्क किया। जानकारी के मुताबिक प्राथमिकी शुरू में मुंबई के एनएम जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी और बाद में कफ परेड पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दी गई क्योंकि अपराध उनके अधिकार क्षेत्र में हुआ था। अब आरोपी को बलात्कार, और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सहित भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत हिरासत में ले लिया गया है। फिलहाल इस मामले में जांच जारी है। अनजान लोगों के लिए, अभिनेत्री कुछ तेलुगु फिल्मों का हिस्सा रही है।

1 अक्टूबर से बंद हो जाएगी मुफ्त बिजली की सुविधा

एनसीआर समाचार

राजधानी दिल्ली में रहने वाले लगभग सभी परिवारों को अब तक मुफ्त बिजली और पानी दिल्ली सरकार की तरफ से दी जा रही थी, लेकिन अब दिल्ली सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। दिल्ली सरकार ने मुफ्त बिजली की सुविधा को बंद करने का निर्णय ले लिया है। आपको बता दें कि, मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने अपने इस फैसले के बाद एक ऐसी बात भी कही है जो दिल्ली वासियों के हक में है। उन्होंने आने वाले महीने अक्टूबर की 1 तारीख से सभी घरों में मुफ्त बिजली की सुविधा को बंद करने के एलान के



साथ ये भी कहा कि, अगर आप ये सुविधा निरंतर पाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए आवेदन करना होगा। उन्होंने कहा, जो मांगेगा उसे मिलेगा। अगर आप भी मुफ्त बिजली की सुविधा पाना चाहते हैं तो आपको 30 सितंबर के बाद इसके लिए आवेदन करना होगा तभी यह सुविधा आपके घर तक पहुँचती रहेगी।

उत्तर प्रदेश जनपद संभल में यह बात आम हो गयी है कि राशन डीलर राशन कम तोलता है, उसके साथ सरकार के द्वारा दी जा रही सामग्री को भी नहीं देता है ऐसी शिकायतें विभाग के लिए आए दिन मिलती हैं परंतु विवाह की तरफ से ना कोई जांच होती है ना ही कोई कार्रवाई अगर एक परसेंट जांच हो भी जाती है।

ग्रामीणों ने आज गुरुवार के लिए लगभग 70 से 80 ग्रामीणों ने सप्लाई कार्यालय के सामने नारेबाजी करना शुरू कर दिया तथा एक लिखित शिकायत पत्र जिस पर लगभग 70 से 80 ग्रामीणों के हस्ताक्षर तथा अंगूठे लगे हुए थे। जब वह पूर्ति निरीक्षक के कार्यालय में पहुंचे पूर्ति निरीक्षक वहां मौजूद नहीं थे वहां पर तहसील चंदौसी के सप्लाई स्पेक्टर मौजूद थे ग्रामीणों ने शिकायत पत्र देकर उनसे आग्रह किया सप्लाई स्पेक्टर कहा कि इस समय मेरी तबीयत खराब है शिकायत पत्र के आधार पर जांच में यह कमियां पाई जाती है तो उसके



खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी उन्होंने ग्रामीणों से 15 दिन का समय मांगा है। इसी क्रम में सप्लाई स्पेक्टर के पास पूर्ति निरीक्षक नरेंद्र कुमार तिवारी का फोन आता है कि हमारी ग्रामीणों से बात कराएं ग्रामीणों के साथ आए प्रधान पति ने पूर्ति निरीक्षक से बात की, फोन पर बात सुनकर प्रधान तथा ग्रामीण शक्ते में आ गए। वहीं डीलर शिवकुमार 1 यूनिट पर 1 किलो राशन कार्ड का है उसने रिफाईंड चना नमक आदि

करने तथा मंडी-जंजैहली वाया बस्सी इत्यादि रूट पर बस सेवा संचालित करने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि वन स्वीकृति प्राप्त होते ही बाहवा-खुडला-खून-त्रैम्बली सड़क के निर्माण के लिए भी पर्याप्त धनराशि मुहैया करवाई जाएगी। उन्होंने युवक मंडल भवन बस्सी के निर्माण के लिए तीन लाख रुपये तथा सामुदायिक भवन भलौट के निर्माण के लिये भी 3 लाख रुपये प्रदान करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने प्राथमिक पाठशाला दारन को माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने तथा नवनिर्मित ग्राम पंचायत गुडहार में उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने की भी घोषणा की। उन्होंने महिला मंडल टिकर धार व बाता सेर को 2-2 लाख रुपये देने की घोषणा की। उन्होंने आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए महिला मंडल टिकर धार व बाता सेर को 15-15 हजार रुपये देने की भी घोषणा की। उन्होंने अधिकारियों को प्राथमिक

पाठशाला बस्सी के पुराने भवन को असुरक्षित घोषित करने के लिये निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश दिये ताकि यहां नए भवन का निर्माण किया जा सके। उन्होंने धरोटधार में सामुदायिक भवन निर्माण करने की भी घोषणा की। इससे पहले, मुख्यमंत्री के धरोटधार व बस्सी आगमन पर स्थानीय लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश राज्य रेडक्रॉस सोसायटी, अस्पताल कल्याण शाखा की अध्यक्ष डॉ. साधना ठाकुर, भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य गुलजारी लाल, जिला परिषद सदस्य रजनी ठाकुर, जिला परिषद के पूर्व सदस्य किशोर कुमार, भारती शर्मा, पंचायत समिति की सदस्य गीता, दीवान ठाकुर, चमन ठाकुर, ग्राम पंचायत बस्सी की प्रधान सासन रानी, ग्राम पंचायत मुस्सरानी के प्रधान हेम राज, उपायुक्त अरिंदम चौधरी, पुलिस अधीक्षक शालिनी अग्निहोत्री और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

ग्रामीणों ने घटतोली का डीलर पर लगाया आरोप

एनसीआर समाचार

उत्तर प्रदेश जनपद संभल में यह बात आम हो गयी है कि राशन डीलर राशन कम तोलता है, उसके साथ सरकार के द्वारा दी जा रही सामग्री को भी नहीं देता है ऐसी शिकायतें विभाग के लिए आए दिन मिलती हैं परंतु विवाह की तरफ से ना कोई जांच होती है ना ही कोई कार्रवाई अगर एक परसेंट जांच हो भी जाती है।



खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी उन्होंने ग्रामीणों से 15 दिन का समय मांगा है। इसी क्रम में सप्लाई स्पेक्टर के पास पूर्ति निरीक्षक नरेंद्र कुमार तिवारी का फोन आता है कि हमारी ग्रामीणों से बात कराएं ग्रामीणों के साथ आए प्रधान पति ने पूर्ति निरीक्षक से बात की, फोन पर बात सुनकर प्रधान तथा ग्रामीण शक्ते में आ गए। वहीं डीलर शिवकुमार 1 यूनिट पर 1 किलो राशन कार्ड का है उसने रिफाईंड चना नमक आदि

कुछ नहीं दिया राशन लेने जाओ तो बड़ी बड़ी गालियां देता है। आज जब हम इसकी शिकायत करने जिला पूर्ति अधिकारी नरेंद्र कुमार तिवारी से करने आए वह तो वे ऑफिस में नहीं मिले स्पेक्टर के जरिया उनसे बात की तो उन्होंने फोन पर ऐसे शब्द बोले कि एक अधिकारी को जनता के प्रति ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहिए। पूर्ति निरीक्षक ने कहा कि जिस तरह से तुम मेरे कार्यालय पर ग्रामीणों को लाकर नारे लगा रहे हो इसी तरह से

मैं लोगों को इकट्ठा कर तुम्हारे यहां नारे लगाओ तो तुम्हें कैसा लगेगा। यह बात सुनकर ग्राम प्रधान तथा जनता में काफी रोष है। सिकायत कर्ता, अनेक पाल सिंह, रामदास, राजा राम, हमीश पाल, चंद्रसेन, कुंवर पाल, नेपाल, कुंवर पाल सिंह, अशोक सिंह, हरि ओम, राकेश कुमार, प्रेमपाल, मदन सिंह, नेपाल सिंह, भोपाल पुत्र मूलचंद्र, मोहनलाल, जगतपाल, कल्लू सिंह, बदन सिंह आदि।

अनूप शहर में हिंदी दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया

एनसीआर समाचार

उत्तर प्रदेश के अनूप शहर में हिंदी दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, क्षेत्र के बिलेक्स इंटरनेशनल स्कूल शैल्यपुरी अनूप शहर वह एल (डी.ए.वी इंटर कॉलेज) अनूप शहर में हिंदी दिवस पर मजबूत परिवारों को सख्बिडी प्रदान करने के बजाय, इन पैसों का उपयोग स्कूलों और अस्पतालों के लिए किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल के अनुसार 16-17 लाख परिवार ऐसे हैं, जिनके आधे बिल आते हैं। 30 लाख परिवारों को मुफ्त बिजली मिल रही है।

विदेशों में भी है। हिंदी हमारी मां है मुंशी प्रेमचंद आदि कवियों के जीवन पर प्रकाश डाला स्कूल के छात्र छात्राओं ने कविताओं के माध्यम से हिंदी विषय पर प्रकाश डाला कार्यक्रम की अध्यक्ष ने अपने संबोधन में कहा हिंदी हमें संस्कार सिखाती है देश की स्वतंत्रता में हिंदी का बहुत बड़ा योगदान रहा है अंग्रेजी भाषा के साथ हिंदी भाषा को ना भूलें रविंद्र कुमार इंसानी छात्र-छात्राओं से संवाद करके अवगत कराया की हिंदी हमें अपने माता पिता एवं बुजुर्गों का सम्मान करना सिखाती है। हिंदी हमारे देश की पहचान है।

बादलों में बने दुनिया के सबसे ऊँचे रेल पुल 'चिनाब ब्रिज' की कुछ शानदार तस्वीरें आई सामने, लोगों ने कहा आटवां अजूबा

एनसीआर समाचार

रेल मंत्रालय ने दिवटर पर बादलों के ऊपर खड़े दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल 'चिनाब ब्रिज' की कुछ शानदार तस्वीरें साझा की हैं। दिन के अलग-अलग समय के दौरान ली गई चार तस्वीरों में चिनाब पुल को दिखाया गया है, जिसका स्टील स्रृज की रोशनी में चमकता है, जो नीले आसमान और ऊंचे पहाड़ों की वादियों में बना हुआ है। मंत्रालय ने दिवटर पर पोस्ट किए गएचाने खूबसूरत चिनाब ब्रिज का नजारा। जम्मू-कश्मीर में रियासी जिले के कौरी इलाके में चिनाब



नदी पर बना पुल 14 अगस्त को उस समय चर्चा में था, जब पुल के ऊपरी डेक को एक सुनहरे जोड़ के साथ पूरा किया गया था। नदी के तल से 359 मीटर ऊपर खड़े इस पुल में 93 डेक खंड शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक का

वजन लगभग 85 टन है, जो लगभग 75 किमी दूर कटरा (जम्मू) को काजीगुंड (कश्मीर) से जोड़ने वाली सिंगल लाइन पर है। यह पुल 272 किलोमीटर के उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक (USBRL)



परियोजना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य जम्मू को कश्मीर घाटी के साथ हर मौसम में हाईस्पीड विकल्प के रूप में जोड़ना है। 272 किमी लंबी रेलवे लाइन में देश की सबसे लंबी सुरंग T-49 (12.75 किमी) और 927 बड़े और

छोटे पुल (कुल लंबाई 13 किमी) के साथ 38 सुरंग (कुल लंबाई 119 किमी) होगी। कश्मीर क्षेत्र को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने के लिए चिनाब रेलवे ब्रिज के अलावा उबड़-खाबड़ इलाकों में 16 अतिरिक्त पुल भी बनाए जा रहे

हैं। नवंबर 2017 में मुख्य मेहराब के निर्माण की शुरुआत के लिए आधार समर्थन को पूर्ण घोषित किया गया था। पुल पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया था और अगस्त 2022 में इसका उद्घाटन किया गया। दिवटर पर तस्वीरें साझा किए जाने के बाद, इंजीनियरिंग के इस चमत्कार पर तुरंत सराहनाओं की बौछारें आने लगी। एक दिवटर यूजर ने कहा रजब इंजीनियरिंग बादलों से मिलती है, तो सपने सच होते हैं। हैरी पॉटर श्रृंखला या थोर के असगाई की तरह दिखता है।

संक्षिप्त समाचार

स्वास्थ्य मंत्री नबकिशोर दास को पेनकक सिलट एसोसिएशन ओडिशा का मुख्य संरक्षक नियुक्त किया

ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्री नबकिशोर दास को पेनकक सिलट एसोसिएशन ओडिशा का मुख्य संरक्षक नियुक्त किया गया है। यह एसोसिएशन और उसके सभी सदस्यों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। एसोसिएशन के अध्यक्ष तपस कुमार रॉय चौधरी, संपादक गुरु प्रेम सिंह थापा और सभी सदस्यों ने इस नई जिम्मेदारी के लिए नबकिशोर दास को धन्यवाद और शुभकामना दिया। इसके अलावा, इसके सभी सदस्यों को आज ओडिशा ओलंपिक संघ द्वारा एसोसिएसन को मान्यता प्राप्त होने पर गर्व है। ओडिशा पेनकक सिल्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष तापस कुमार रॉय चौधरी और सदस्यों ने ओडिशा ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष अभिजीत पॉल को धन्यवाद दिया। यह पहल आने वाले दिनों में ओडिशा की कई प्रतिभाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेगी और उम्मीद है कि एक दिन यह हमारे राज्य ओडिशा को गौरवान्वित करेगी।

सागर महापौर ने किया मेयर-इन-काउंसिल का विस्तार, 4 नये सदस्यों को दी गई जगह

मध्य प्रदेश सागर महापौर संगीता सुशील तिवारी द्वारा 12 अगस्त 2022 को मेयर-इन-काउंसिल का गठन किया गया था, जिसमें 6 सदस्यों को मेयर-इन-काउंसिल में स्थान दिया गया था और शेष 4 रिक्त स्थानों पर नये सदस्यों को शामिल कर लिया गया है, साथ ही उन्हें विभाग भी आवंटित कर दिये गये है। इस प्रकार 10 सदस्यीय मेयर-इन-काउंसिल में सभी स्थान पूरे हो चुके है। शेष रिक्त 4 स्थानों पर जिन सदस्यों को मौका दिया गया है उनमें संगीता शैलेष जैन जलकार्य तथा सीवरेज विभाग, मेघा दुबे वित्त एवं लेखा विभाग, आपारानी नंदन जैन विद्युत एवं यांत्रिकी विभाग, शैलेष केशरवानी स्वच्छता एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विभाग शामिल है। **प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर किया गया भ्रष्टाचार, सीओ से आवेदन करने से नहीं हुई कोई सुनवाई** मध्य प्रदेश राजगढ़ जिले की तहसील सुठालिया के अंतर्गत ग्राम पंचायत सीलखेड़ा का मामला है जोकि प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर किया गया भ्रष्टाचार, ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच एवं सचिव द्वारा 10000-10000 पैसे की मांग की थी किंतु ग्रामीणों ने नहीं दिया तो उनको प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची से अपात्र कर दिया इस संबंध में ग्रामीणों ने जिला पंचायत, सीओ को भी आवेदन दे दिया किंतु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इधर ग्रामीण जनों का कहना है कि हमारा पहले तो प्रधानमंत्री आवास सूची में नाम था किंतु हमने पैसे नहीं दिए तो हमारा नाम हटा दिया गया इधर ग्रामीण परेशान होकर जिला कलेक्टर महोदय से लगाई न्याय की गुहार किंतु शिकायतकर्ता हरि प्रकाश घीसा लाल सीताराम शंभूलाल बबू से नवन फूल सिंह नारायण सिंह कुकेश विष्णु आदि ग्रामीण जन परेशान है किंतु अभी तक कोई कार्रवाई एवं जांच नहीं हुई।

नशीला रंग के तस्करों के खिलाफ जारी, पुलिस ने नाकों तस्करों को धर दबोचा

जम्मू कश्मीर में नशीली दवाओं के तस्कर के खिलाफ अभियान जारी रखते हुए पुछ पुलिस ने मादक पदार्थ तस्कर मोहम्मद वसीम पुत्र हसन मोहम्मद निवासी अनूप नगर फदलपुर मेरिट सिटी एपी जोगी मोड़ सुरनकोट को सुरनकोट टाउन से गिरफ्तार किया गया। आरोपी व्यक्ति की हिरासत से लगभग 450 ग्राम वजनी गांजा जैसा मादक पदार्थ बरामद किया गया है। पुलिस टीम का नेतृत्व एसएचओ थाना सुरनकोट कर रहे हैं। राजवीर सिंह, एसएसपी पुछ के निर्देश पर डीवाईएसपी सुरनकोट तनवीर जेलानी की कड़ी निगरानी में रोहित बसकोत्रा सुरनकोट कस्बा क्षेत्र में नियमित गश्त पर थे। गश्त के दौरान आरोपी व्यक्ति के पास से बरामद नशीला पदार्थ जैसे मादक द्रव्य की मात्रा। इस संबंध में मामला प्राथमिकी संख्या 298/2022 यू/एस 8/20 एनडीपीएस एक्ट पुलिस स्टेशन सुरनकोट में दर्ज कर जांच की गई। पुछ पुलिस ने पुछ के सभी नागरिकों को नशीली दवाओं के खतरे के बारे में जागरूक होने और किसी भी घटना की सूचना पुछ पुलिस को देने का निर्देश दिया है, उसकी पहचान गुप्त रखी जाएगी।

गोंडा में एम्बुलेंस के अंदर कराया गया गर्भवती महिला का सुरक्षित प्रसव

गोंडा में सरकार द्वारा चलाई जा रही 108 एंबुलेंस सेवा निरंतर अपनी सेवा से अपातकालीन सेवा एवं गर्भवती महिलाओं व नवजात शिशुओं को बचाता आ रहा है। इसी क्रम मे जनपद गोंडा ब्लॉक कर्नल गंज अन्तर्गत ग्राम कटरा सहबाज पुर 30 वर्षीय उर्मिला पत्नी राजू को अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हुई। जिसपर एम्बुलेंस हेतु 108 पर कंट्रोल रूम फोन किया गया। वहीं कुछ मिनटों UP32eg 0092 जिला अस्पताल लोकेशन की एम्बुलेंस उनके घर पहुंची और प्रसूता को लेकर जैसे ही अस्पताल के लिए निकली कुछ ही दूरी पर महिला को प्रसव पीड़ा होने लगी। जिसपर 108 एम्बुलेंस के एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन ओम प्रकाश गौतम व पायलेट जय सिंह यादव द्वारा एम्बुलेंस सड़क के किनारे खड़ा कर एवम् घर की महिलाओं के सहयोग से प्रसूता का सुरक्षित प्रसव करवाया गया, जिसके उपरंत इनको नजदीकी सी एच सी कर्नल गंज में भर्ती करवाया गया। जहां मौजूद चिकित्सक ने जच्चा बच्चा दोनों को स्वस्थ बताया। उसके बाद एम्बुलेंस ई.एम.टी. ओम प्रकाश गौतम ने इसकी सूचना 108/102 एम्बुलेंस के जिला प्रभारी कुलदीप सिंह एवम् प्रोग्राम मैनेजर संजय कुमार पांडे को दी गई।

सचेत पर्यट शिक्षा फाउंडेशन द्वारा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का शुभारंभ

मध्य प्रदेश ग्वालियर से संचालित सचेत पर्यट शिक्षा फाउंडेशन द्वारा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया, इस प्रोग्राम में बच्चों को फॉलिलडवर्स सॉफ्टवेयर पर काम करना सिखाया जाएगा इस कोर्स की फीस बाजार में 9000 से लेकर 15000 तक होती है लेकिन सचेत पर्यट शिक्षा फाउंडेशन द्वारा यह ट्रेनिंग मात्र 3500 में दी जा रही है। उक्त कार्यक्रम को संस्था के सचिव राजन शर्मा, प्रतीक कुमार जैन व मिस वैभवी द्वारा संचालित किया जा रहा है।

सराज विधानसभा क्षेत्र में 30.32 करोड़ रुपये लागत की विकासात्मक परियोजनाओं का किया लोकार्पण

एनसीआर समाचार

हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज सराआर ज विधानसभा क्षेत्र के बागाचनोगी के कुठेड़ में 4.50 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित राजकीय वरिष्ठ माध्यामिक पाठशाला भवन और बागाचनोगी में 37 लाख रुपये से बने राजकीय वरिष्ठ माध्यामिक पाठशाला के अतिरिक्त भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने 23 लाख रुपये लागत के आधुनिक औषधालय थाना कुठेड़ भवन, 1.17 करोड़ रुपये की उठाऊ जलापूर्ति योजना भाटकीधार बागाचनोगी और बागाचनोगी में 84 लाख रुपये की लागत से निर्मित जल शक्ति विभाग के सहायक अभियन्ता कार्यालय एवं आवास का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने 86 लाख रुपये लागत की बजैहल, झमाच, शिवा,

छोहाधार तथा धवास उठाऊ जलापूर्ति योजना, कडौण में 42 लाख रुपये की लागत से निर्मित वन विभाग के निरीक्षण कुटीर, सपैहणीधार में 40 लाख रुपये की लागत से निर्मित वन विभाग के निरीक्षण कुटीर और 84 लाख रुपये लागत से निर्मित राजकीय उच्च विद्यालय भाटकीधार भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने विद्युत उपमण्डल बागाचनोगी, लम्बाथाच चियूणी सड़क पर 1.65 करोड़ रुपये के जल शक्ति विभाग के निरीक्षण कुटीर तथा 50 लाख रुपये लागत की उठाउ जलापूर्ति योजना शिल्हीबागी के नवीनीकरण का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने शिवाखड़ में 22 लाख रुपये से पशु औषधालय भवन, बागाचनोगी में लोक निर्माण विभाग के 1.82 करोड़ रुपये की लागत से बनने



वाले विश्राम गृह भवन और 2.94 करोड़ रुपये की उठाऊ सिंचाई योजना चेत का शिलान्यास किया। उन्होंने 7.24 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली उठाऊ सिंचाई योजना बागाचनोगी और 1.98 करोड़ रुपये की उठाउ सिंचाई योजना शिल्हीबागी का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर बागाचनोगी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा

कि गत पौने पांच वर्षों में सराज विधानसभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग के माध्यम से विभिन्न विभागों के 98 भवनों के निर्माण के लिए 386 करोड़ रुपये की धन राशि स्वीकृत की गई है। इनमें से 30 भवनों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और अन्यो का कार्य प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए यहां सड़कों का बिछाया गया है। इस

आकाश तोमर ने दिल्ली की एक दम्पति की मरी सूनी गोद

एनसीआर समाचार

उत्तर प्रदेश में 14 सितंबर को पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने बाल संरक्षित गृह में संवासित 01 बच्चे को भारत सरकार द्वारा जारी एडाप्शन एगुलेशन 2017 के तहत दिल्ली के एक दम्पति को बाल संरक्षण इकाई के अध्यक्ष जिलाधिकारी महोदय गोण्डा के आदेशानुसार सुपुर्दगी में देकर उनकी सूनी गोद को हरा भरा कर दिया। पुलिस अधीक्षक ने बताया की सम्पूर्ण कार्यवाही जेजे, एएट, ICPS , कारा, एवं भारत सरकार द्वारा जारी एडाप्शन रेगुलेशन 2017 के अनुरूप वाल संरक्षण गृह गोण्डा में संवासित बच्चे को दिल्ली के दम्पति को नियमानुसार दिया गया तथा बच्चे को गोद लेने वाले दम्पति को बच्चों का ख्याल रखने के लिए परिजनों से समुचित माहौल / वातावरण में रखने, शिक्षण प्रशिक्षण, खेलकूद एवं



मनोरंजन, स्वास्थ्य सम्बन्धित देखभाल, चिकित्सा सुरक्षा आदि का विशेष ख्याल रखने के लिए बताया। वहीं दम्पति ने बच्चे को पाकर खुशी का इजहार करते हुए सभी को धन्यवाद दिया तथा सभी को आश्वासत किया कि वे बच्चे के परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इस मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा शिवराज, क्षेत्राधिकारी सदर विनय कुमार सिंह, पुलिस व चाइल्ड हेल्पलाईन के अधिकारी / कर्मचारीगण मौजूद रहे।

एनसीआर समाचार

राजस्थान राजीव गांधी ग्रामीण ओलम्पिक खेलों में आज विभिन्न ग्राम पंचायतों की खोखो, कबड्डी, टेनिस बॉल क्रिकेट, शूटिंग बॉल आदि टीमों के जबरदस्त रोमांचक मैच हुए। आज टीमों का परिचय मुख्य ब्लॉक शिक्षाधिकारी बबलेश शर्मा, राजकुमार पूनिया, सुखबीर सिंह, नरेशचंद्र, पुरुषोत्तम सहारन, आनन्द डांगी, महात्मा गांधी स्कूल प्राचार्य उर्मिला पूनिया आदि ने प्राप्त किया। आज प्रशासन ने बल्लियां व बैरिकेड्स लगाए तथा डॉक्टरस व पुलिस जाब्ले की पूर्ण व्यवस्था रखी, कल के दर्शकों के तनाव हूटिंग बाजी को देखते हुए आज प्रशासन पूर्णतः अलर्ट रहा। मीडिया के खेल प्रवक्ता मनोज पुनिया ने प्रेस को बताया कि आज 3 बजे



तक के परिणामों में शूटिंग बाल में हरपालु कुबड़ी ने नवा को वाक ओवर से हराया लीलकी ने 20 पॉइंट से गुगलवा को हराया वहीं गोठया बड़ी ने महलाना उत्तराधा को हराया। मानपुरा ने लाखलान को हराया। खो खो में रतनपुरा ने चैनपुरा छोटा को 9 अंकों से पराजित किया। मुंदी ताल ने तांबा खेड़ी को 18 पॉइंट से हराया। खुड्डी ने नेशल को हराया, भुवाड़ी ने कांजण को 2 अंक से हराया, महिला कबड्डी

एसोसिएशन का इलेक्शन जीत कर आए पद अधिकारियों ने शपथ ग्रहण समारोह किया आयोजित

सलमान थानीवी / एनसीआर समाचार

उत्तर पूर्वी दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में नर्सज एसोसिएशन का इलेक्शन जीत कर आए पद अधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ जिसमें जितेंद्र रोहिला को अध्यक्ष चुना गया और जिसमे जितेंद्र कुमार अध्यक्ष ने नर्सज की समस्याओं के बारे में बताया। मेडिकल डायरेक्टर डॉ गिरी ने नर्सज की सभी समस्याओं पर त्वरित कार्यवाही का आश्वासन दिया। वहीं जीवेश पांडे को सचिव चुना गया हैं जितेंद्र रोहिला ने बताया ये नर्सज



की तरफ से नर्सज की मांगों पर जल्द कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। वहीं जीवेश पांडे को सचिव चुना गया हैं जितेंद्र रोहिला ने बताया ये नर्सज

एसोसिएशन किस तरह से कार्य करती हैं और नर्सज कर्मियों के लिए उनकी लड़ाई को स्वतंत्र तरीके से लड़ती हैं और इनको न्याय दिलाने का काम

करती है व अध्यक्ष जौनसंज कर्मियों के बारे में बताया हैं की नर्सज के बिना किसी भी अस्पताल की कल्पना नहीं की जा सकती, इनकी सेवाएं मरीजों के लिए अहम होती हैं। मरीज की जिंदगी बचाने में जितना योगदान डॉक्टरस का होता है, उतना ही एक नर्स का भी होता हैं इस दौरान उन्होंने निदेशक से निवेदन किया हैं कि नर्सज की मांगों को पूरा किया जाए और उनके अधिकारों खयाल रखा जाय। कार्यक्रम में काफी पद आधिकारी उपस्थित रहे हैं।

कनॉट प्लेस और साकेत को जल्द मिलेगी माइक्रोब्रेवरीज

एनसीआर समाचार

नई दिल्ली: वर्तमान में ताजी पीसा बियर के लिए गुड़गांव या नोएडा की यात्रा करते हैं, वे अब इसे दिल्ली में ही प्राप्त कर सकते हैं। आबकारी विभाग ने साकेत मॉल के साथ-साथ मध्य दिल्ली में भी माइक्रोब्रेवरीज और ड्राफ्ट बियर के लिए दो लाइसेंस दिए हैं। अधिकारियों के अनुसार पांच संस्थाओं ने माइक्रोब्रायरी लाइसेंस के लिए आवेदन किया है, जिनमें से दो को मंजूरी मिल गई है। बाकी तीन को भी जल्द ही मंजूरी मिलनी तय है। साकेत में एल-11 लाइसेंस के तहत 10 माइक्रोब्रायरी खुलेगी और कुछ के 1 अक्टूबर से कनॉट प्लेस और अन्य जगहों पर भी खुलने की उम्मीद है। बता दे कि अब खत्म हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के तहत माइक्रोब्रेवरीज और ड्राफ्ट बियर के प्रावधान थे, लेकिन उन्हें लागू नहीं किया गया क्योंकि नई नीति के तहत



संशोधित नियम और शर्तों को समय पर अधिसूचित नहीं किया गया था। हालांकि पुरानी आबकारी व्यवस्था के तहत, हमने नियम और शर्तों को मंजूरी दे दी है और दिल्ली में माइक्रोब्रेवरीज स्थापित करने की अनुमति दे रहे हैं। हमें माइक्रोब्रेवरीज के लिए पांच आवेदन मिले हैं और दो को अनुमति दी गई है। एक प्लांट लगाने में लगभग 15 दिन लगते हैं, इसलिए उम्मीद है कि अक्टूबर के पहले सप्ताह से लोगों को दिल्ली में ताजी बीयर मिल

जाएगी। अधिकारियों ने कहा कि एक अन्य संस्था के रॉथल प्लाजा होटल पर भी विचार किया जा रहा है, और दीवान रिपिरेट्स को ड्राफ्ट बियर बेचने की मंजूरी दे दी गई है। “वर्तमान में दिल्ली में माइक्रोब्रायरी चालू नहीं थी। बहुत से लोग ताजी बीयर पसंद करते हैं और इससे राजस्व पैदा होगा और लोगों के पास विकल्प होंगे, “एक अधिकारी ने कहा। इसके अलावा, नए नियमों और शर्तों के साथ, एल -16, एल -17, एल -18 और एल -19

लाइसेंस वाले अधिक कंपनियां / रेस्तरां / होटल होटल, रेस्तरां और हवाई अड्डों और इस्कु कंपनियों या होटल में माइक्रोब्रेवरी स्थापित करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। / रेस्तरां मालिकों को बीयर की खुदरा बिक्री के लिए एल-11 लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा। इसके अलावा, शर्तों के अनुसार, एक माइक्रोब्रायरी स्थापित की जा सकती है जहां ड्राफ्ट बियर का निर्माण किया जाता है और इसे ग्राहकों को परिसर में खपत के लिए प्रति दिन 500 लीटर से अधिक की स्थापित क्षमता के साथ परोसा जाता है, जो दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण द्वारा मंजूरी के अधीन है। समिति, प्रस्तावित माइक्रोब्रायरी को स्थायी भवनों में स्थापित किया जाना चाहिए। वर्तमान में कनॉट प्लेस में केवल एक रेस्तरां है जो 330 मिलीलीटर के लिए 300 रुपये की लागत से माइक्रोब्रायरी बियर परोसता है।

अवधि में विभिन्न सड़कों, पुलों एवं पुलियों के निर्माण, सड़कों को पक्का करने आदि कार्यों के लिए 507 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सराज व बालीचौकी खंड के लिए 121 करोड़ रुपये की पेयजल योजना, 16 करोड़ रुपये लागत की पेयजल योजना छतरी बरयोगी, 18 करोड़ रुपये लागत की पेयजल योजना बगड़ाथाच झरेड़ गतु, 36 करोड़ रुपये की बालीचौकी बहुगराम पेयजल योजना और 8 करोड़ रुपये से ग्राम पंचायत बहल व शुनाग की पुरानी योजनाओं के नवीनीकरण का कार्य प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि 11 करोड़ रुपये के व्यय से ग्राम पंचायत पखरेर व आसपास के क्षेत्रों की पुरानी पेयजल योजनाओं तथा 14 करोड़ की बगस्याड़ व आसपास के क्षेत्र की

पुरानी पेयजल योजनाओं के नवीनीकरण का कार्य प्रगति पर है। जबकि 37 करोड़ की अन्य योजनाएं लोकार्पण के लिए तैयार हैं। मुख्यमंत्री ने कहा विगत पांच वर्षों की अवधि में राज्य को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने, युवाओं के लिए रोजगार सृजित करने, महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान, किसानों एवं बागवानों की खुशहाली, समाज के पिछड़े और कमजोर वर्गों के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई हैं। इसके परिणाम स्वरूप प्रदेश की सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में समान और समग्र रूप से विकास निश्चित हुआ है। जय राम ठाकुर ने प्रदेश के लिए करोड़ों रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं की स्वीकृति और आर्थिक सहायता के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया।

राजस्थान राजीव गांधी ग्रामीण ओलम्पिक के अलग-अलग टीमों के बीच जबरदस्त रोमांचक मैच हुए



में ढाढाल लेखु ने सिधमुख को हराया, गागड़वास ने सांखू को 20 पॉइंट से हराया, बिरमी खालसा ने राघाबड़ी को 17 अंकों से हराया, मोडावासी ने भीमसाना को 9 अंकों से हराया, रामसरताल ने विजयपुरा को 26 अंकों से हराया, पुरुष कबड्डी में बैरासर छोटा ने नीमा को हराया, गालड ने मोडावासी को हराया, हरपालु कुशला ने रामसरताल को हराया, बिरमी खालसा ने ढीगरला को

हराया, ढाणी बड़ी ने न्यांगल छोटी को हराया, टेनिस बाल क्रिकेट में सिदमुख ने हरपालु कुबड़ी को ददरेवा ने लीलकी को नवा ने तांबा खेड़ी को नवरंगपुरा ने सूरतपुरा को खैरु बड़ी ने कालरी को तथा देवीपुरा ने सिधमुख को हराया, खेल देर शाम तक जारी थे। आज की इस व्यवस्था में हनुमान पूनिया, राजेश कुमार, सुरेश पूनिया, पवन कुमार, सुखबीर बिजारणिया, महेंद्र डेला, अनिल खुड्डी, राजीव पूनिया, रणधीर खमाना, दलपि पूनिया, जंगवीर सिंह, मनोज पूनिया, रणवीर सांगवान, जगदीश हरपालु, संदीप गवारीया आदि के साथ कोच, रेफरी, जज, शारीरिक शिक्षक व ड्यूटी पर लगे स्टाफ ने व्यवस्थाएं देखी व खेल प्रेमी ग्रामीणजनों ने खेलों में हूटिंग कर आनंद लिया।

मुख्यमंत्री ने ट्रांस गिरी क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के लिए पीएम का किया आभार व्यक्त

हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने सिरमौर जिला के ट्रांस गिरी क्षेत्र के लोगों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार और विशेष तौर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया। केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने आज नई दिल्ली में आयोजित बैठक में इसे स्वीकृति प्रदान की। मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार ने ट्रांस गिरी क्षेत्र के लोगों को पड़ोसी राज्य उत्तराखण्ड के लोगों के समान अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान करने की चिर लम्बित मांग को पूरा किया है क्योंकि इन क्षेत्रों की संस्कृति और भौगोलिक स्थिति एक-दूसरे से मिलती-जुलती है। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक निर्णय से सिरमौर जिले की 1.60 लाख से अधिक की आबादी लाभान्वित होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह निर्णय क्षेत्र के लोगों की समृद्ध संस्कृति और परम्पराओं के संवर्द्धन और क्षेत्र के विकास को गति प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने सत्ता में आने के पश्चात केन्द्रीय नेतृत्व के समक्ष इस मामले को प्रभावी ढंग से रखा था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अन्य केन्द्रीय नेतृत्व ने हाटी समुदाय के इस भावनात्मक मुद्दे में विशेष रूचि व्यक्त की थी।

रात में प्रमोशन पाकर दारोगा से बने इंस्पेक्टर, सुबह कमरे में लटकता मिला शव

उत्तर प्रदेश अयोध्या से एक घटना सामने आई है, जहां बीती रात प्रमोशन पाकर दारोगा से इंस्पेक्टर बने ओंकार नाथ का शव बुधवार की सुबह सन्दिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे से झूलता मिला, घटना की जानकारी से इलाके में हड़कंप का माहौल है। बता दे कि मामले की सूचना मिलते ही एसएसपी अयोध्या प्रशांत वर्मा, एसपी सिटी मधुबन सिंह और सीओ अयोध्या राजेश तिवारी घटनास्थल पर पहुंचे और मौका मुआयना कर मृतक के परिजनों को सूचना पहुंचवाई। पुलिस के मुताबिक बीती रात ही प्रमोशन पाकर ओंकार नाथ दारोगा से इंस्पेक्टर क्राइम बने थे और उनका तबदला कोतवाली नगर में हुआ था। ओंकार नाथ थाने के सामने ही मैनुईन के घर पर कमरा लेकर रहते थे. बुधवार की सुबह 6:00 बजे वह मॉर्निंग वॉक के लिए घर से निकले थे और मॉर्निंग वॉक से लौटकर वह अपने कमरे में गए और फिर वापस बाहर नहीं निकले। जिसके बाद दरवाजा खटखटाने पर जब कमरा नहीं खुला तब मामले की सूचना थाने के सिपाहियों और अन्य लोगों को दी गई, जब कमरा खोलकर देखा गया तो ओंकारनाथ का शव फांसी के फंदे से लटकता मिला। मृतक इंस्पेक्टर ओंकार नाथ संत कबीर नगर के रहने वाले थे। जहां घटना की जानकारी परिजनों को दे दी गई है, उनके आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि घटना के पीछे का कारण क्या है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रस्तांत वर्मा ने बताया कि परिजनों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

संक्षिप्त समाचार

राजस्थान भिनाय कस्बे में दोहरी हत्या के आरोपी की जमानत स्वीकार

राजस्थान भिनाय कस्बे का बहुचर्चित जघन्य हत्या कांड आरोपी अमरचंद खाती की आज राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर द्वारा जमानत स्वीकार कर ली गयी। गत वर्ष 7 अप्रेल 2021 को आरोपी अमरचंद ने अपनी माँ कमला, भाई शांति लाल, ओमप्रकाश, भागचंद, ताराचंद, वंशीका, भंवर पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ हमला कर घर से भाग गया। आज न्यायाधीपति चंदप्रकाश सोनगरा के समक्ष एडवोकेट निसार अहमद व एडवोकेट विनयपाल यादव ने अमरचंद की जमानत याचिका पर बहस की।न्यायाधीपति एडवोकेट निसार अहमद के तर्कों से सहमत होते हुए जघन्य हत्या आरोपी की जमानत स्वीकार कर ली।

बारिश के बीच तीसरे दिन भी जारी रहा प्रदर्शन, मांगो को लेकर अधिकारियों को झापन सौपती सरपंच

इन्द्रमेन माकों / एनसीआर समाचार

मध्य प्रदेश सुडुगांव मोहगांव की ग्राम पंचायत ठेभा के ग्रामीण सड़क, पुल, स्कूल के उन्नयन जैसी मांगों को लेकर पिछले तीन दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सोमवार की दोपहर को यहां जमकर बारिश हुई लेकिन धरना प्रदर्शन में बैठे ग्रामीण वहीं बैठे रहे। ग्रामीणों ने बताया कि गांव के लोगों की मूलभूत समस्याओं को लेकर कई बार धरना प्रदर्शन किया गया, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। सोमवार का तहसीलदार निशा नापित, आरआई पटवारी एवं जनपद पंचायत के पद अधिकारी मोहगांव थाना प्रभारी एसएल मरकाम, मंडलम अध्यक्ष हसीब खान, सेवादल अध्यक्ष प्रेम धुर्वे जिला पंचायत सदस्य गीता मरावी, घुघरी ब्लाक कांग्रेस अध्यक्ष अरविंद कुशराम, चिठौंजी बांसल हीरा सिंह उड़के ग्रामीणों से चर्चा करने पहुंचे। ठेभा की सरपंच सुप्ति पट्टे ने बताया कि ग्राम ठेभा और भानपुर नदी के बीच बुढ़नेर नदी में पुल निर्माण, शासकीय हाईस्कूल ठेभा हायर सेकंडरी स्कूल में उन्नयन, ठेभा मुख्य मार्ग से गोरखपुर तक पक्की सड़क सहित अन्य मांगों को लेकर यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जो मांग पूरी होने पर ही समाप्त किया जाएगा।

दुकानदारों के पास खाद का भंडार होने के बाद भी मंडी में परेशान हुए किसान

उत्तर प्रदेश जिले का अन्नदाता समय-समय पर खाद बीज बिजली पानी के लिए परेशान होते हैं। किसानों की समस्याएं जस की तस बनी हुई है, सरकारें किसानों को समय पर खाद बीज उपलब्ध करने का वादा तो करती है, लेकिन किसानों को उपलब्ध कराने के नाम पर बिचौलियों की तिजोरिया भरी जा रही है, वर्तमान समय में किसानों को यूरिया खाद की आवश्यकता है लेकिन किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण किसान लंबी लाइनों लगाकर खड़े रहते हैं। किसानों ने बताया कि सोसाइटी में किसानों को खाद नहीं मिल रही, जबकि दुकानदारों के यहां जमकर भंडार है, जिनके द्वारा मोटी रकम लेकर किसानों की जेब में डाका डाला जा रहा है, वहीं सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर सरकार के पास खाद की कमी है तो किसानों को नहीं मिल रही लेकिन बिचौलिया जो खुले बाजार में खाद बेच रहे हैं उनके पास कैसे भंडार है। निश्चित तौर पर सोसाइटी की खाद बाजारों में बेची जा रही है जिनके द्वारा किसानों को चूना लगाया जा रहा है, दिखाते हैं कृषि उपज मंडी करहिया में किसानों की लाइन और सुनाते हैं किसानों का क्या कहना है।

एंबियंस मॉल के फाइव स्टार होटल लीला में मिली बम होने की सूचना, गुरुग्राम पुलिस ने चलाया सर्च ऑपरेशन

गुरुग्राम के एंबियंस मॉल के फाइव स्टार होटल लीला में बम होने की सूचना मिलने ही स्थानीय लोगों के साथ साथ प्रशासन में भी हरकत मच गया है। होटल में फोन करके यह सूचना दी गई कि होटल के अंदर बम रखा गया है। सूचना मिलते ही गुरुग्राम पुलिस मौके पर पहुंची और तुरंत छानबीन शुरू कर दी। आपको बता दें कि यह मॉल दिल्ली-गुरुग्राम बॉर्डर पर स्थित है। एनआई के अनुसार, एसीपी विकास कौशिक ने यह सूचना दी कि, गुरुग्राम में पांच सितारा होटल में बम रखने की कॉल की गई है। जानकारी के मुताबिक गुरुग्राम पुलिस ने होटल लीला में डेढ़ घण्टे तक सर्च ऑपरेशन चलाया। इस सर्च ऑपरेशन के दौरान होटल को पूरी तरह से खाली करवा दिया गया था, लेकिन कहीं पर कोई बम नहीं मिला है। फिनाल्ले पुलिस जांच में बम की सूचना गलत निकली है। उधर, फोन करने वाले संस्‍थ की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई है। साइबर सेल और साइबर क्राइम की टीम आरोपी की तलाश में जुटी हुई है।

ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलम्पिक चरली में हॉकी फाइनल में पादरली 2-1से विजय हुए

राजस्थान में राजीव गांधी ग्रामीण ओलम्पिक खेलकूद प्रतियोगिता का समापन आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चरली खेल के मैदान में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सुरेश शर्मा, नायब तहसीलदार हिमतराम मेशन, सरपंच दिनेश कुमार गुंडावत, प्रधानाचार्य मोहन लाल राठौड़, मदन सिंह बालोत, शारीरिक शिक्षक जसवंत सिंह सामुजा, के नेतृत्व में शांतिपूर्वक सम्पन्न हुआ। राजीव गांधी युवा मित्र कानाराम सिंघल ने बताया कि आज का मैच पादरली व चरली के मध्य खेला गया जिसमें पादरली 2-1 से जीत दर्ज की। वह ग्रामीणों को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, निरोगी राजस्थान अभियान के बारे में जानकारी दी। इस दौरान प्रतियोगिता प्रभारी, प्रदीप सिंह उदावत, प्रतियोगिता सहायक प्रभारी महिपाल सिंह करणोत, अरविन्द बाजक आर.पी.जोग सिंह राठौड़, दुर्जन सिंह शुक्ला, पूरण सिंह, जयदीप सिंह राठौड़, महेंद्र सिंह दहिया, सुनीता घोष, सुआ विश्नोई, इंद्र कुमार रोहिन, राजेश कुमार कावट, मोहनलाल बोस, मेडिकल टीम योगेश सेन उपस्थित रहे।

अनूपशहर ग्राम पंचायत की जमीन पर दबंगों ने किया दोबारा कब्जा उप जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन

उत्तर प्रदेश अनूपशहर क्षेत्र के ग्राम पंचायत रूपबास की ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया है इसकी शिकायत ग्राम प्रधान राजेश सिंह ने ग्राम प्रधान संगठन के द्वारा बीके गुप्ता उप जिलाधिकारी को झपन देकर की है ग्राम प्रधान का कहना है की गांव के ही दबंगों ने दोवारा ग्राम समाज की भूमि पर कब्जा कर लिया है।

बागवानी विकास परियोजना के तहत एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन

एनसीआर समाचार

किसानों, बागवानों और कृषि उद्यमियों के सशक्तिकरण तथा उन्हें बैंकिंग योजनाओं की जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से मंगलवार को यहां होटल हॉलीडे होम में एक दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया। विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित हिमाचल प्रदेश बागवानी विकास परियोजना (एचपीएचडीपी) के तहत आयोजित इस सम्मेलन में बागवानी विभाग, एचपीएमसी, मार्केटिंग बोर्ड और बैंक अधिकारियों के अलावा एचपीएचडीपी के अंतर्गत गठित क्लस्टरों तथा अन्य कृषक संगठनों के सदस्यों ने भाग लिया। सम्मेलन के उदघाटन सत्र को संबोधित करते हुए बागवानी और जलशक्ति विभाग के सचिव अमिताभ अवस्थी ने कहा कि, 1066 करोड़ रुपये की बागवानी विकास परियोजना



हिमाचल के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में एक नई क्रांति का सूत्रपात कर रही है। इस परियोजना के तहत शीतोष्ण फलों विशेषकर सेब और गुठलीदार फलों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। अमिताभ अवस्थी ने बताया कि इस परियोजना में बीज से लेकर बाजार यानि पौधारोपण से लेकर पौधों की देखभाल, सिंचाई, स्टोरेज, मूल्यवर्द्धन, प्रसंस्करण और विपणन सहित सभी पहलुओं को शामिल किया गया है।

अजमेर कलेक्टर अंशदीप से मिलकर पैरा फैरी ग्राम पंचायतों की महत्वपूर्ण समस्या को अवगत करवाया

एनसीआर समाचार

राजस्थान अजमेर में पूर्व मगरा बोर्ड अध्यक्ष मदन सिंह रावत के नेतृत्व में प्रतिनिधित्व मंडल आज अजमेर कलेक्टर अंशदीप से मिलकर पैरा फैरी ग्राम पंचायतों की महत्वपूर्ण समस्या को लेकर अवगत करवाया। रावत ने बताया की अजमेर जिले के लगभग 118 गावों के भूमिहीन काश्तकार,पूर्व सैनिक, निराश्रित महिलाएँ,अनुसूचित जाति व जनजाति की समस्या है। जिनको राज्य सरकार द्वारा प्रशासन गाँवो के संघ अभियान के तहत विशेष कैम्पो का आयोजन कर निस्तारण करवा सकती है, लेकिन गहलोत सरकार की उदासीनता के चलते अजमेर जिले में विगत 50 वर्ष से ज्यों की त्यों बनी हुई

है। पूर्व में भी अजमेर के नेताओं ने विधानसभा में समय-समय पर आवाज उठाई लेकिन निष्कर्ष कुछ भी नहीं निकला। भू राजस्व अधिनियम 1970 के नियमों के तहत तात्कालिक भैरु सिंह शेखावत सरकार ने 1995 में भी प्रकरणों के निस्तारण हेतु केम्प लगवाये थे जिसमें कुछ मामलो का निस्तारण भी किया एवं काफी प्रकरण लंबित रह गए थे जिनका निस्तारण तक नहीं होने के कारण काश्तकार आवंटित कृषि भूमि को लेकर असमंजस व ठगा सा महसूस कर रहा है। मदन सिंह रावत ने राजस्व मंत्री रामलाल जाट को व अजमेर जिले से पर्यटन विकास निगम अध्यक्ष धर्मेन्द्र सिंह राठौड़ को भी पिछले माह अवगत करवाया था।

ट्रक कटिंग कर चोरी करने वाले तीन आरोपियों को घटना के 48 घंटे के अंदर किया गिरफ्तार

एनसीआर समाचार

मध्य प्रदेश जिले में पुलिस अधीक्षक अवधेश कुमार गोरखामी (भा.पु.से.) जिला रायगढ़ द्वारा संपत्ति संबंधी अपराध की घटनाओं पर नियंत्रण हेतू लगातार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया जा रहा है, 9 सितंबर को फरियादी कैलाश यादव पिता रामदयाल यादव उम्र 38 साल निवासी देवली, थाना देवली, जिला टोंक (राजस्थान) के द्वारा रिपोर्ट कि कोई अज्ञात आरोपी द्वारा ग्राम बंदा की घाटी के पास उसके एंटेनर क्रमांक RJ 14 GJ 2415 के पीछे का ताला तोड़कर व सुरेश पिता मेवालाल गुर्जर उम्र 25 साल निवासी बरवस थाना हिंडोली जिला बुंदी राजस्थान के ट्रक



क्रमांक RJ 08 GA 4309 के तिरपाल को काटकर कटिंग कर कंटेनर व ट्रक में रखे कोरियर के कार्टून चोरी कर लिए है। फरियादी कि रिपोर्ट पर थाना माचलपुर में अप.क्र. 288/2022 धारा 380 भादवि का अज्ञात आरोपी के विरुद्ध कायम कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण संपत्ति

सक्रिय किया गया। साथ ही अज्ञात आरोपीयों की पहचान हुई एवं तत्काल टीम बनाकर दविश दी गई, थाना माचलपुर पुलिस की सक्रियता के चलते घटना घटित करने वाले आरोपीयों 1. नवनीत शर्मा उम्र 42 साल निवासी सरेंड़ी, थाना कोतवाली राजगढ़ 2. ज्ञानसिंह गुर्जर उम्र 40 साल निवासी जुगलपुरा थाना कोतवाली राजगढ़ 3. दिलीप सौधिया उम्र 19 साल निवासी सरेंड़ी, थाना कोतवाली राजगढ़ को पकड़ कर विधिवत गिरफ्तार किया गया। उक्त घटना के खुलासे से आम नागरिको मे खुशी की लहर बनी हुई एवं समस्त नागरिको द्वारा पुलिस अधीक्षक राजगढ के प्रति आभार व्यक्त किया।

रैपर पीएनबी रॉक की एक रेस्तरां में लूट के दौरान लगी गोली से हुई मौत

एनसीआर समाचार

रैपर पीएनबी रॉक को संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉस एंजिल्स में एक रेस्तरां में डकैती के प्रयास के दौरान गोली मार दी गई थी। लॉस एंजिल्स टाइम्स के अनुसार, उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। रैपर, जिसका असली नाम रकीम एंटेनर था, दक्षिण लॉस एंजिल्स में रोसको हाउस ऑफ चिकन एंड वेफल्स रेस्तरां में अपनी प्रेमिका के साथ था, जिसने अब हटाए गए इंस्टाग्राम पोस्ट पर एक स्थान-टैग की गई तस्वीर पोस्ट की थी, आउटलेट ने आगे कहा। इसने पुलिस के हवाले से कहा कि मिस्टर रॉक को उनके गहनों के लिए निशाना बनाया गया था। लॉस एंजेलिस पुलिस के कप्तान केली मुनीज ने कहा कि गोलीबारी दोपहर 1:15 बजे (स्थानीय समयानुसार) हुई। उसने कहा कि

हमलावर ने मिस्टर रॉक से बंदूक दिखाकर सामान की मांग की। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, लूट के दौरान बहसबाजी के बाद पीड़ित को गोली मार दी गई थी। रुसने पीड़िता को गोली मार दी और एक भगदड़ वाली कार के लिए दरवाजे से बाहर भाग गया और फिर पार्किंग रथल से भाग गया। इस घटना की खबर फैलते ही श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लग गया। र्वाह .. यह पीएनबी रॉक स्थिति पागल है .. मैंने अभी एक सप्ताह पहले उसके साथ एक साक्षात्कार किया था। जहां उसने विस्तार से बताया कि, कैसे हाल ही में जब वह अपनी प्रेमिका और बेटी के साथ बाहर था तो किसी ने उसे लूटने की कोशिश की। अब .. यह .. smh पीएनबी रॉक के लिए प्रार्थना करें। पीएनबी रॉक ने 2010 में प्रमुखता हासिल की।

पालमपुर में 42 करोड़ रुपये लागत की 17 विकासात्मक परियोजनाओं का लोकार्पण

एनसीआर समाचार

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज कांगड़ा जिला के पालमपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए पालमपुर में लगभग 42 करोड़ रुपये लागत की 17 विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किये। इस अवसर पर पालमपुर के शहीद कैप्टन विक्रम बतरा ग्राउंड में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह वर्ष प्रत्येक भारतीय और विशेष रूप से प्रत्येक हिमाचली के लिए ऐतिहासिक है, क्योंकि जहां राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है, वहीं हिमाचल प्रदेश अपने अस्तित्व के 75 वर्ष मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को देश का सबसे प्रगतिशील राज्य बनाने में प्रत्येक व्यक्ति ने अपना बहुमूल्य योगदान दिया है।



उन्होंने कहा कि हिमाचल के विकास में प्रत्येक योगदानकर्ता के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रदेश भर में 75 कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और इन कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदेशवासियों के योगदान के बारे में युवा पीढ़ी को शिक्षित व जागरूक किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने 75 वर्षों में विकास के सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति

मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी समर्थकों ने की पदयात्रा, निकाली भारत जोड़ो रैली

एनसीआर समाचार

अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत की एकता अखंडता संप्रभुता को बनाए रखने हेतु जारी कश्मीर से कन्याकुमारी तक 3570 कि०मी० की पदयात्रा के तत्वाधान में ब्लाक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विनोद ताम्रकार द्वारा नगर में पदयात्रा कर एकता भाईचारे का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से यह रहे उपस्थित- महिला कांग्रेस कमेटी शहडोल की नवनियुक्त जिला अध्यक्ष संध्या सिंह, संगठन महामंत्री हरिशंकर कोरी वार्ड क्रमांक 10 पार्षद गीता कोल, महिला कांग्रेस अध्यक्ष जरीना खातून, अमरनाथ पांडे अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ अध्यक्ष मोहम्मद अब्बास खान, युवा कांग्रेस जिला महासचिव सतेन्द्र त्रिपाठी पिट्ट, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ अध्यक्ष हरि सिंह, बरगाही दशरथ सिंह आशुतोष पटेल,



ओमप्रकाश गुप्ता, राजू, पुष्पेंद्र परौहा, अभिषेक, तिवारी मौनू, कुलभूषण, रूना, लैला, पुनम, साकेत, नारेन्द्र पांडे, संजू, साकेत, राजकुमारी, साकेत, दशरथ पटेल, सीता गुप्ता, केशकली रामसजीवन शर्मा, अखिलेश सोनी, दिलीप कुमार जोशी, राघवेन्द्र यादव, पप्पू साकेत, पूर्व पार्षद रामदीन, नामदेव सुनीता कोल सोनिया कोल फुल्ली कोल आशा कोल जयंती कोल लालमनी काशी विक्रम कोल शाहीन खान रवि वर्मन सहित आमजन मानस व सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने यात्रा कर भारत की एकता अखंडता को बनाए रखने का संदेश दिया।

एसआई ने अदालत से दक्षिणी दिल्ली के स्वामित्व का दावा करने वाले व्यक्ति पर जुर्माना लगाने की मांग

एनसीआर समाचार

नई दिल्ली: एसआई ने दिल्ली की एक अदालत से दक्षिण दिल्ली पर कानूनी अधिकारों का दावा करने वाले एक व्यक्ति पर यह तर्क देते हुए लागत लगाने के लिए कहा है कि यह एक पब्लिसिटी स्टैंड था और उसने कुव्वत में 27 हिंदू और जैन मंदिरों की बहाली की मांग वाली याचिका की सुनवाई के दौरान अपना समय बर्बाद किया। वहीं अर्जी पर सुनवाई करने वाले अतिरिक्त जिला न्यायाधीश दिनेश कुमार 17 सितंबर को फैसला सुनाएंगे। बता दें कि कुंवर महेंद्र ध्वज प्रसाद सिंह, एक शाही परिवार से वंशज होने का दावा कर, इस मामले



में हस्तक्षेप करते हुए दावा किया कि दक्षिण दिल्ली के तहत क्षेत्र पर उनके पास कानूनी अधिकार हैं। वह कुतुब मीनार मामले में सुनवाई चाहता था। महेंद्र ध्वज प्रसाद सिंह ने अपने आवेदन में दावा किया कि वह बेसवान परिवार का कर्ता है, जो उत्तर प्रदेश

सिद्धांत के तहत समाप्त हो गया है। एसआई ने अदालत से कहा कि आवेदन का कोई आधार नहीं है और पब्लिसिटी स्टैंड था और लागत लगाई जानी चाहिए क्योंकि यह अदालत के समय की बर्बादी थी। अदालत में मौजूद सिंह ने अपने मामले को समझने की कोशिश कर रहे न्यायाधीश से बात की। उन्होंने अदालत को बताया कि उन्होंने अपनी संपत्ति हासिल करने के लिए सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर किया है और जो लंबित है। उन्होंने अदालत से यह भी कहा कि वह इस मामले में सुनवाई के अलावा ऐसी कोई राहत नहीं मांग रहे हैं।

अजमेर में अल्पसंख्यक छात्रावास बनाने के लिए आग्रह किया

एनसीआर समाचार

राजस्थान अजमेर जिला देहात कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक के जिला अध्यक्ष मोहम्मद महमूद खान के नेतृत्व में आज जिला कलेक्टर व आयुक्त अजमेर विकास प्राधिकरण से राज्य सरकार द्वारा आवंटित भूमि हरीभाऊ उपाध्याय नगर अजमेर में अल्पसंख्यक छात्रावास बनाने के लिए आग्रह किया गया। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा है कि सिख, जैन, ईसाई, मुस्लिम अल्पसंख्यक के बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक जिला मुख्यालय पर अल्पसंख्यक छात्रावास खोला जाए। राज्य सरकार द्वारा अजमेर में हरीभाऊ उपाध्याय नगर में

अल्पसंख्यक छात्रावास के लिए भूमि आवंटित की गई है लेकिन बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी बिना वजह सरकार को गुमराह बदनाम कर छात्रावास में दखल देकर प्रशासन पर दबाव डाल रहा है जबकि देवनानी ये भूल रहे हैं कि छात्रावास में आर्थिक कमजोर परिवार जैन समाज, सिख समाज, ईसाई समाज, मुस्लिम समाज के बच्चों को पढ़ाई के लिए निशुल्क रहने को आवास मिल सकेगा। अजमेर उत्तर के विधायक वासुदेव देवनानी ने राजस्थान सरकार को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए हरीभाऊ उपाध्याय नगर में बनाए जाने वाले छात्रावास का विरोध किया है जिसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं।

प्रतिशत थी, जबकि वर्तमान में साक्षरता दर 83 प्रतिशत से अधिक है। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार वर्ष 1948 में राज्य में केवल 228 किलोमीटर सड़कें थीं और वर्तमान में राज्य में लगभग 40,000 किलोमीटर सड़कों का जाल बिछ चुका है। उन्होंने कहा कि दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा 60,000 करोड़ रुपये की राशि से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) शुरू की गई थी। इस योजना के तहत राज्य में लगभग 51 प्रतिशत सड़कों का निर्माण किया गया है, जिससे राज्य के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है। जय राम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार के समक्ष कोरोना महामारी से प्रदेश को उबारने के साथ ही प्रदेश के विकास को निर्बाध जारी रखने की चुनौती थी।

संक्षिप्त समाचार

अर्पित बोड़ाना को सर्व सहमति से पुनः तराना प्रेस क्लब अध्यक्ष व जायसवाल को बनाया गया सचिव सतीश

तराना प्रेस क्लब की बैठक स्थानीय विश्राम ग्रह पर वरिष्ठ पत्रकार अशोक मेहता की अध्यक्षता एवं वरिष्ठ पत्रकार एम आरिफ खान की उपस्थिति में संपन्न हुई। बैठक में तराना प्रेस क्लब की नवीन कार्यकारिणी गठित की गई, जिसमें सर्व सहमति से अर्पित बोड़ाना को पुनः तराना प्रेस क्लब अध्यक्ष एवं सतीश जायसवाल को सचिव बनाया गया। मार्गदर्शक के रूप में पूर्व प्रेस क्लब अध्यक्ष दिनेश जैन वरिष्ठ पत्रकार शैलेंद्र शर्मा, एम आरिफ खान, नरेंद्र मेहता, पूर्व प्रेस क्लब अध्यक्ष मुकेश शर्मा को सहमति पूर्वक शामिल किया गया। बैठक में तराना प्रेस क्लब में तहसील क्षेत्र के पत्रकारों को शामिल करने पर सहमति बनी। प्रेस क्लब अध्यक्ष अर्पित बोड़ाना ने अपनी कार्यकारिणी का गठन किया जिसमें उपाध्यक्ष अशोक मेहता कायथा, शिखर शर्मा, सह सचिव अजय नवरंग कायथा, तन्मय जैन, कोषाध्यक्ष शिवनारायण गुर्जर, प्रचार मंत्री (मिडिया प्रभारी) शेखर कुशवाह को बनाया एवं सदस्य विष्णु माली शुभम चांदना, दीपक सिंदरसिया, राजेश गुजर को शामिल किया।

जनता के सुझावों से दिल्ली नगर निगम के वार्डों के लिए परिसीमन का मसौदा आदेश

दिल्ली के वार्डों की सीमाओं में बदलाव का पहला मसौदा गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया है, जिसमें उसने जनता को अपने सुझाव देने के लिए 3 अक्टूबर तक का समय दिया है, वहीं 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली की जनसंख्या के आधार पर दिल्ली नगर निगमों में पार्षदों की कुल सीटों की संख्या 250 निर्धारित की गई है और अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए आरक्षित 42 सीटें हैं। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा शहर में एक सीवर की सफाई के दौरान दो लोगों की मौत का संज्ञन लेने के बाद, आप ने उपराज्यपाल के सक्सेना पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके अधीन आने वाला डीडीए इस दुःखद घटना के लिए जिम्मेदार है। आप के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने सोमवार को एक बयान में अदालत के आदेश पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि दिल्ली एलजी जवाबदेही के बिना सत्ता का आनंद नहीं ले सकते।

बाँदा जिले की नेहा कश्यप को मिस यूनीक फेस ऑफ इंडिया 2022 के शो में VIP गेस्ट अवॉर्ड से किया गया सम्मानित

बाँदा की नेहा कश्यप ने एक बार फिर जिले का नाम रोशन किया है। नेहा कश्यप मॉडल व अभिनेत्री एक अपना नया मुकाम हासिल कर रही हैं। बीते 10 सितंबर को कानपुर में होने वाले शो मिस यूनीक फ़ेस ओफ़ इंडिया 2022 में नेहा कश्यप को वीआईपी गेस्ट का अवॉर्ड देकर डायरेक्टर शशंक और को डायरेक्टर दीपक परवानी ने सम्मान किया और बेहत सराहना की नेहा को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएँ दीं, नेहा कश्यप ने अवार्ड के साथ साथ मंच में स्पेशल वॉक करके अपनी वॉक से जलवे बिखेर दिए। शो में बहुत से सिलेब्रिटी उपस्थित रहे। मिस बुंदेलखंड नेहा कश्यप ऐसे कई अवार्ड अपने नाम कर चुकी हैं। इनको बहुत सी जगह इन्वाइट किया गया है। वहीं जजमेंट के बाद तो कहीं जूरी मेम्बर स्पेशल गेस्ट के लिए इन्विटेशन आते रहते हैं। नेहा मॉडलिंग के साथ साथ ऐक्टिंग की दुनिया में खूब धमाल मचा रही है। इन्होंने कई मूवी वेबसीरीज में भी काम किया है। इनके इन्स्टाग्राम में 29000 से अधिक फ़ॉलोअर है, इनका यूटूब चैनल भी है, जिसमें ये डांस वीडियो अपलोड करती हैं। नेहा बताती हैं कि, वो अपनी फ़ैमिली और अपने बाँदा का नाम हर जगह रोशन करना चाहती हैं, जिससे बाँदा का नाम इतिहास के पन्नों पर दर्ज हो और बाँदा को सब लोग जाने हम सभी नेहा कश्यप के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं।

राजीव गांधी ओलम्पिक खेल का शुभारंभ, शुरुआत में हुए रोचक मुकाबले

विक्रम सिंह रावल

बागोड़ा के केशरी कॉलेज व राउमाषि बागोड़ा में सोमवार को ओलम्पिक खेल का शुभारंभ किया, जिसमें मुख्य अतिथि सविता राणा व अध्यक्ष बीडीओ राजेंद्र कुमार तथा तहसीलदार चमन लाल ने वीणा दायिनी मां सरस्वती के श्री चरणों में दीपक प्रज्वलित कर मैच का शुभारंभ किया गया। वहीं सोमवार को राउमाषि बागोड़ा के खेल मैदान में महिला वर्ग और केशरी कॉलेज में पुरुष वर्ग के खिलाड़ियों का कब्बड़ी खेल का आयोजन हुआ। महिला खिलाड़ियों में काफी जोश देखने को मिला और केशरी कॉलेज में पुरुष वर्ग के खिलाड़ी भी बहुत जोश में था। वहीं केशरी कॉलेज प्राचार्य उम्मेद सिंह विजावत ने खेल को खेल की भावना से लेने व अनुशासन बनाए रखने की बात कही।

मोहल्ले में सरकारी स्कूल होने के बावजूद बच्चे दूर की स्कूलों में जाने को हुए मजबूर

राजस्थान में पिछले 2 दिनों से शिक्षा का राग अल्पने वाले ये बताएं कि अपने मोहल्ले में सरकारी स्कूल होने के बावजूद बंद क्यों पड़ी हैं, मोहल्ले के बच्चों को दूर की स्कूलों में क्यों जाना पड़ रहा है। वार्ड नं 31/32/33/34 के बीच में बनी नं. 3 सरकारी स्कूल अगर शुरू हो जाए तो मोहल्ले वालो का भला हो जाएगा, बच्चो को अलग भटकना नहीं पड़ेगा परिजनों को बच्चों को स्कूल छोड़ने / घर लाने के काम से फुर्सत मिल जायेगी। साथ ही कहा गया कि आप ये बताए कि अपने 18 महीने के कार्यकाल में आपने कितनी बार इस स्कूल को शुरू करने की मांग की, विधायक को इस विद्यालय का निरक्षण क्यों नहीं करवाते, बिल्डिंग सही पड़ी है जरूरत हैं राजनीतिक इच्छा शक्ति की, विधायक महोदय हमारे मोहल्ले की इस स्कूल को शुरू करवाने की मेहरबानी करे।

गावों में दस्तक दे चुका लंपी वायरस, गायों की सुरक्षा हेतु किए जा रहे प्रबंध

नीमच में गोवंश की सुरक्षा एवं उपचार प्रबंधों को लेकर शासन प्रशासन एवं राजनेता वाहे लाख दावे करे, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में गोवंशों में जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं निश्चित रूप से किसी बड़ी अनहोनी से इन्कार नहीं किया जा सकता। घरातल पर हालात तेजी से बद से बदतर होते जा रहे हैं। ग्राम जाट में लंपी वायरस से 1 गाय की मौत हो जाने के बाद भी नीमच जिला प्रशासन के आला अधिकारी बेखबर होकर अंशेयें मंद्र कर गहरी नींद में सोए हुए हैं। जिला पशु चिकित्सा विभाग ने गो पातकों को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। मुख्यमंत्री चौहान के निर्देशानुसार नीमच जिला कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने अन्य राज्यों से गो परिवहन पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए हैं।

विभिन्न मांगों को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम को फोटोग्राफरों ने दिया झापन

एनसीआर समाचार

उत्तर प्रदेश में ऑल इंडिया फोटोग्राफर मीडिया फाउंडेशन रजिस्टर्ड (AIPMF) के प्रदेश अध्यक्ष (उत्तर प्रदेश), जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया (JC1) सदस्य सलाहकार समिति (उत्तर प्रदेश) सुनील सक्सेना व (बुंदेलखंड प्रभारी), (AIPMF) राजेश निषाद के द्वारा उप मुख्यमंत्री मा. केशव प्रसाद गौर्य को फोटोग्राफरों एवं मीडिया प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक फोटोग्राफरों से संबंधित समस्याओं के बारे में अवगत कराया गया। वहीं उन्हें लिखित में एक ज्ञापन दिया गया जिसमें की फोटोग्राफरों एवं पत्रकारों की सभी समस्याओं को इंगित किया गया था।



उत्तर प्रदेश के मा0 उपमुख्यमंत्री द्वारा उक्त प्रकरण को गहनता से विचार कर लागू कराने का आश्वासन दिया गया व आने वाले समय पर फोटोग्राफरों की मांगो पर अमल किया जाएगा और उन्हें लागू करने का प्रयास किया जाएगा

राजस्थान में गायों में बढ़ रही लम्पी नामक महामारी

रमेश नाथ योगी

वर्तमान में गौमाता लम्पि महामारी से अपनी जिंदगी की जंग लड़ रही हैं। इस महामारी से निपटने के लिए कामला ग्रामवासी व युवा बंधु आगे आए। गौमाता के लिए एक औषधि तैयार करनी चाहिए, जिससे गौमाता बुखार, दर्द, ओर फोड़े हैं उनमें काफी सुधार हुआ और हो रहा है। इस औषधि में डालने की मुख्य सामग्री गुड़, हल्दी, कालीमिर्च, फिटकरी, नीमगिलोय, सनायपत्ते, पेरासिटामोल टेबलेट, लिवो सिट्रीजिन टेबलेट के लड्डू बनाकर खिलाया गया। इसको तैयार करने में कामला नवयुवक मंडल व भामाशाहो का सहयोग लिया जा रहा हैं, जिसमें भैरव सैवा संस्था द्वारा रमेश नाथ योगी ने कामला में भैरुजी के जागरण पर हो रही भाद्रपद

मास की छठ को आमजन को इस रोग के बारे में जानकारी दी और भामाशाहो द्वारा सहयोग की अपील की। इसकी प्रथम डोज 11 सितम्बर को बनाई गयी। जिसमें 400 नग लड्डू बने और 200 रोगग्रस्त गौमाता को ग्राम पंचायत विजयपुरा के राजस्व ग्राम कामला के क्षेत्र में खिलाया गया। इसका दूसरा डोज 21 सितम्बर को बनाया जायेगा। इससे पहले दवा बनाई गई जिसमें भैरव सेवा संस्था के अध्यक्ष रमेश नाथ योगी व उपाध्यक्ष पुष्कर नाथ योगी सचिव एडवोकेट राजेंद्र नाथ योगी, तुलसी नाथ, श्रवण नाथ, मोती नाथ, फतेह नाथ, मुकेश नाथ, दिनेश नाथ, दिनेश नाथ रत्वे, श्रवण नाथ, रमेश नाथ, कुशाल नाथ, राजू नाथ, महेंद्र नाथ, भेरु नाथ, सुरेश नाथ मौजूद रहे।

कुशीनगर ग्राम प्रधान कुसमी देवी पर ग्राम सभा के लोगों ने लगाए गंभीर आरोप

एनसीआर समाचार

कुशीनगर ग्राम कंठी छपरा विकासखंड बिशनपुरा जिला कुशीनगर के स्थाई निवासी ग्राम प्रधान कुसमी देवी पत्नी नगई राजभर प्रधान रही जिनके प्रतिनिधि के रूप में इनके पति नगई पुत्र मोती द्वारा कार्य कराए जाते थे। इनके द्वारा सरकारी धन का दुरुपयोग कर अपने निजी कार्यो में खर्च किया गया है, जिसके कारण इनके पास आय से अधिक शोध का निर्माण मानक के विपरीत कराया गया है। ग्राम सभा के अंतर्गत चरागाह की भूमि के चारों तरफ मिट्टी की खुदाई का कार्य मं०रो०ग्रा०यो० के अंतर्गत जेसीबी मशीन के द्वारा

मं०रो० गारंटी योजना के अंतर्गत मिटी भराई कार्य कराए गए हैं तथा लेबरों के नाम पर पैसा निकाल कर अपने निजी कार्यो में खर्च किया गया है तथा ट्रैक्टर-ट्राली द्वारा ना मात्र की मिट्टी डाला गया। ग्राम सभा में पशु कान्हा सेड का निर्माण कराते समय मानक का ध्यान न देकर मनमाने ढंग से कार्य करा कर सरकारी धन का बंदर बांट कर अपने निजी कार्यो में खर्च कर लिया गया है उक्त कान्हा शेड का निर्माण मानक के विपरीत कराया गया है। ग्राम सभा के अंतर्गत चरागाह की भूमि के चारों तरफ मिट्टी की खुदाई का कार्य मं०रो०ग्रा०यो० के अंतर्गत जेसीबी मशीन के द्वारा

एनसीआर समाचार

उत्तर प्रदेश वाराणसी जिला और सत्र न्यायालय ने सोमवार, 12 सितंबर को अंजुमन इतेजाמिया मस्जिद की याचिका को खारिज कर दिया, जो ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का प्रबंधन करती है। हिन्दुओं द्वारा कोर्ट में याचिका दायर की गई थी जिसमें मा कृष्ण गौरी की पूजा करने के अधिकार की मांग की गई थी। जिला न्यायाधीश एके विश्वेश ने अपना फैसला सुनाया जोकि हिंदू महिलाओं द्वारा दायर याचिका के पक्ष में थी। ऐतिहासिक काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी मस्जिद की प्रबंधन समिति ने तर्क दिया था कि जमीन वक्फ की



संपत्ति है। हिंदू पक्ष ने तर्क दिया था कि मस्जिद एक पुराने मंदिर की जगह पर बनाई गई थी, जबकि मुस्लिम पक्ष ने दलील दी थी कि मस्जिद वक्फ परिसर में बनाई गई थी, और 1991 के पूजा स्थल अधिनियम ने मस्जिद के चरित्र को बदलने पर रोक लगा दी थी। मामले की सुनवाई शुरू में सिविल जज,

जनपदों मंडल स्तर पर अपने संगठन को मजबूती प्रदान कर एक-एक झापन मंडल स्तर पर मंडलायुक्त महोदय एवं जिला स्तर पर जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री एवं माननीय मुख्यमंत्री को अवश्य पहुंचाएं

जिससे उनके संज्ञान में इस प्रकार मांगो के प्रकरण की जानकारी पहुंचे और देश के सभी फोटोग्राफरों पत्रकारों का हित हो सके एक फोटोग्राफर ही है जो प्रत्येक व्यक्ति को उसकी पहचान दे सकता है।

प्रेस फोटोग्राफरों को सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त फोटोग्राफरों का दर्जा दिलाया जाए। फोटोग्राफी कार्य करने के लिए सरकारी बैंकों से लोन में सब्सिडी की सुविधा लागू कराई जाए। 3- 60 साल की आयु पूरी होने के बाद फोटोग्राफरों एवं समस्त पत्रकारों को पेंशन लागू की जाए। सरकार की तरफ से फोटोग्राफरों /समस्त पत्रकारों को दुर्घटना चिकित्सा बीमा योजना लागू की जाए। सरकारी विभागों में फोटोग्राफरों की नियुक्ति की जाए जहां आवश्यकता होती है। सभी फोटोग्राफरों / पत्रकारों को मान्यता का दर्जा दिया जाए एवं चिकित्सा सुविधा का प्रावधान किया जाए।

हिन्दुओं के हक में रहा ज्ञानवापी मामले में कोर्ट का फैसला, अगली सुनवाई का है इंतजार

वाराणसी ने की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे इस साल 20 मई को रद्दीवानी मुकदमे में शामिल मुद्दों की जटिलताएं के आधार पर जिला न्यायाधीश को स्थानांतरित कर दिया था। जिला जज ने जून में बंद कमरे में मामले की सुनवाई शुरू की और जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, वह मामले में हस्तक्षेप करने से पहले मस्जिद समिति के आवेदन पर जिला अदालत के फैसले का इंतजार करेगा। ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण 1669 में मुगल सम्राट औरंगजेब के शासनकाल के दौरान किया गया था, जिन्होंने साइट पर मौजूदा विश्वेश्वर

मंदिर को ध्वस्त करने और एक मस्जिद द्वारा इसके प्रतिस्थापन का आदेश दिया था। इसका उल्लेख 1937 की किताब, 'हिस्ट्री ऑफ बनारस: फ्रॉम द अलीएस्ट टाइम्स डाउन टू 1937' में किया गया है, ए एस अल्टेकर, जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति विभाग के प्रमुख थे। मंदिर के चबूतरे को अछूता छोड़ दिया गया था और मस्जिद के प्रांगण के रूप में कार्य करता था। दीवारों में से एक को भी बरखा गया, और यह किंबला दीवार बन गई, जो मक्का के सामने वाली मस्जिद की सबसे महत्वपूर्ण दीवार थी। नष्ट हुए मंदिर की सामग्री का उपयोग मस्जिद के निर्माण में किया गया था।

गणेश भक्तों में खुशी की लहर, मुस्लिमों ने भक्तों पर बरसाए फूल

किशोर मुते

पालघर जिले के बोईसर के अवध नगर में मुस्लिम विकास सामाजिक संस्था के अध्यक्ष आशाद शेख, सचिव अब्दुल्ला शेख, उपसचिव इस्तिथाक सय्यद, कार्यकारिणी सदस्य गुल मोहम्मद खान, एकता सामाजिक संस्था की अध्यक्ष शमीम यासीन शेख, उपाध्यक्ष मुकाराम खान, सदस्य मुस्कान शेख, इलियास पठान के साथ अवध नगर के आरिफ मेमन, वक्सी शेख, इशा खान, मझहर भाई, खरकुल्ला बाबा, सर्वर अली खान, अनिस भाई, अब्दुल मुस्तफा चौधरी व अन्य अवध नगर के मुस्लिम लोगों ने ताज इंटरप्राइजेस के बाहर स्टॉल लगाकर गणेश भक्तों के कार्यकर्त्ता पर फूलों कि बरसात की।

हर कार्यकरता को पीने के पानी की बोतल और गुलाब का फूल देकर स्वागत किया। फुल देऊन त्यांच्या स्वागत ही केल। गणेश मंडल के अध्यक्ष प्रभाकर राउल को मुस्लिम विकास सामाजिक संस्था के अध्यक्ष आशाद बी शेख ने शाल व पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। प्रभाकर राउल ने कहा कि गत 26 वर्ष से वे गणपती बाप्पा मोरया का विसर्जन करते आ रहे हैं, पर पहली बार मुस्लिम विकास सामाजिक संस्था द्वारा उनके साथ-साथ कार्यकर्ताओं का भी दिल से स्वागत किया है। वे यह भी बोले कि मुस्लिम समाज द्वारा आज शॉल व पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया, यह खुशी की बात तो है, पर सर्व धर्म संभव की भी बात है।

बाबरपुर में खेल प्रतियोगिता का हुआ आयोजन



सामाजिक कौशल विकास का होना जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। यूवाओं में प्रतियोगी भावना सीखने का अवसर भी मिलता हैं। बाबरपुर विधानसभा से कांग्रेस के हाजी जरीफ ने कुछ शब्दों में यूवाओं को जागरूक किया उन्होंने बताया हैं कि आपने देखा होगा सभी क्रिकेटरर्स कितने फिट और स्ट्रॉंग होते हैं, ताकि वो मैदान में डटकर खेल

सकें। इससे जाहिर होता है कि क्रिकेट खेलने के लाभ क्या हैं और कैसे सेहत इससे दुरुस्त रहता है। बेशक, आपको क्रिकेट देखना पसंद हो, लेकिन कभी आप भी यह गेम खेलकर देखिए, वजन तो कम होगा ही, हड्डियों और मांसपेशियों को भी मजबूती मिलेगी। खेलों से संबंधित कुछ गतिविधियाँ जो हमारे जीवन में लाभ करी साबित हो

सकती हैं। थोड़ी बहुत कार्डियो वर्क आउट (हृदय से संबंधित व्यायाम) के समान है। भड़ती जवानी में यूवाओं के फेफड़े अधिक क्षमता से कार्य करते हैं जो कि हमारे जीवन में उन्नति पैदा करते हैं तथा इस प्रकार की गतिविधियों से रक्त परिसंचरण में भी सुधार आता है। यूवाओं को खेल में कैसे सहभागी बनायें। खैर उन्हें सिर्फ बेसिक बातें

(आधारभूत बातें) बताएं और आगे वह स्वयं ही रूचि दिखाएंगे। हाजी जरीफ ने टीम का शुक्रिया किया और उनका आभार व्यक्त किया और हाजी के

साथ उनके खेल प्रेमी साथी जिनमें भाई नियाज साहब, हाजी दिलशाद कुरैशी साहब, नसीब आलम साहब, जाकिर भाई मौजूद रहे।

रेत उत्खनन पर ट्रैक्टर मय ट्राली किए जप्त

धीरेंद्र कुमार / एनसीआर समाचार

मध्य प्रदेश उमरिया क्षेत्र संचालक बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व ने बताया कि बीट कुचवाही में अवैध रेत उत्खनन से संबंधित मुखबिर की सूचना के आधार पर वन परिक्षेत्राधिकारी मानपुर, बफर द्वारा तुरन्त टीम का गठन करते हुए मौके पर पहुंचकर कार्यवाही की गई। कार्यवाही के दौरान 02 नग ट्रैक्टर मय ट्रॉली पॉवरट्रेक 435 प्लस जिसका इंजन नम्बर ई-3520598 है चेचिस नम्बर अस्पष्ट है, तथा पॉवरट्रेक- यूरो-47 चेचिस नम्बर ईटी5358401केएल है, इन्जन नम्बर ई-3647205 है। फावड़ा 05 नग, तगाड़ी 10 नग, हथौड़ा 01 नग, गैती 01 नग की मौके से जपती की गई। मौका स्थल पर वन कर्मचारियों को देख अवैध रेत उत्खनन में शामिल मजदूर एवं वाहन चालक भाग खड़े हुए। कार्यवाही उपसंचालक एवं सहायक संचालक मानपुर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व उमरिया के मार्गदर्शन में वनपरिक्षेत्राधिकारी मानपुर मुकेश कुमार अहिरवार द्वारा आगामी कार्यवाही की जा रही है।

संपादकीय

महात्मा गांधी के आग्रह के बाद भी हम अंग्रेजी का मोह नहीं छोड़ सके

तुर्की जब स्वतंत्र हुआ, तब आधुनिक तुर्की के संस्थापक कमालपाशा ने जिन बातों पर गंभीरता से ध्यान दिया, उनमें से एक भाषा भी थी। कमालपाशा ने विरोध के बाद भी बिना समय गंवाए शिक्षा से विदेशी भाषा को हटा कर तुर्की को अनिवार्य कर दिया। क्योंकि, वह तुर्की के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का विस्तार करना चाहते थे, इसके लिए उन्हें अपनी भाषा की आवश्यकता थी। चूँकि उस समय तुर्की अरबी लिपि में लिखी जाती थी, इसलिए उन्होंने एक घोषणा और की जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा कि वे लोग सरकारी नौकरी से वंचित कर दिए जाएंगे, जिन्हें लैटिन लिपि का ज्ञान नहीं होगा। इसी प्रकार दुनिया भर में बिखरे यहूदियों को जब उनकी भूमि प्राप्त हुई, तो उन्होंने भी अपनी भाषा ‘हिब्रू’ को ही अपनाया। सोचिए, भूमिहीन यहूदियों की भाषा कहीं लिखत-पढ़त के व्यवहार में नहीं थी। इसके बाद भी जब यहूदियों ने इजराइल का नवनिर्माण किया तो राख के ढेर में दबी अपनी भाषा हिब्रू को ज़िंदा किया। आज जिस अंग्रेजी की अनिवार्यता भारत में स्थापित करने का प्रयास किया जाता है, उसके स्वयं के देश ब्रिटेन में वह एक जमाने में फ्रेंच की दासी थी। बाद में ब्रिटेन के लोगों ने आंदोलन कर अपनी भाषा ‘अंग्रेजी’ को उसका स्थान दिलाया। अपनी भाषा में समस्त व्यवहार करने वाले यह देश आज अग्रणी पंक्ति में खड़े हैं। अपनी भाषा में शिक्षा-दीक्षा के कारण ही यहाँ के नागरिक अपने देश की उन्नति में अधिक योगदान दे सके। अपनी भाषा का महत्व दुनिया के लगभग सभी देश समझते हैं। इसलिए उनकी आधिकारिक भाषा उनकी अपनी मातृभाषा है। किंतु, हम अभाग्ये लोग जब स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भी मानसिक दासिता से मुक्ति नहीं पा सके। महात्मा गांधी के आग्रह के बाद भी अंग्रेजी का मोह नहीं छोड़ सके। भारत में जिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की चर्चा अकसर हिंदू संगठन या फिर राजनीतिक संदर्भ में होती है, वह संगठन सदैव अपनी सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए उपाय करता रहता है। किंतु, इस नाते उसका उल्लेख कम ही हो पाता है। अपनी संस्कृति की श्रेष्ठता को स्थापित करने के प्रयत्नों में आरएसएस ‘मातृभाषा’ के महत्व को भी रेखांकित करता है। दरअसल, संघ मानता है कि- “भाषा किसी भी व्यक्ति एवं समाज की पहचान का एक महत्वपूर्ण घटक तथा उसकी संस्कृति की सजीव संवाहिका होती है। देश में प्रचलित विविध भाषाएँ एवं बोलियाँ हमारी संस्कृति, उदात्त परंपराओं, उत्कृष्ट ज्ञान एवं विपुल साहित्य को अक्षुण्ण बनाये रखने के साथ ही वैचारिक नवसृजन हेतु भी परम आवश्यक हैं”। अंग्रेजी के प्रभाव में जिस तरह भारतीय भाषाओं को नुकसान हो रहा है। यहाँ तक कि भारतीय भाषाओं के बहुत से शब्द विलुप्त हो गए हैं। उनमें अंग्रेजी और विदेशी भाषाओं के शब्दों की भरमार हो गई है। इस अनधिकृत घुसपैठ से कई बोलियाँ और भाषाएँ या तो पूरी तरह विलुप्त हो चुकी हैं या फिर विलुप्त होने की कगार पर हैं। भारतीय भाषाओं की इस स्थिति को देखते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पहल करते हुए 2015 में नागपुर में आयोजित अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में ‘भारतीय भाषाओं के संरक्षण एवं संवर्द्धन की आवश्यकता’ शीर्षक से प्रस्ताव पारित कर महत्वपूर्ण कदम उठाया। हालाँकि, संघ अपने प्रारंभ से ही भारतीय भाषाओं के संवर्द्धन के लिए प्रयासरत है। किंतु, आज की स्थिति में भारतीय भाषाओं पर आसन्न विकट संकट को देखकर संघ ने सभी सरकारों, अन्य नीति निर्धारकों और स्वेच्छिक संगठनों सहित समस्त समाज से आग्रह किया है कि वह अपनी भाषाओं को बचाने के लिए आगे आएँ। इसके लिए संघ ने अपने प्रस्ताव में कुछ करणीय कार्यों एवं उपायों का उल्लेख किया है। भारत के राजनेताओं की स्वार्थपरक नीतियों एवं संकीर्ण सोच के कारण देश का बहुत अहित हुआ है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भी हिंदी उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक संपर्क की भाषा थी। हम चाहते तो उस समय हिंदी को राष्ट्रभाषा का सम्मान दे सकते थे। उसे राजकाज की भाषा बना सकते थे और अन्य भारतीय भाषाओं को भी यथोचित सम्मान दे सकते थे। राज्यों में उनकी भाषा और देश स्तर पर हिंदी के प्रचलन को बढ़ा सकते थे। किंतु, हमारे औपनिवेशिक दिमागों ने यह स्वीकार नहीं किया और अंग्रेजी को ही राज-काज की भाषा बनाए रखा। भाषाओं का ऐसा झगड़ा प्रारंभ किया कि भारतीय भाषाएं अपने ही घर में आपस में एक-दूसरे के विरुद्ध हो गईं और अंग्रेजी उन सबके ऊपर हो गई। पिछले 70 वर्षों में इस भाषा नीति का परिणाम यह हुआ कि आज हमें अपनी भाषाओं को बचाने के लिए अभियान और आह्वान लेकर निकलना पड़ रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज भारतीय भाषाओं की चिंता नहीं कर रहा है, बल्कि उसने स्वतंत्रता के तीन वर्ष पश्चात ही हिंदी को न केवल राष्ट्रभाषा अपितु विश्वभाषा बनाने का आह्वान किया था। दो मार्च, 1950 को रोहतक में हरियाणा प्रांतीय हिंदी सम्मेलन का आयोजन हुआ था। इस अवसर पर संघ के सरसंघचालक माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर ‘श्रीगुरुजी’ ने जो उद्बोधन दिया था, उसका शीर्षक ही था- ‘हिंदी को विश्वभाषा बनाना है’। संघ जिस राष्ट्रीयता, भारतीयता, संस्कृति की ध्वजपताका धामकर चल रहा है, उसका महत्वपूर्ण घटक भाषा है। यह केवल हिंदी नहीं है। हिंदी तो समूचे हिंदुस्थान की प्रतीक है। किंतु, हिंदुस्थान की पहचान उसकी विविधता है। यह विविधता भाषाओं में भी है। बोलियों में भी। संघ उसी विविधता में एकाम्त संस्कृति का प्रचारक है, इसलिए वह सभी भारतीय भाषाओं एवं बोलियों को लेकर सजग है। भारतीय भाषाओं की वर्तमान स्थिति, उसमें बेहदरी और समस्त भारतीय भाषाओं को नजदीक लाने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा से वर्ष 2015 में ‘भारतीय भाषा मंच’ मंच की स्थापना भी की गई है। भारतीय भाषा मंच ने अपने उद्देश्य में 18 बिन्दु शामिल किए हैं। प्रतिनिधि सभा ने जिन आग्रहों का उल्लेख अपने प्रस्ताव में किया है, वह सब भारतीय भाषा मंच के उद्देश्यों में शामिल हैं। मंच के प्रयासों का प्रतिफल भी आ रहा है। यहाँ उल्लेखनीय होगा कि प्रतिनिधि सभा ने वर्ष 2015 में भी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा हेतु एक प्रस्ताव पारित किया है। उस प्रस्ताव में संघ ने जोर देकर कहा था कि प्रारंभिक शिक्षण किसी विदेशी भाषा में करने पर जहाँ व्यक्ति अपने परिवेश, परंपरा, संस्कृति और जीवन मूल्यों से कटता है वहीं पूर्वजों से प्राप्त होने वाले ज्ञान, शास्त्र, साहित्य आदि से अनभिज्ञ रहकर अपनी पहचान खो देता है। भारत को अपनी पहचान न केवल बचानी है, बल्कि जिस गुरुतर भूमिका के निर्वाहन की ओर वह बढ़ रहा है, उसके लिए भी उसे अपनी भाषाओं का संरक्षण एवं संवर्द्धन करना ही होगा। संभव है कि अपनी भाषा के बिना भी वह विश्व पटल पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दे, लेकिन वह उपस्थिति बहुत कमजोर होगी।

सूर्युजय वीक्षित

स्वयं को पुनर्जीवित करने के लिए कांग्रेस अपने नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में कश्मीर से कन्याकुमारी तक 145 दिन की यात्रा पर निकली है और इसे नाम दिया है, भारत जोड़ो यात्रा। विडम्बना यहीं से प्रारंभ होती है— उद्देश्य है दिन प्रतिदिन बिखरती कांग्रेस को कुछ संजीवनी देना और इसी बहाने एक बार फिर राहुल को लांच करना और नाम है भारत जोड़ो जबकि होना चाहिए था कांग्रेस जोड़ो। “कांग्रेस को भारत से जोड़ो” नारा होता तो भी बात बन जाती। कांग्रेस पार्टी की यह यात्रा कहीं, क्या और कितना जोड़ पाएगी यह तो समय बतायेगा लेकिन पिछले पांच दिनों में इस यात्रा ने कांग्रेस का असली चरित्र अवश्य बेनकाब किया है। राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पूरी तरह एक हिंदू और सनातन संस्कृति विरोधी पार्टी बन चुकी है इसमें टुकड़े-टुकड़े गैंग तथा हम लेकर रहेंगे आजादी के नारे लगाने वाले लोगों की भरती हो चुकी है। आन्दोलन जीवी भी इसमें स्थान पा रहे हैं। राहुल गांधी इस यात्रा के माध्यम से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समाप्त करने का दिवास्वप्न भी देख रहे हैं। भारत जोड़ो का नारा देकर यात्रा पर निकले राहुल गांधी की कांग्रेस द्वाीत करके संघ को 145 दिन में जलाकर भस्म करने की भविष्यवाणी कर रही है। राहुल गांधी संभवतः यह भूल गए हैं कि स्वर्गीय जवाहर लाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी सहित तमाम सेकुलर नेता संघ को समाप्त करने का सपना देखते रहे किंतु स्वयंसेवकों की कड़ी मेहनत और राष्ट्रवादी विचारधारा के बल पर संघ आज एक विशाल वटवृक्ष बन चुका है जो राहुल गांधी की 145 दिन की यात्रा के समापन के बाद भी वैसे ही खड़ा रहेगा। संघ-भाजपा और कांग्रेस के बीच विवाद उस समय गहरा गया जब भारत जोड़ो यात्रा के पांचवें दिन कांग्रेस ने एक फोटो द्वाीत किया और लिखा,

राहुल गांधी के केरल में प्रवेश करते ही कांग्रेस ने संघ पर आपत्तिजनक द्वाीत किया है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसके माध्यम से राहुल और कांग्रेस केरल के कट्टरपंथी मुसलमानों को खुश करना चाहते हैं। दरअसल ऐसा करके राहुल नेहरू जी के पदचिन्हों का ही अनुसरण कर रहे हैं।

“भारत को नफरत की जंजीरों से मुक्त कराने और भाजपा-संघ द्वारा किये गये नुकसान की भरपाई के लिए हम एक-एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। आगे लिखा, “145 दिन और” साथ लगाए गए फोटो में संघ के गणवेश में आग लगी हुई है और उसमें से धुआं उठ रहा है। यद्यपि अब निकर संघ का गणवेश नहीं रहा किन्तु कांग्रेस की मंशा स्पष्ट हो गयी है। राहुल गांधी के केरल में प्रवेश करते ही कांग्रेस ने संघ पर आपत्तिजनक द्वाीत किया है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसके माध्यम से राहुल और कांग्रेस केरल के कट्टरपंथी मुसलमानों को खुश करना चाहते हैं। दरअसल ऐसा करके राहुल नेहरू जी के पदचिन्हों का ही अनुसरण कर रहे हैं। नेहरू जी ने भी आजादी के ठीक बाद दक्षिण भारत में संघ को दबाने और मुस्लिम लीग को आगे बढ़ाने का काम किया था। नेहरू ने तत्कालीन मद्रास प्रांत जिसमें वर्तमान तमिलनाडु, आंध्र, कर्नाटक और केरल आता था, की सरकार पर ये दबाव बनाया था कि वो संघ पर प्रतिबंध लगाये वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम लीग को खुली छूट दी जाए। आजादी के ठीक छह महीने बाद से ही नेहरू जी ने संघ को समाप्त करने के षड्यंत्र करने प्रारंभ कर दिए थे। आज उन्हीं के परनाती राहुल गांधी 145 दिन बाद संघ को समाप्त करने का सपना देख रहे हैं। राहुल गांधी की कांग्रेस ने जिस प्रकार से खाकी निकर पर आग लगाई



है वैसेी आग तो कांग्रेस वास्तव में लगाती रही है जिसमें 1984 के सिख दंगों से लेकर, बिहार का भागलपुर दंगा, उग्र का मेरठ दंगा सहित तमाम ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं जिनसे पता चलता है कि कांग्रेस कितनी अधिक नफरतों से भरी पड़ी हुई है। देश में नफरत का जो भी बवा खुचा व्यापार है वह पूरा का पूरा कांग्रेस के गांधी परिवार के नेतृत्व में ही चल रहा है जिसमें सिर तन से जुदा अभियान भी शामिल है। इसके पूर्व इसी यात्रा के दौरान राहुल गांधी तमिलनाडु में कन्याकुमारी में एक ऐसे ईसाई पादरी जार्ज पौन्नेया से मुलाकात करते हैं जो हिंदू देवी देवताओं का अपमान करता रहता है। दोनों की मुलाकात का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ईसाई पादरी जार्ज पौन्नेया ईसा मसीह को सच्चा भगवान बताते हुए मां शक्ति समेत अन्य सभी देवताओं को निम्नस्तर का बता रहा है और चुनावों के दौरान मंदिर-मंदिर जाने वाले राहुल गांधी उसको बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद भाजपा व संत समाज का हमलावर होना स्वाभाविक था। संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने पादरी द्वारा सनातन धर्म को लेकर की गई टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति व्यक्त करते हुए संस्था के अध्यक्ष श्रीमहंत रविंद्र पुरी ने कहा कि राहुल गांधी ने पादरी के बयान की निंदा नहीं कि यह कष्टकारी है। वह जन्मजात

ईसाई है, उनके अंदर हिंदुत्व नहीं है अन्यथा वह इसका विरोध करते। हिंदू समाज उन्हें सबक सिखाएगा। यीशु सनातन धर्मावलंबियों के ईश्वर नहीं हो सकते। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि कांग्रेस नेताओं ने हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया है। गांधी परिवार कई बार भगवान राम सहित हिंदू देवताओं का सबूत मांग चुका है। यह वही गांधी परिवार व कांग्रेस के नेता हैं जो रामायण व महाभारत को केवल एक साधारण महाकाव्य ही मानते हैं। यह वही कांग्रेस के नेता हैं जिनके मार्गदर्शन में मां काली का अपमान किया जाता है, यह वही कांग्रेस के लोग हैं जिनके मार्गदर्शन में दिवंगत मकबूल फिदा हुसैन जैसे लोग हिंदू देवी-देवताओं की गंगी तस्वीरें बनाकर व प्रदर्शनी लगवाकर उनका अपमान करते रहते हैं। यह वही राहुल गांधी हैं जिन्होंने अभी हाल ही में हिंदू बनाम हिन्दुत्व पर बहस छेड़कर हिंदू समाज को खंड-खंड करने की घृणित साजिश रची थी। राहुल गांधी ने जिस ईसाई पादरी से मुलाकात करी है वह पहले भी हिंदू धर्म के खिलाफ नफरती बयान देता आया है। यह पादरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गुहमंशी अमिता शाह के खिलाफ भी जहरीली बयानबाजी कर चुका है। भारत जोड़ो यात्रा के रूट पर विहंगम दृष्टि डालें तो पता चल जायेगा कि कांग्रेस के असली मंसूबे क्या हैं। राहुल गांधी की यह यात्रा पूरी तरह वुर्तिफिकरी के लिए है क्योंकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी 20 लोकसभा सीटों वाले राज्य केरल में तो 18 दिन रहेंगे लेकिन 80 सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश में सिर्फ चार दिनों की यात्रा करेंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी यात्रा में हिंदू आस्था के सबसे बड़े केंद्र अयोध्या, मथुरा और काशी शामिल नहीं हैं। स्पष्ट है कि अयोध्या में भगवान श्रीराम का जो भव्य मंदिर बन रहा है तथा मथुरा और काशी जो नई अंगड़ाई ले रहे हैं वह कांग्रेस को रास नहीं आ रहा है।

राज पथ का नया नाम कर्तव्य पथ की बजाय सेवा पथ ज्यादा सही रहता

डॉ. वेदप्रताप वैदिक

कर्तव्य पथ के मुकाबले। यदि प्रधानमंत्री ने पहली बार शपथ लेते हुए खुद को देश का ‘प्रधान सेवक’ बताया था तो इस पथ का नाम ‘सेवा-पथ’ रखा जा सकता था। इससे यह ध्वनित होता कि भारत में ‘राजा’ का राज नहीं, ‘सेवक’ की सेवा चल रही है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘सेंट्रल विस्टा’ का उद्घाटन करते समय सबसे ज्यादा जोर इस बात पर दिया कि वे देश की गुलाम मानसिकता को खत्म करने का काम कर रहे हैं। इसमें शक नहीं कि जॉर्ज पंचम की जगह सुभाष बाबू का शानदार पुतला खड़ा करना अत्यंत साराहीनय कदम है और पूरे ‘इंडिया गेट’ इलाके का नक्शा बदलना भी अपने आप में बड़ा काम है। इस क्षेत्र में बने नए भवनों से सरकारी दफ्तर बेहतर ढंग से चलेंगे और नई सड़कें भी लोगों के लिए अधिक सुविधाजनक रहेंगी। इस सुधार के लिए नरेंद्र मोदी को आने वाली कई पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा। लेकिन राजपथ का नाम ‘कर्तव्यपथ’ कर देने को मानसिक गुलामी के विरुद्ध संग्राम कह देना कहां तक ठीक है? पहली बात तो यह कि राजपथ शब्द हिंदी का ही है। दूसरा, यह सरल भी है, कर्तव्य पथ के मुकाबले। यदि प्रधानमंत्री ने पहली बार शपथ लेते हुए खुद को देश का ‘प्रधान सेवक’ बताया था तो इस पथ का नाम ‘सेवा-पथ’ रखा जा सकता था। इससे यह ध्वनित होता कि भारत में ‘राजा’ का राज नहीं, ‘सेवक’ की सेवा चल रही है। प्रधानमंत्री चाहें तो अब भी उसका नाम ‘सेवा पथ’ रख सकते हैं लेकिन इससे भी बड़ा और बुनियादी सवाल यह है कि क्या कुछ सड़कों, द्वीपों और शहरों के नाम बदल देने और राष्ट्रनायकों की मूर्तियाँ खड़ी कर देने से आप अंग्रेज के जमाने से चली आ रही गुलाम मानसिकता से मुक्ति पा सकते हैं? यह क्रिया-कर्म वैसा ही है, जैसा कि नौटंकियों में होता है। सिर पर मुकुट और हाथ में धनुषबाण तानकर आप राम की मुद्रा तो धारण कर लेते हैं लेकिन फिर मंच से उतरते ही आप सिंगरेट और गांजा फूंकने लगते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि नौटंकियों निरर्थक होती हैं। उनसे भी लाभ होता है लेकिन भारत की आजादी के 75 साल का उत्सव मनाने वाली सरकार को यह पता ही नहीं है कि उसकी रग-रग में गुलामी रमी हुई है। अभी भी हमारे नेता नौकरशाहों के नौकर हैं। देश के सारे कानून, देश की सारी ऊँची पदाई व अनुसंधान और देश का सारा न्याय किसकी भाषा में होता है? क्या वह भारत की भाषाओं में होता है? वह आपके पुराने मालिक अंग्रेज की भाषा में होता है। प्रधानमंत्री के नाम से चलने वाली ज्यादातर योजनाएं, अभियानों और देशहितकारी कामों के नाम भी हमारे पुराने मालिक की जुबान में रखे जाते हैं। क्योंकि हमारे नेताओं का काम सिर्फ जुबान चलाना है। असली दिमाग तो नौकरशाहों का चलता है। हमारे नौकरशाह और बुद्धिजीवी मकाले और कर्जन के सांचे में ढले हुए हैं। जब तक उस सांचे को तोड़ने वाला कोई गांधी, लोहिया या दीनदयाल भारत में पैदा नहीं होगा, यह गुलाम मानसिकता भारत में दनदनाती रहेगी।



योगी को छोड़कर केशव प्रसाद मोर्य को लगातार निशाना क्यों बना रहे हैं अखिलेश यादव ?

गौतम मोरारका

अच्छा होता कि अखिलेश यादव अपने पड़ोसी राज्य बिहार के राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव से कुछ सब सीख लेते जो किताबी ज्ञान में भले अखिलेश से अट्ठारह बैठते हों लेकिन तेजस्वी की सियासी पकड़ अखिलेश से कहीं ज्यादा बेहतर है।

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव आजकल योगी सरकार में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मोर्य के खिलाफ बेहद आक्रामक नजर आ रहे हैं। अखिलेश किसी न किसी बहाने मोर्या पर निशाना साधते रहते हैं। सपा प्रमुख कभी मोर्य के परिजनों को कभी राजनीति में खींच लाते हैं तो कभी उनके प्रति सहानुभूति वाला व्यवहार करते नजर आते हैं। मोर्य को मुख्यमंत्री का पद दिलाने का सपना दिखाते हैं। अखिलेश और मोर्य विवाद में कभी पलड़ा अखिलेश का भारी नजर आता है तो कभी मोर्य बीस पड़ते दिखाई देते हैं। ऐसे में चर्चा है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि अखिलेश ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को छोड़कर केशव प्रसाद मोर्य पर हमले शुरू कर दिए? इसके पीछे की सियासत क्या है। राजनीति के कुछ जानकार इसे अखिलेश यादव की सोची समझी रणनीति का हिस्सा बताते हैं, जिसके सहारे सपा प्रमुख पिछड़ों के मन में बीजेपी के प्रति नफरत का भाव पैदा करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में पिछड़ों की आबादी करीब चालीस फीसदी है। 2014 के बाद से कई चुनावों में पिछड़ा वोटर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कर रहा है, जबकि इससे पहले तक समाजवादी पार्टी की पिछड़ों में अच्छी खाली पकड़ थी। पूर्व सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव को तो पिछड़ों का बड़ा नेता होने का तमगा तक हासिल था। पिछड़ों के सहारे मुलायम ने सियासत की लम्बी और कामयाब पारी खेली थी, लेकिन अखिलेश यादव में वह बात नहीं है। अखिलेश के सपा की कमान संभालने के बाद पिछड़ा वोटर सपा से विमुख होता जा रहा है। समाजवादी पार्टी की लगातार असफलता के पीछे पिछड़ा वर्ग के वोटरों का सपा से विमुख हो जाना भी बड़ी वजह है। इसीलिए बार-बार केशव प्रसाद मोर्य पर निशाना लगाकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव पिछड़ों के बड़े वर्ग मोर्य, कुशवाहा व अन्य पिछड़े वर्ग को ये संदेश देना चाहते हैं कि उनके नेता के साथ भाजपा गलत कर रही है। वह यह दर्शाना चाहते हैं कि भाजपा में केशव प्रसाद मोर्य की कोई अहमियत नहीं है और सरकार में भी उनके साथ भेदभाव हो रहा है। चुनाव के दौरान भी अखिलेश और उनके समर्थक इसकी कोशिश कर चुके हैं। बहरहाल, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव इस समय चौतरफा हाथ-पैर मार रहे हैं। वह समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन-सा फार्मूला अपना कर वे अपनी लगातार हार को जीत में बदल सकते हैं। लेकिन उनके हाथ कुछ लग नहीं रहा है। इसी के चलते वह मानसिक दबाव में हैं। राजनीति विचारधारा की लड़ाई होती है लेकिन अखिलेश ने कई मौकों पर इसे व्यक्तिगत लड़ाई में भी बदलने में परहेज नहीं किया जिसका उन्हें और उनकी पार्टी को नुकसान भी उठाना पड़ा। वह कभी योगी पर हमला करते हैं तो कभी केशव प्रसाद मोर्य पर हमलावर हो जाते हैं। चाचा शिवपाल यादव पर तंज कसने का कोई मौका भी नहीं छोड़ते। 2017 के विधानसभा चुनाव में भरे मंच पर अखिलेश ने जिस तरह



से अपने पिता मुलायम सिंह को भरी सभा में अपमानित किया था, वह आज भी बहुत से लोग भूल नहीं पाए हैं। अखिलेश यादव गठबंधन धर्म निभाने में भी फिसझी साबित हो रहे हैं। ओमप्रकाश राजभर इसकी सबसे बड़ी मिसाल हैं जिनके साथ अखिलेश का गठबंधन कुछ महीनों भी नहीं चल पाया। चाचा शिवपाल यादव कभी उनके करीब दिखते हैं, फिर अचानक दूर चले जाते हैं। अब तो यह हाल हो गया है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी के नेता और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मोर्य को यह आमंत्रण देने लगे हैं कि यदि वह (केशव प्रसाद) 100 विधायक लेकर आ जाएं तो अखिलेश, उन्हें मुख्यमंत्री बनाव देंगे। इस पर शिवपाल यादव पूछ रहे हैं कि अगर केशव प्रसाद मोर्य को अखिलेश सीएम की कुर्सी सौंप देंगे तो स्वयं क्या करेंगे। इस तरह की बचकानी बातों से अखिलेश अपना स्तर लगातार गिराते जा रहे हैं। अच्छा होता कि अखिलेश यादव अपने पड़ोसी राज्य बिहार के राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव से कुछ सब सीख लेते जो किताबी ज्ञान में भले अखिलेश से अट्ठारह बैठते हों लेकिन तेजस्वी की सियासी पकड़ अखिलेश से कहीं ज्यादा बेहतर है। तेजस्वी लगातार बीजेपी से मुकाबला कर रहे जबकि अखिलेश यादव अपने को ही संभाल नहीं पा रहे मुकाबला करने की तो बाद की बात है। तेजस्वी यादव ने एक तरह से जनता दल नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी घुटने टेकने को मजबूर कर दिया है। नीतीश सरेंडर करके पूरी तरह से लालू-तेजस्वी की शरण में चले गए हैं। तेजस्वी ने बिहार में कोई ऐसा प्रयोग नहीं किया जैसा उत्तर प्रदेश में अखिलेश करते रहे हैं। इसी वर्ष हुए विधानसभा चुनाव में तो अखिलेश यादव ने हर उस नेता को गले लगा लिया जो बीजेपी से नाराज चल रहा था, भले ही इससे उन्हें (अखिलेश को) फायदा कम नुकसान ज्यादा हुआ। इसमें से कई नेता तो अखिलेश का साथ छोड़ भी चुके हैं जिसमें ओमप्रकाश राजभर प्रमुख हैं जो बीजेपी से गठबंधन तोड़ कर सपा के साथ आए थे लेकिन चुनाव में सपा की दुर्दशा देखकर उनको समझ में आ गया कि सपा के साथ उनका भविष्य बहुत स्वर्णिम नहीं है। इससे पहले महान बन भी सपा से गठबंधन तोड़ चुका था। खैर, राजनीति कब करवट ले ले कोई नहीं जानता, लेकिन इसके लिए सपा प्रमुख को काफी मेहनत करना होगी। उन्हें पार्टी में उन लोगों को भी तवज्जो देना होगी जिनके लिए नेता से बढ़कर पार्टी होती है। ऐसे नेता खरी खरी कहते जरूर हैं लेकिन इसमें उनका अपना फायदा कम पार्टी के भले की सोच ज्यादा छुपी होती है। अखिलेश के लिए सबसे जरूरी है कि वह ज्यादा समय फील्ड में रहें। ऐसे अनुभवी नेताओं से मिलें जो अपने घरों में बैठ गए हैं। उनको मनाएं और कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी उनके कंधों पर डालें जिससे उनका मनोबल बढ़ेगा।

आवश्यक सूचना

एनसीआर समाचार के समस्त पाठकों तथा पत्र के साथ जुड़े समस्त पत्रकारों, व्यावसायिक संयोजक, सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं/संस्थानों को यह सूचित किया जाता है कि गत वर्षों से श्री बलबीर सिंह के नेतृत्व व स्वामित्व में चले आ रहे वर्तमान एनसीआर समाचार पत्र का प्रकाशन प्र. हनीफ, पुत्र श्री इस्माईल खान मास्टरजी, संभल विहार के स्वामित्व व नेतृत्व में हो रहा हैं। अतः भविष्य में समस्त संगम की व्यावसायिक, कानूनी एवं सामाजिक गतिविधियों के संचालन हेतु मो. हनीफ/ नये कार्यालय जी 12/276, संगम विहार, नई दिल्ली - 110062, दूरभाष (मोबाईल) 8888883968, 9811111715 से सम्पर्क करें



संपादकीय कार्यालय

जी-12/276, संगम विहार, नई दिल्ली-110062. सोमवार से शनिवार प्रातः 9:00 से सायं 9:00 फ़ोन: 8888883968, 9811111715

अडानी ने बड़े बेटे करण को सौंपी ‘अंबुजा’ की कमान, 20,000 करोड़ पूंजी की मंजूरी

एजेंसी

नयी दिल्ली। उद्योगपति गौतम अडानी के पुत्र करण सीमेंट कंपनियों की कमान संभालेंगे। अडानी समूह ने अंबुजा सीमेंट्स और एसीसी लि. के अधिग्रहण को पूरा कर लिया है।

इसके साथ ही समूह देश का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक बन गया है। अडानी समूह का कारोबार बंदरगाह और ऊर्जा से लेकर हवाईअड्डा तथा दूरसंचार तक फैला है और अब इसमें सीमेंट भी जुड़ गया है। समूह ने शुक्रवार को एक बयान में 6.5 अरब डॉलर में अंबुजा सीमेंट्स और एसीसी के अधिग्रहण की घोषणा की। सौदे में होल्सिम्स की अंबुजा और एसीसी में हिस्सेदारी के अधिग्रहण के साथ शेयरधारकों के लिये खुली



पेशकश शामिल है। अडानी द्वारा अधिग्रहण के तुरंत बाद दोनों सीमेंट कंपनियों ने मुख्य कार्यपालक अधिकारियों (सीईओ) और मुख्य वित्त अधिकारियों (सीएफओ) समेत इन कंपनियों के निदेशक मंडल ने इस्तीफे की घोषणा की है। समूह ने अपने संस्थापक चेयरमैन गौतम अडानी को अंबुजा सीमेंट्स का प्रमुख नामित

किया है। उनके पुत्र करण सीमेंट कारोबार की जिम्मेदारी संभालेंगे। फिलहाल वह समूह के बंदरगाह कारोबार को देखेंगे। उन्हें दोनों कंपनियों में बतौर निदेशक और एसीसी लि. में चेयरमैन पद के लिये नामित किया गया है। अडानी समूह ने दोनों कंपनियों के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों को भी नामित कर

दिया है। इनमें अंबुजा सीमेंट्स बोर्ड में भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के पूर्व चेयरमैन रजनीश कुमार और एसीसी बोर्ड में शेल इंडिया के पूर्व प्रमुख नितिन शुक्ला शामिल हैं।

समूह ने नीरज अखौरी के स्थान पर अजय कुमार को अंबुजा सीमेंट्स का सीईओ बनाया है। श्रीधर बालकृष्णन एसीसी के सीईओ होंगे। पैंतीस साल के करण ने अमेरिका के पुड्र्यू विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातक की डिग्री हासिल की है। वह फिलहाल अडानी पोर्ट्स और एर्राईजेड लिमिटेड की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति 60 वर्षीय गौतम अडानी के दो बेटे करण और जीत हैं। छोटे पुत्र जीत ने पेन्सिलवेनिया विश्वविद्यालय के स्कूल

ऑफ इंजीनियरिंग एंड एप्लॉयड साइंसेज से स्नातक की डिग्री ली है। वह समूह में वित्त मामलों के उपाध्यक्ष हैं। अंबुजा सीमेंट्स के नये निदेशक मंडल ने तरजीही आधार पर वॉरंट आवंटन के जरिये कंपनी को गति देने के लिये 20,000 करोड़ रुपये की पूंजी डाले जाने को मंजूरी दी है। यह अडानी का सबसे बड़ा अधिग्रहण है। साथ ही यह देश के बुनियादी ढांचा और सामाग्री खंड में अबतक का सबसे बड़ा विलय एवं अधिग्रहण सौदा है। बयान के अनुसार, अडानी परिवार ने अपने विशेष उद्देश्यीय इकाई एडेक्व ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लि. के जरिये रिव्स कंपनी होल्सिम्स के साथ सौदा और खुली पेशकश प्रक्रिया पूरी करने के साथ अधिग्रहण पूरा कर लिया है।

भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को उन्नत बनाने के लिये श्रीलंका गंभीर: राष्ट्रपति विक्रमसिंघे

एजेंसी

श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने शुक्रवार को कहा कि उनका देश भारत-श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को उन्नत बनाकर व्यापक आर्थिक और प्रौद्योगिकीय भागीदारी करने को लेकर गंभीर है। उन्होंने यह भी कहा कि 2018 और 2019 में जो काम शुरू हुए, उसमें कोई खास प्रगति नहीं हुई है। भारत और श्रीलंका के बीच मुक्त व्यापार समझौता पहला द्विपक्षीय व्यापार करार था। समझौते पर 1998 में हस्ताक्षर किये गये थे और यह 2000 में अमल में आया। इसका मकसद व्यापार नियमों को उदार बनाकर दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत बनाना था। विक्रमसिंघे ने भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ को लेकर श्रीलंका-



भारत सोसायटी को संबोधित करते हुए कहा, “श्रीलंका और भारत को खासकर आर्थिक संबंधों को लेकर धीरे-धीरे निवेश और गैर-शुल्क बाधाओं से पार पाना है।” उन्होंने कहा कि भारत का पड़ोसी देशों के साथ रिश्ता व्यापार एकीकरण से निर्धारित होगा। राष्ट्रपति ने कहा, “व्यापार एकीकरण आर्थिक आधार देता है। साझा आर्थिक आधार बेहतर राष्ट्रीय सुरक्षा तथा बेहतर राजनीतिक

संबंधों के लिये पूर्व शर्त है।” उन्होंने कहा कि इस प्रकार का पहला कदम एफटीए को पटरी पर लाना और उसे उन्नत बनाकर व्यापक आर्थिक प्रौद्योगिकी भागीदारी का रूप देना है। एफटीए को लेकर जो कार्य 2018 और 2019 में शुरू हुए, उसमें खास प्रगति नहीं हुई।” विक्रमसिंघे ने कहा कि दूसरा कदम उन परियोजनाओं पर गौर करना है, जिस पर दोनों देशों ने सहमति जतायी है।

ढेलेदार त्वचा रोग का समाधान खोजने पर काम कर रही है पतंजलि: रामदेव

एजेंसी

बाबा रामदेव ने शुक्रवार को कहा कि पतंजलि समूह लंपी स्किन डिजीज (एलएसडी) या मवेशियों में ढेलेदार त्वचा रोग का समाधान खोजने पर काम कर रहा है।

इस बीमारी से लगभग एक लाख गायों की मौत हुई है। रामदेव ने सुझाव दिया कि सरकार को इस बीमारी के बारे में जागरुकता पैदा करनी चाहिए। बाबा रामदेव ने शुक्रवार को कहा कि पतंजलि समूह लंपी स्किन डिजीज (एलएसडी) या मवेशियों में ढेलेदार त्वचा रोग का समाधान खोजने पर काम कर रहा है। इस बीमारी से लगभग एक लाख गायों की मौत हुई है। रामदेव ने सुझाव दिया कि सरकार को इस बीमारी के बारे में जागरुकता



पैदा करनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि यह बीमारी “पाकिस्तान से आई हो सकती है।” उन्होंने कहा कि सरकार को इस बात की भी जांच करनी चाहिए कि यह बीमारी देश में कैसे आई और कई राज्यों में कैसे फैल गई। रामदेव ने यहां संवाददाताओं से कहा, “हम लंपी स्किन डिजीज वायरस पर काम कर रहे हैं।” उन्होंने कहा कि इस बीमारी से करीब एक लाख गायों की मौत हो

चुकी है। रामदेव ने कहा कि इस बीमारी ने हरिश्चर में उनके आश्रय गृह में कई गायों को भी प्रभावित किया लेकिन एक भी गाय की मौत नहीं हुई। उन्होंने कहा, “हमने गिलोय जैसी आयुर्वेदिक दवाओं से गायों का इलाज किया। बेहतर रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली गायें इस बीमारी से संक्रमित नहीं थीं।”

एलएसडी गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा सहित एक दर्जन से अधिक राज्यों में फैल चुका है। पशुपालन विभाग द्वारा रखे जाने वाले आंकड़ों के अनुसार, इस बीमारी ने 197 जिलों में 16.42 लाख मवेशियों को प्रभावित किया है और जुलाई से 11 सितंबर, 2022 के बीच 75,000 मवेशियों की मौत हुई है।

सरसों तेल-तिलहन, बिनौला में गिरावट, सोयाबीन में सुधार

एजेंसी

कमजोर मांग के बीच दिल्ली तेल-तिलहन बाजार में शुक्रवार को सरसों तेल-तिलहन, कच्चा पामतेल और बिनौला तेल कीमतों में गिरावट आई जबकि शिकोंगो एक्सचेंज के तेज रहने से सोयाबीन डीगम, पामोलीन तेल कीमतों में सुधार आया।

मूंगफली तेल-तिलहन, सोयाबीन तिलहन, सोयाबीन दिल्ली एवं इंदौर के भाव पूर्वस्तर पर बंद हुए। बाजार सूत्रों ने कहा कि राष्ट्रीय अवकाश होने से मलेशिया एक्सचेंज आज बंद था और यह सोमवार को खुलेगा जबकि शिकोंगो एक्सचेंज में एक प्रतिशत की तेजी थी। सूत्रों ने कहा कि बिनौला की नई फसल की मंडियों में रुक-रुक के आवक शुरू हो गयी है मगर इसके भाव सोयाबीन एवं पामोलीन से ऊंचे हैं। ऊंचे भाव पर मांग कमजोर होने



से बिनौला तेल कीमतों में गिरावट आई। मांग कमजोर होने से सरसों तेल-तिलहन कीमतों में भी मामूली गिरावट देखने को मिली। मलेशिया एक्सचेंज के बंद होने से सीपीओ में कारोबार कमजोर होने से इसके तेल की कीमतों में भी गिरावट दर्ज हुई। सूत्रों ने कहा कि सामान्य कारोबार के बीच सोयाबीन डीगम को छोड़कर

सोयाबीन तेल-तिलहन कीमतें पूर्वस्तर पर रही जबकि शिकोंगो एक्सचेंज में तेजी की वजह से सोयाबीन डीगम के दाम में सुधार आया। सस्ता होने के कारण पामोलीन की मांग निकलने से इसके भाव भी सुधार दर्शाते बंद हुए। सामान्य कारोबार के बीच मूंगफली तेल-तिलहन, सोयाबीन तिलहन, सोयाबीन दिल्ली एवं इंदौर तेल

पूर्वस्तर पर बने रहे। सूत्रों ने कहा कि सरकार को घरेलू बाजार में तेल आपूर्ति बढ़ाने के मकसद से दो वर्ष के लिए सूरजमुखी और सोयाबीन डीगम तेल का 20-20 लाख टन प्रतिवर्ष का शुल्कमुक्त आयात करने की अनुमति देने के फैसले पर तत्काल पुनर्विचार करते हुए इसे बदलना चाहिये नहीं तो आगे जाकर इन तेलों का आयात घट जायेगा। या तो सरकार इसपर पांच प्रतिशत का आयात शुल्क फिर से वापस लागू कर दे या इसके शुल्क मुक्त आयात की सीमा खत्म कर दे, तो इन तेलों का आयात नहीं घटेगा। ऐसा करने पर हो सकता है कि उपभोक्ताओं को यह तेल 10-20 रुपये लीटर सस्ता ही मिले। सरकार ने जिस मात्रा में इसके आयात की छूट दी है, हमारी घरेलू मांग उससे कहीं अधिक की है। एक निश्चित

सीमा में आयात करने से घरेलू मांग को पूरा करना मुश्किल होगा जिससे आयातक और लाभ लेने की स्थिति में हो सकते हैं।

सरकार के अधिकारियों को देश के तेल- तिलहन बाजार के तौर-तरीकों, इसके अंदर दखल रखने वाले कारोबारियों के तौर-तरीकों की बारीक सूचनाओं पर नजर रखनी होगी तभी उनके कदम बाजार में अपेक्षित परिणाम देंगे। पिछले दिन सरकार ने आयात शुल्क मूल्य में कमी की थी लेकिन इसका अपेक्षित परिणाम मिलने के बजाय उलट नतीजा सामने आ रहा है। शुक्रवार को तेल-तिलहनों के भाव इस प्रकार रहे: सरसों तिलहन - 6,720-6,770 (42 प्रतिशत कंडीशन का भाव) रुपये प्रति बिंदल। मूंगफली -7,170-7235 रुपये प्रति बिंदल।

खरीददारी के साथ-साथ इंश्योरेंस कवर भी देते हैं क्रेडिट-डेबिट कार्ड

एजेंसी

बहुत से ग्राहकों को इस बात की भी जानकारी नहीं होती है कि उनके बैंक किस प्रकार की बीमा पॉलिसियों की पेशकश करते हैं। बैंकों द्वारा जारी किए गए डेबिट और क्रेडिट कार्ड एक मानार्थ व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर के साथ आते हैं, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं।

आप में से कितने लोगों के पास डेबिट कार्ड/क्रेडिट है? शायद सभी के पास कम से कम एक होता ही है और शयदह होना भी चाहिए। आप में से कितने लोग इस तथ्य से अवगत हैं कि आपका डेबिट/क्रेडिट कार्ड एक कॉम्प्लिमेंट्री दुर्घटना बीमा कवर के साथ आता है? शायद कुछ ही लोग हैं। बैंकों द्वारा जारी किए गए डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड मुक्त व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के साथ आते हैं।



हालांकि, अधिकांश कार्डधारक इस कॉम्प्लिमेंट्री दुर्घटना बीमा कवर के बारे में नहीं जानते हैं। बहुत से ग्राहकों को इस बात की भी जानकारी नहीं होती है कि उनके बैंक किस प्रकार की बीमा पॉलिसियों की पेशकश करते हैं। बैंकों द्वारा जारी किए गए डेबिट और क्रेडिट कार्ड एक मानार्थ व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर के साथ आते हैं, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं।

लगभग हर बैंक अपने डेबिट और क्रेडिट कार्डधारकों को एक परिचालन बैंक खाते के साथ मानार्थ आकस्मिक अस्पताल में भर्ती या मृत्यु कवर प्रदान करता है। डेबिट कार्ड पर बैंक द्वारा दिया जाने वाला बीमा कवर विभिन्न प्रकार का होता है और कार्ड के प्रकार पर निर्भर करता है। यह कवर 50,000 रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक होता है। कार्ड का उपयोग बीमा कवरेज

में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि कोई दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना होती है तो लाभार्थी संबंधित चिकित्सा रिपोर्ट और दस्तावेजों के साथ बैंक से संपर्क कर सकता है और 90 दिनों के भीतर एकमुश्त भुगतान का दावा किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि आपके द्वारा उपयोग किए जा रहे क्रेडिट या डेबिट कार्ड के प्रकार के आधार पर, एक सक्रिय डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड होने से आप 10 लाख रुपये तक के आकस्मिक मृत्यु कवर के लिए पात्र हो जाते हैं। याद रखें कि कार्डधारक को दुर्घटना से 90 दिन पहले कम से कम एक वैध खरीदारी करनी जरूरी होती है। यदि आप मानते हैं कि चूंकि आपके पास चार डेबिट कार्ड और एक क्रेडिट कार्ड है, तो आप विभिन्न बीमा कवरेज प्राप्त कर सकते हैं, आप गलत हैं। आपके पास केवल

एक कार्ड पर बीमा कवरेज होगा, भले ही आपके पास कितने भी कार्ड क्यों न हों। बीमा नियमों के अनुसार, डेबिट या क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ताओं को मुक्त आकस्मिक मृत्यु कवर दिया जाता है जिसका दावा खाताधारक की मृत्यु की स्थिति में 90 दिनों के भीतर किया जा सकता है। नियम यह भी स्पष्ट करता है कि यह मुक्त आकस्मिक जीवन बीमा सिर्फ एक क्रेडिट या डेबिट कार्ड पर दिया जाएगा। हालांकि, यहां उन लोगों के लिए एक चेतावनी है जो अपने कार्ड का उपयोग नहीं करते हैं। कार्ड धारक के नामांकित (Nominee) व्यक्ति को दुर्घटना मृत्यु बीमा देते समय लागू नियमों पर विशेषज्ञों का कहना है कि क्रेडिट या डेबिट कार्ड के खिलाफ आकस्मिक मृत्यु के दावे का दावा करते समय नामांकित व्यक्ति को पता होना चाहिए।

सीतारमण का कहना है कि बैंक सिस्टम एक-दूसरे के अनुकूल होने चाहिए

एजेंसी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को बैंकों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि उनकी प्रणाली एक-दूसरे के अनुकूल रहे ताकि वे ग्राहकों की सेवा बेहतर ढंग से कर सकें। सीतारमण ने भारतीय बैंक संघ (आईबीए) की 75वीं सालाना बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि कई बार ग्राहकों को अलग-अलग बैंकों के साथ लेनदेन के लिए मजबूर होना पड़ता है। उन्होंने इस तरह की स्थिति को ऐसी कृत्रिम दीवार बताया जिसका निर्माण बैंकों ने अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए किया है। उन्होंने कहा कि बैंकों को यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि



उनकी प्रणालियां एक-दूसरे के अनुकूल और तालमेल में हों ताकि आम आदमी अलग-अलग बैंकों के साथ लेनदेन के लिए मजबूर न हो। इसके अलावा ग्राहक को बेहतर और अधिक कारगर ढंग से सेवा देने के लिए उसकी जबान में बात करना भी अहम है। वित्त मंत्री ने कहा कि बैंकों को धांधली पर लागाम लगाने के लिए नवीनतम इंटरनेट प्रौद्योगिकी और

कृत्रिम मेधा (एआई) में निवेश करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि समय के साथ प्रौद्योगिकी-आधारित नियामकीय निगरानी व्यवस्था लागू करने से बैंकों को काफी हद तक धोखाधड़ी पर लागाम लगाने में मदद मिली है। इसके साथ ही उन्होंने बैंक अधिकारियों से अनुरोध किया कि साइबर सुरक्षा के इंतजाम बढ़ाएं जिससे किसी भी तरह की गड़बड़ का जल्द पता लगाया जा सके। उन्होंने कहा कि बैंकों को आने वाले समय में कहीं अधिक बड़ी भूमिका निभाने के लिए तैयार रहना होगा क्योंकि देश 2047 तक एक विकसित अर्थव्यवस्था होने के लिए प्रयास शुरू कर चुका है।

पोस्ट ऑफिस की योजना में 100 से शुरू करें निवेश, मैच्योरिटी पर मिलेंगे 16 लाख

एजेंसी

डाकघर आवर्ती जमा खाता कोई भी वयस्क या 10 वर्ष से अधिक उम्र का व्यक्ति खोल सकता है। इंडिया पोस्ट की वेबसाइट के अनुसार मासिक जमा के लिए न्यूनतम राशि 100 रुपये है और जमाकर्ता न्यूनतम राशि से अधिक का भुगतान प्रत्येक माह 10 रुपये के गुणकों में कर सकते हैं। मध्यम वर्ग के जो वेलेनभोगी जोखिम मुक्त विकल्पों में निवेश करना चाहते हैं उनके लिए डाकघर भारत में सबसे पसंदीदा विकल्पों में से एक है, जो अच्छे रिटर्न की पेशकश करते हैं।

डाकघर में कई योजनाएं चल रही हैं जो बैंक की एफडी और आरडी की तुलना में बेहतर रिटर्न प्रदान करती हैं। बैंकों में सावधि जमा या बचत खातों में निवेश करते समय एक विकल्प है, डाकघर बचत योजना या

डाकघर आवर्ती जमा खाते के माध्यम से अपने पैसे का निवेश करने का एक और बढ़िया विकल्प है। डाकघर आरडी योजना निवेशकों को निवेश करने के लिए सबसे अच्छे विकल्पों में से एक है जिसमें इसकी उच्च मात्रा में रिटर्न दिया गया है। डाकघर आवर्ती जमा खाता कोई भी वयस्क या 10 वर्ष से अधिक उम्र का व्यक्ति खोल सकता है।

इंडिया पोस्ट की वेबसाइट के अनुसार मासिक जमा के लिए न्यूनतम राशि 100 रुपये है और जमाकर्ता न्यूनतम राशि से अधिक का भुगतान प्रत्येक माह 10 रुपये के गुणकों में कर सकते हैं। डाकघर आरडी जुलाई 2022 से प्रभावी 5.8 प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज दर देता है। यह ब्याज दर तिमाही चक्रवृद्धि है। केंद्र सरकार हर तिमाही अपनी छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरें तय



करती है। डाकघर आरडी खाता खोलने की तारीख से पांच साल या 60 महीने के बाद परिपक्व होता है। एक जमाकर्ता तीन साल के बाद डाकघर में आरडी खाता बंद कर सकता है और खाता खोलने की

तारीख से एक साल बाद 50 प्रतिशत तक ऋण ले सकता है। यदि खाता परिपक्वता से एक दिन पहले भी समय से पहले बंद हो जाता है तो डाकघर बचत खाते के आधार पर ब्याज दरें लागू होंगी। पोस्ट ऑफिस

आरडी खाते को मैच्योरिटी की तारीख से 5 साल तक बिना जमा के भी रखा जा सकता है। इस पद्धति के माध्यम से आपके पैसा और समय के साथ आपके द्वारा अर्जित ब्याज दोनों ही सुरक्षित होते हैं। यह भी ध्यान दिया

जाना चाहिए कि अच्छा रिटर्न प्रदान करते हुए संभावित जोखिम अपेक्षाकृत नगण्य है। यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसी चीज में निवेश करना चाहता है जो नियमित रूप से थोड़ी मात्रा में निवेश करके उच्च रिटर्न प्राप्त करे तो डाकघर आवर्ती जमा खाता खोलना शुरू करने का एक शानदार तरीका है। यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि डाकघर आरडी या डाकघर आवर्ती जमा खाता खोलने के एक साल बाद आपको अपनी जमा राशि का 50 प्रतिशत तक निकालने की अनुमति देता है।

पोस्ट ऑफिस आरडी में निवेश कैसे शुरू करें?

डाकघर आरडी जमा खाता एक सरकार समर्थित योजना है जो आपको मामूली राशि जमा करने और उच्च ब्याज दर अर्जित करने की अनुमति देती है। आप कम से कम

100 रुपये से यह निवेश शुरू कर सकते हैं। कोई अधिकतम राशि नहीं है जिसे आप निवेश कर सकते हैं; आप इसमें जितना चाहें उतना पैसा लगा सकते हैं। इस योजना का खाता पांच साल के लिए खुला रहेगा। दूसरी ओर बैंक छह महीने, एक साल, दो साल और तीन साल के लिए आवर्ती जमा खाते प्रदान करते हैं। प्रत्येक तिमाही, इसमें जमा धन पर ब्याज की गणना वार्षिक दर पर की जाती है और तिमाही के अंत में इसे आपके खाते में चक्रवृद्धि ब्याज सहित जमा किया जाता है।

डाकघर आरडी योजना में निवेश करके पाएं 16 लाख रुपये

यदि आप हर महीने 10,000 रुपये का निवेश करते हैं तो 5.8 प्रतिशत की मौजूदा ब्याज दर पर 10 साल के समय में यह राशि आपको लगभग 16 लाख रुपये रिटर्न में देगी। 10 साल

के लिए आपकी कुल जमा राशि 12 लाख होगी और अनुमानित रिटर्न लगभग 4.26 लाख रुपये होगा। इसलिए आपको कुल 16.26 लाख रुपये का रिटर्न मिलेगा। चक्रवृद्धि ब्याज की गणना प्रत्येक तिमाही में की जाती है जिससे यह अत्यधिक प्रभावी हो जाता है क्योंकि यह निवेशकों को लगातार आधार पर कमाई करने में मदद करता है।

डाकघर RD पर टैक्स
टीडीएस अवर्तक जमा निवेश से काटा जाता है और यदि जमा 40,000 रुपये से अधिक है तो 10% वार्षिक कर लागू होता है। RD पर मिलने वाला ब्याज टैक्सबल होता है, लेकिन पूरी मैच्योरिटी राशि पर नहीं। इसी तरह FD की तरह, जिन निवेशकों की कोई कर योग्य आय नहीं है वे फॉर्म 15G भरकर TDS छूट का दावा कर सकते हैं।

चीन ने फिर दिया भारत को धोखा ! , मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड साजिद मीर मामले पर मारी पलटी

पाकिस्तानी साजिद मीर को ब्लैक लिस्ट करने से रोका

एजेंसी
संयुक्त राष्ट्र। एक तरफ एससीओ समिट में भारत और चीन से एक साथ मंच साझा किया। उम्मीद थी कि एशिया के दो बड़े देशों के बीच जो मौजूदा हालात हैं उनमें कुछ बदलाव आएगा लेकिन भारत की तमाम कोशिशों के बाद भी चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। एससीओ में पाकिस्तान- चीन ने मिलकर आतंकवाद का मुद्दा तो उठाया लेकिन आतंक को खत्म करने की बात पर खुद ही अमल नहीं कर रहा हैं। लंबे समय मे भारत अमेरिका सहित कई देश पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी साजिद मीर को ब्लैक लिस्ट करने की मांग कर रहे थे, वहीं चीन से इस प्रस्ताव को यूएन में अपने वीटो के जरिए रोक दिया हैं। पाक आतंकी नेताओं की चीन रक्षा कर रहा है। साजिद मिर को काली सूची में डालने के संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव पर रोक दिया गया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य चीन ने इस कदम पर श्रोकर लगाई है। यह संयुक्त राष्ट्र को मीर को छह महीने के लिए काली सूची में डालने से रोकता है।

‘ईस्टर संडे हमला’ मामले में श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति सिरिसेना संदिग्ध के रूप में नामजद

एजेंसी
श्रीलंका की एक अदालत ने देश के पूर्व राष्ट्रपति मैत्रीपाल सिरिसेना को 2019 में ईस्टर के दिन हुए विस्फोटों के मामले में शुक्रवार को संदिग्ध के रूप में नामजद किया है। इन हमलों में 11 भारतीयों सहित कुल 270 लोग मारे गए थे। कोलंबो फोर्ट की मरिस्ट्रेट अदालत ने अपने फैसले में सिरिसेना पर हमलों एंव बम विस्फोट संबंधी खुफिया रिपोर्ट को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। अदालत ने 71 वर्षीय सिरिसेना को 14 अक्टूबर को अपने समक्ष पेश होने का आदेश दिया है। सिरिसेना पर आरोप है कि उन्होंने अपने प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के साथ राजनीतिक मतभेदों के कारण हमलों की चेतावनी को नजरअंदाज किया और ऐहतियाती कदम नहीं उठाए। इससे पहले एक

करता है लेकिन वास्तव में वह अपने हित के लिए आतंकियों का साथ भी दे सकता हैं। पाकिस्तान को सिर तक कर्ज देने के बाद चीन पाकिस्तान के मुद्दों पर भी जौर-शोर से बात करता हैं। वहां की पॉलिसी को देखते हुए वह यूएन में बात करता हैं। जहां सभी लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी साजिद मीर को ब्लैक लिस्ट करने की मांग कर रहे थे, वहीं चीन से इस प्रस्ताव को यूएन में अपने वीटो के जरिए रोक दिया हैं। पाक आतंकी नेताओं की चीन रक्षा कर रहा है। साजिद मिर को काली सूची में डालने के संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव पर रोक दिया गया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य चीन ने इस कदम पर श्रोकर लगाई है। यह संयुक्त राष्ट्र को मीर को छह महीने के लिए काली सूची में डालने से रोकता है।



यह इश्यू अगले साल मार्च में ही आ सकता है। इसकी शुरुआत जैश-ए-मोहम्मद के मौलाना मसूद अजहर और उसके बाद उसके भाई अब्दुल रऊफ से हुई। न्यूयॉर्क के सूत्रों ने कहा कि चीन पाकिस्तान स्थित आतंकवादी नेताओं को सूचीबद्ध होने से बचाता है और फिर, संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वीकृत, नवीनतम लश्कर-ए-तैयबा या लश्कर-ए-तैयबा का

साजिद मीर है। साजिद मीर, एक वरिष्ठ अधिकारी, उस टीम का हिस्सा था जिसने मुंबई में 26/11 हमले की योजना बनाई थी और भारत में वांछित है। कल देर रात, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत द्वारा समर्थित, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) की 1267 अल कायदा प्रतिबंध समिति के तहत मीर को ब्लैकलिस्ट करना चाहता था, जो उसकी गतिविधियों की

बाहरी ताकतों को खुद को अस्थिर करने का मौका न दें एससीओ के सदस्य देश: चिनफिंग

एजेंसी
चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने परोक्ष रूप से अमेरिका पर निशाना साधते हुए शुक्रवार को शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के सदस्य देशों से कहा कि वे बाहरी ताकतों को ‘सरकार विरोधी आंदोलनों’ के जरिए उन्हें अस्थिर करने से रोकें। उन्होंने सामरिक स्वतंत्रता बरकरार रखने, सुरक्षा सहयोग को लेकर आम सहमति बनाने और आतंकवाद रोधी सहयोग बढ़ाने की अपील की। चिनफिंग ने उज्बेकिस्तान के समरकंद शहर में एससीओ के 22वें सम्मेलन को संबोधित करते हुए समूह के सदस्य देशों से कहा कि वे संगठन को सही रास्ते पर ले जाएं, विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को प्रगढ़



बनाएं और विकास के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देते रहें। चिनफिंग ने समूह द्वारा आतंकवाद रोधी कर्मियों को प्रशिक्षित करने के लिए चीन में एक केंद्र स्थापित करने की योजना की भी घोषणा की और क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को गति देने के लिए एक विकास बैंक की स्थापना का विचार प्रकट किया। शिखर

निगरानी करेगा, उसकी संपत्ति को फ्रीज करेगा और उसे हथियार खरीदने की अनुमति नहीं देगा। चीन ने पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी साजिद मीर को काली सूची में डालने के अमेरिका और भारत के प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र में अवरुद्ध कर दिया है। चार महीनों में बीजिंग का यह तीसरा ऐसा कदम है। मीर भारत के वांछित आतंकवादियों में से एक है और 2008 के मुंबई हमलों का मुख्य साजिशकर्ता है। ऐसी जानकारी है कि बीजिंग ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 अलकायदा प्रतिबंध समिति के तहत वैश्विक आतंकवादी के तौर पर मीर को काली सूची में डालने के अमेरिका के प्रस्ताव पर बृहस्पतिवार को रोक लगा दी। भारत ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। इसके तहत मीर की

संपत्तियों को कुर्क करने और उस पर यात्रा तथा शस्त्र प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है। मीर भारत का सबसे वांछित आतंकवादी है और अमेरिका ने 26/11 मुंबई हमलों में उसकी भूमिका के लिए उस पर 50 लाख डॉलर का इनाम रखा है। इस साल जून में उसे पाकिस्तान में आतंकवाद रोधी अदालत ने आतंकवाद के वित्त पोषण के एक मामले में 15 साल से अधिक की जेल की सजा सुनायी थी। पाकिस्तानी प्राधिकारियों ने पहले दावा किया था कि मीर की मौत हो गयी है लेकिन पश्चिमी देश इससे आश्चस्त नहीं हुए तथा उन्होंने उसकी मौत का सबूत मांगा था। पिछले साल पेरिस स्थित वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) के आतंकवादियों पर कार्रवाई पर पाकिस्तान की प्रगति में यह एक बहुत बड़ा मसला बन गया

था। अमेरिका के विदेश विभाग ने कहा, “मीर हमलों के लिए लश्कर-ए-तैयबा की गतिविधियों का संचालक था, उसने साजिश, तैयारी और हमले में एक अहम भूमिका निभायी।” पिछले महीने चीन ने जैश-ए-मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर के भाई और पाकिस्तान के एक आतंकी संगठन में शामिल अब्दुल रऊफ अजहर को काली सूची में डालने के अमेरिका तथा भारत के एक प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र में रोक दिया था। अब्दुल रऊफ अजहर का जन्म पाकिस्तान में 1974 में हुआ और अमेरिका ने दिसंबर 2010 में उसे प्रतिबंधित किया था। पाकिस्तान का सहयोगी चीन संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबंध समिति के तहत पाकिस्तानी आतंकवादियों को काली सूची में डालने की राह में बार-बार रोड़े

अटकाता रहा है। चीन ने इस साल जून में पाकिस्तानी आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को काली सूची में डालने के भारत और अमेरिका के संयुक्त प्रस्ताव को ऐन मौके पर अवरुद्ध कर दिया था। अमेरिका ने मक्की को आतंकवादी सूची में डाल रखा है। मक्कीहाफिज सईद का रिश्तेदार है। अमेरिका के विदेश विभाग ने कहा कि मीर तकरीबन 2001 से लश्कर का वरिष्ठ सदस्य है। वह 2006 से 2011 तक लश्कर की विदेशी गतिविधियों का प्रभारी रहा और उसने समूह के इशारे पर कई आतंकवादी हमलों को अंजाम दिया। इसके अलावा उसने 2008 और 2009 के बीच डेनमार्क में एक अखबार तथा उसके कर्मचारियों के खिलाफ आतंकवादी हमले की कथित तौर पर साजिश रची थी।

भारत को एससीओ की अध्यक्षता सौंपी गई

एजेंसी
उज्बेकिस्तान ने शुक्रवार को यहां आठ सदस्यीय शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की अध्यक्षता भारत को सौंपी। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव ने समरकंद में 22वें एससीओ शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की, जिसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी शामिल हुए। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री व्लादिमीर नोरोव ने ट्वीट किया, “एससीओ समरकंद शिखर सम्मेलन के बाद भारत 2023 में संगठन के अध्यक्ष के रूप में एससीओ के अगले शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। हम इस जिम्मेदार मिशन के क्रियान्वयन में अपने रणनीतिक साझेदार भारत की सहायता करने की पूरी कोशिश करेंगे।”समरकंद में आयोजित सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीनी राष्ट्रपति शी

चिनफिंग, ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और मध्य एशियाई देशों के अन्य नेता शामिल हुए। चीनी राष्ट्रपति चिनफिंग ने बीजिंग स्थित आठ सदस्यीय क्षेत्रीय समूह की अध्यक्षता मिलने पर भारत को बधाई दी। उन्होंने सम्मेलन में कहा, “यहां मैं भारत को एससीओ का अगला अध्यक्ष बनने पर चीन की ओर से बधाई देना चाहता हूं। हम, अन्य सदस्य देशों के साथ भारत की अध्यक्षता के दौरान उसका समर्थन करेंगे।” एससीओ की शुरुआत जून 2001 में शंघाई में हुई थी और इसके आठ पूर्ण सदस्य हैं, जिनमें छह संस्थापक सदस्य चीन, कजाखस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं। भारत और पाकिस्तान इसमें 2017 में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुए थे।

चीन के शीर्ष अधिकारी ने की दक्षिण कोरिया के साथ तकनीक के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की अपील

एजेंसी
चीन की विधायिका के प्रमुख ने दक्षिण कोरिया के साथ उन्नत तकनीक तथा आपूर्ति श्रृंखला में सहयोग बढ़ाने की अपील की है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी में तीसरे क्रम में आने वाले ली झांशु ने शुक्रवार को दक्षिण कोरिया के अधिकारियों के साथ मुलाकात की। झांशु को चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग का करीबी समझा जाता है और वह 2015 के बाद से दक्षिण कोरिया की यात्रा करने वाले चीन के पहले शीर्ष अधिकारी हैं। झांशु की यात्रा को पड़ोसी देशों के साथ संबंध मजबूत करने के प्रयासों के तौर पर देखा जा रहा है। यह यात्रा अगले महीने होने वाली कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक से ठीक पहले हुई, जिसमें शी को तीसरी बार पांच वर्ष के



लिए नेता चुना जाना है। चीन की नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की स्थायी समिति के अध्यक्ष झांशु ने अपने दक्षिण कोरियाई समकक्ष के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि चीन तकनीक के क्षेत्र में सहयोग और आपूर्ति तथा औद्योगिक श्रृंखला को निर्बाध तरीके से बनाए रखने का पक्षधर है।हालांकि उन्होंने अपने बयान पर विस्तार से कुछ नहीं कहा लेकिन माना जा रहा है कि उनका बयान चीन की उन चिंताओं को उजागर करता है कि अमेरिका के

साथ उसकी बढ़ती प्रतिद्वंद्विता आपूर्ति श्रृंखला को बाधित कर सकती है। अमेरिका की कुछ कंपनियों ने चीन में उत्पादन समाप्त कर दिया है। इसके अलावा चीन अमेरिका नीत ‘सेमीकंडक्टर गठजोड़’ में दक्षिण कोरिया की संभावित भागीदारी का भी विरोध करता है।

इस गठजोड़ में ताइवान और जापान शामिल हैं। झांशु की शी से निकटता को देखते हुए यह समझा जा रहा है कि उनके बयान शी और उनके करीबियों के ही विचारों का प्रतिबिंब हैं। उन्होंने दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति यून सुक येओल से शुक्रवार को मुलाकात की। इस माह की शुरुआत में झांशु रूस भी गए थे जहां उन्होंने रूस पर लगाए गए अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों की निंदा की थी।

प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन से कहा- यह युद्ध का युग नहीं है

एजेंसी
वाशिंगटन। पूरी दुनिया की आंखें 16 सितंबर 2022 को समरकंद में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के समिट के दौरान भारत के पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के मुलाकात पर थी। रूस-यूक्रेन युद्ध पर भारत ने रूस के खिलाफ कुछ नहीं कहा था। ऐसे में सभी भारत की खामोशी को लेकर सवाल कर रहे थे कि एक लोकतांत्रिक देश होने के बाद भी भारत ने रूस के खिलाफ कुछ नहीं कहा। अब भारत ने अपने राष्ट्रप्री विलाएं व्यवत करना यह दिखाता है कि विश्व इस आक्रमण के असर को लेकर फिक्रमंद है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से शुक्रवार को बातचीत में यूक्रेन में संघर्ष को जल्द समाप्त करने पर जोर देते हुए कहा कि “आज का



मंत्री टोनी ब्लिंकन ने शुक्रवार को कहा कि भारत और चीन के नेताओं द्वारा यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के समक्ष अपनी चिंताएं व्यक्त करना यह दिखाता है कि विश्व इस आक्रमण के असर को लेकर फिक्रमंद है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से शुक्रवार को बातचीत में यूक्रेन में संघर्ष को जल्द समाप्त करने पर जोर देते हुए कहा कि “आज का

युग युद्ध का नहीं है।” फरवरी में यूक्रेन में युद्ध शुरू होने के बाद से दोनों नेताओं के बीच पहली बार आमने-सामने मुलाकात हुई है। समरकंद में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के वार्षिक शिखर सम्मेलन के इतर एक द्विपक्षीय बैठक में मोदी ने यूक्रेन में अस्थिरता को जल्द से जल्द समाप्त करने का आह्वान करते हुए “लोकतंत्र, संवाद और कूटनीति” के महत्व को रेखांकित किया। ब्लिंकन ने एक

संवाददाता सम्मेलन में शुक्रवार को कहा, “आप चीन, भारत से जो सुन रहे हैं, वह यूक्रेन पर रूस के आक्रमण का न केवल यूक्रेन के लोगों बल्कि पूरी धरती के लोगों और देशों पर असर को लेकर विश्व की चिंता दिखाता है।” उन्होंने कहा, “यह केवल यूक्रेन और उसके लोगों पर आक्रमण नहीं है बल्कि यह अंतरराष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांतों पर आक्रमण है, जो शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने में मदद करते हैं।” अमेरिकी विदेश मंत्री यूक्रेन में युद्ध को लेकर चीन तथा भारत के नेताओं द्वारा सिधे पुतिन के समक्ष चिंता व्यक्त करने के एक सवाल का जवाब दे रहे थे।

ब्लिंकन ने कहा, “हमने हाल के महीनों में खाद्य सुरक्षा की चुनौतियों से निपटने पर काफी ध्यान केंद्रित किया और काफी वक्त लगाया है। ये

एमनेस्टी का कहना है कि तालिबान ने अल्पसंख्यक शिया परिवार के छह सदस्यों को मार डाला

एजेंसी
एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार समूह ने अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक शिया परिवार के उन छह सदस्यों के बारे में एक भयावह रिपोर्ट शुक्रवार को जारी की, जिनकी इस गर्मी की शुरुआत में तालिबान ने हत्या कर दी थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अफगानिस्तान के नए शासकों पर मानवाधिकारों की घोर अवहेलना और अल्पसंख्यकों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। समूह ने कहा कि मारे गए लोगों में 12 साल का एक बच्चा भी शामिल है। उसने कहा कि ये हत्याएं 26 जून को घोर प्रांत में हुईं,



जो इस बात का सबूत है कि कैसे तालिबान एक साल पहले सत्ता पर कब्जा करने के बाद से एक समावेशी सरकार स्थापित करने में विफल रहा है। एमनेस्टी के अनुसार, 26 जून की रात को तालिबान बलों ने घोर में एक

हजारा समुदाय और एक पूर्व सुरक्षा अधिकारी मोहम्मद मुरादी के घर पर हमला किया। मुरादी ने एक स्थानीय मिलिशिया का भी नेतृत्व किया था जिसने 2020 और 2021 में तालिबान से लड़ाई लड़ी थी। तालिबान के


कब्जा करने के बाद, मुरादी ने ईरान भागने का प्रयास किया था, लेकिन वह असफल रहा और हाल में घोर में लाल-वा सरजंगल जिले में घर लौट आया जहां वह छिपा हुआ था। एमनेस्टी की रिपोर्ट में प्रत्यक्षदर्शियों के हवाले से कहा गया है कि तालिबान का हमला रात में शुरू हुआ, जिसमें मुरादी के घर पर रॉकेट संचालित हथगोले फेंके गए, जिसमें उनकी

22 वर्षीय बेटी ताज गुल मुरादी की तुरंत मौत हो गई। रिपोर्ट के अनुसार मुरादी खुद और दो अन्य बच्चे, एक बेटा और एक बेटी (12) शुरु में घायल हो गए थे और इसके बाद बेटी की मौत हो गई थी। इसके अनुसार

घायल मुरादी ने तालिबान के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, लेकिन उसे घर से बाहर खींच कर मार डाला गया। एमनेस्टी ने कहा कि तीन अन्य लोग – मुरादी के भतीजे, गुलाम हैदर मोहम्मदी, और दो अन्य रिश्तेदार भी मारे गए थे। एमनेस्टी ने कहा कि उसकी रिपोर्ट आठ अलग-अलग साक्षात्कारों और हत्याओं के बाद ली गई तस्वीरों और वीडियो फुटेज के विश्लेषण पर आधारित है। एमनेस्टी के महासचिव एग्नेस कैलामार्ड ने कहा, “तालिबान को ये हत्याएं बंद कर सभी अफगानों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए।” एमनेस्टी की रिपोर्ट पर तालिबान से तत्काल प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी है।

घायल हुए हैं। भयावह बाढ़ में लगभग एक तिहाई पाकिस्तान डूब गया है। शरीफ ने कहा, “पाकिस्तान में आई भयावह बाढ़ का कारण निश्चित रूप से जलवायु परिवर्तन था। जलवायु परिवर्तन, बादल फटने और अभूतपूर्व कारण बाढ़ आने का उल्लेख किया। पाकिस्तान में इस वर्ष 14 जून से बाढ़ के कारण 1,500 से अधिक लोगों की

कहा, “ पर्यावरण की यह नाइसफ़ी हमारे साथ हुई है क्योंकि तथ्य यह है कि हमारा कार्बन उत्सर्जन एक प्रतिशत से भी कम है।” पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने दुनियाभर के नेताओं से कहा, “ मैं आप सब से अपील करता हूं कि मौत हो चुकी है और 12,758लोग घायल हुए हैं। भयावह बाढ़ में लगभग एक तिहाई पाकिस्तान डूब गया है। शरीफ ने कहा, “पाकिस्तान में आई भयावह बाढ़ का कारण निश्चित रूप से जलवायु परिवर्तन था। जलवायु परिवर्तन, बादल फटने और अभूतपूर्व कारण बाढ़ आने का उल्लेख किया। आई। इन सबके के कारण पाकिस्तान समुद्र जैसा दिख रहा है। उन्होंने



एससीओ एकजुट हो और सतत प्रयासों के जरिए इस तबाही के खिलाफ कदम उठाए।” शरीफ ने कहा कि देश ने अपने इतिहास में जलवायु से जुड़ी इस प्रकार की तबाही का सामना कभी नहीं किया जिसने मानव जीवन, बुनियादी ढांचे, पशुधन और फसलों पर कहर बरपाया है। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से पकिस्तान को मुसीबत से उबारने में मदद की अपील की।

फेडरर और सेरेना के संन्यास से टेनिस में शुरु होगा अल्काराज, स्वियातेक का दौर

एजेंसी

एक सप्ताह के अंदर दो दिग्गजों रोजर फेडरर और सेरेना विलियम्स के संन्यास जैसी घोषणाओं से टेनिस के एक युग का अंत हो रहा तो वही महज 21 साल की उम्र में अपना तीसरा ग्रैंड स्लैम जीतने वाली इगा स्वियातेक और 19 बरस की आयु में अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीतने वाले कार्लोस अल्काराज ने नये युग की शुरुआत की झलक दिखा दी। चालीस साल की सेरेना ने अमेरिकी ओपन के बाद इस तरह के संकेत दिये थे कि वह अपना आखिरी पेशेवर मैच खेल चुकी है तो वहीं फेडरर ने गुरुवार को खेल को अलविदा कहने की घोषणा की। फेडरर ने कहा कि

अगले सप्ताह लावेर कप कप में वह आखिरी बार कोर्ट में उतरेंगे। इन दोनों खिलाड़ियों विदाई से पहले ही टेनिस के भविष्य को लेकर काफी चर्चा की जा रही थी। लेकिन स्वियातेक और अल्काराज जैसे युवाओं ने हाल के दिनों में यह साबित किया कि खेल सही हाथों में है।

‘हॉल ऑफ फेम’ कोच निक निक बोलेटिएरी ने कहा, “ इन दोनों खिलाड़ियों ने टेनिस को उस स्वरूप में ढालने की कोशिश की जिसे हम आज देख रहे हैं। हमें उनकी कमी खलेगी।”विलियम्स बहनों (सेरेना और वीनस), आंद्रे अगाली, जिम कूरियर, मोनिका सेलेस और मारिया शारापोवा के साथ काम करने वाले



बोलेटिएरी ने कहा,, “इन युवा खिलाड़ियों का रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने से टूर (प्रतियोगिताओं) पर बड़ा फर्क पड़ेगा।” उन्होंने कहा कि फेडरर के जाने के बाद भी राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच सक्रिय हैं। यह जरूर है कि नडाल चोट से परेशान रह रहे और जोकोविच

कोरोना वायरस टीका नहीं लगवाने के कारण सीमित प्रतियोगिताओं में खेल रहे हैं। इसके बाद भी दोनों ने साल के चार में तीन ग्रैंड स्लैम को अपने नाम किये। सेरेना ने 23 और फेडरर ने 20 ग्रैंड स्लैम जीते। इन दोनों ने इसके साथ ही ओलंपिक पदक और कई टूर्नामेंट में जीत का परचम

लहराया और सैकड़ों सप्ताह तक रैंकिंग में शिखर पर रहे। इन खिलाड़ियों की जगह को भरने के लिए हालांकि युवा ब्रिगेड तैयार है। स्वियातेक और अल्काराज ने छोटे अंतरराष्ट्रीय करियर में इसकी झलक पेश कर दी है।

स्वियातेक छह महीने पहले ऐश बार्टी के संन्यास के बाद से रैंकिंग में नंबर एक महिला खिलाड़ी है। वह 2016 के बाद से एक सत्र में दो ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाली पहली महिला है। अल्काराज 1973 में कम्प्यूटरीकृत रैंकिंग शुरू होने के बाद से बीते सोमवार को नंबर एक रैंकिंग हासिल करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने। वह 1990 में पीट

सम्प्रास के बाद से अमेरिकी ओपन और नडाल (2005 में फ्रेंच ओपन) के बाद से किसी भी ग्रैंड स्लैम का पुरुष एकल खिताब को जीतने वाले पहले सबसे युवा खिलाड़ी हैं। खास बात यह है कि फेडरर ने जब अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीता था तब अल्काराज की उम्र महज दो महीने थी तो वहीं स्वियातेक दो साल की थी। इन दोनों खिलाड़ियों पर फेडरर और सेरेना के खेल की गहरी छाप है। स्वियातेक और अल्काराज के अलावा नाओमी ओसाका, कोको गफ, फ्रांसिस टियाफो और यानिक सिनर, कैस्पेर रुड और ओन्स जबरू जैसे खिलाड़ियों ने पिछले कुछ समय में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है।

राष्ट्रीय खेलों में निशानेबाजी में नयी प्रतिभाएं सामने आयेगी: राणा

एजेंसी

झोणाचाव्य पुरस्कार विजेता कोच जसपाल राणा को उम्मीद है कि 36वें राष्ट्रीय खेलों में दिग्गज निशानेबाजों के साथ युवाओं को प्रतिस्पर्धा करने के मौके से इस खेल में नयी प्रतिभाएं उभर कर सामने आयेगी। इन खेलों का आयोजन गुजरात में 29 सितंबर से 12 अक्टूबर तक होगा। एशियाई खेलों में कई बार स्वर्ण पदक जीतने वाले इस पूर्व निशानेबाज ने कहा, “ हर किसी को राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिताओं और फिर देश के लिए प्रतिस्पर्धा करने का मौका नहीं मिलता। लेकिन यहां पर आप कौशल तथा प्रतिभा परख सकते हैं। राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं से भी नयी प्रतिभा निकल सकती हैं। मुझे यकीन है कि राष्ट्रीय खेलों के अंत तक हम कुछ नए चेहरे दिखेंगे, जो भविष्य में भारत के लिए अच्छा प्रदर्शन करेंगे।” राणा ने जूनियर राष्ट्रीय टीम के साथ

काम करते हुए मनु भाकर, सोरभ चौधरी और अनीश भानवाला सहित कई युवाओं के करियर को संवारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जूनियर विश्व चैम्पियनशिप 1994 में अपनी पहली बड़ी जीत दर्ज करने के बाद राणा ने उसी साल हिरोशिमा एशियाई खेलों में दमदार प्रदर्शन किया था। राणा को लगता है कि राष्ट्रीय खेल सभी प्रतिभागियों को खुद को साबित करने का अच्छा मौका मिलेगा। उन्होंने कहा, “ हांगझोऊ में होने वाले एशियाई खेल स्थगित हो गये है। ऐसे में हमारे सभी खिलाड़ियों के पास एक साथ गुजरात में अपने कौशल का प्रदर्शन करने का एक शानदार अवसर है।” उन्होंने कहा, “यह सिर्फ निशानेबाजी के बारे में नहीं है। राष्ट्रीय खेलों में कई अलग-अलग खेल हैं और अगर देश के शीर्ष खिलाड़ियों को कम अनुभवी खिलाड़ी कड़ी टक्कर दे पायेंगे।

इंदौर में तेज बारिश, रोड सेपटी वर्ल्ड सीरीज के मैचों पर संकट के बादल

एजेंसी

इंदौर में शुक्रवार सुबह तेज बारिश के बाद रोड सेपटी वर्ल्ड सीरीज टूर्नामेंट के तहत होलकर स्टेडियम पर 17 से 19 सितम्बर के बीच आयोजित टी-20 मुकाबलों पर संकट के बादल छा गए हैं। ये मुकाबले अलग-अलग देशों के पूर्व अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटरों की टीमों के बीच होने हैं। आयोजकों के मुताबिक होलकर स्टेडियम में इस भिड़ंत की शुरुआत शनिवार (17 सितम्बर) को बांग्लादेश लीजेंड्स बनाम दक्षिण अफ्रीका लीजेंड्स तथा ऑस्ट्रेलिया लीजेंड्स बनाम बांग्लादेश लीजेंड्स के टी-20 मैच खेले जाने हैं, जबकि सोमवार (19 सितम्बर) को इंडिया लीजेंड्स और न्यूजीलैंड लीजेंड्स के बीच फटाफट क्रिकेट के इस प्रारूप की भिड़ंत होनी है। इस बीच, मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक वेदप्रकाश सिंह चंदेल ने बताया कि इंदौर में अगले तीन दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।

के चलते होलकर स्टेडियम के मैदान को कवर से ढक दिया गया है, लेकिन मौसम का यही हाल बना रहा तो शनिवार को टी-20 मुकाबलों का आयोजन मुश्किल है। कार्यक्रम के मुताबिक रविवार (18 सितम्बर) को होलकर स्टेडियम में श्रीलंका लीजेंड्स बनाम दक्षिण अफ्रीका लीजेंड्स तथा ऑस्ट्रेलिया लीजेंड्स बनाम बांग्लादेश लीजेंड्स के टी-20 मैच खेले जाने हैं, जबकि सोमवार (19 सितम्बर) को इंडिया लीजेंड्स और न्यूजीलैंड लीजेंड्स के बीच फटाफट क्रिकेट के इस प्रारूप की भिड़ंत होनी है। इस बीच, मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक वेदप्रकाश सिंह चंदेल ने बताया कि इंदौर में अगले तीन दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।

भारत ने टी20 विश्व कप के लिए चार तेज गेंदबाजों को रखकर जोखिम लिया: मिशेल जॉनसन

एजेंसी

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज मिशेल जॉनसन का मानना है कि टी20 विश्व कप के लिए भारत का संयोजन थोड़ा जोखिम भरा है क्योंकि टीम ने उछाल भरी पिचों के लिए कम तेज गेंदबाजों का चयन किया है। अनुभवी मोहम्मद शमी को स्टैंडबाय में रखने के कदम से कुछ विशेषज्ञों आश्चर्यचकित है।

भारतीय चयनकर्ताओं ने भुवनेश्वर कुमार, हर्षल पटेल और अर्शदीप सिंह के साथ जसप्रीत बुमराह की अनुआई वाली चौकड़ी पर भरोसा जताया है। जॉनसन ने ‘लीजेंड्स लीग क्रिकेट (एलएससी)’ के इतर ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, “ अगर आपने टीम में एक ऑलराउंडर (तेज गेंदबाजी), दो स्पिनर और चार तेज गेंदबाज को



रखा है तो यह थोड़ा जोखिम भरा है। लेकिन भारत अंतिम एकदश में दो तेज गेंदबाजों और एक ऑलराउंडर (हार्दिक पांड्या) और दो स्पिनरों को खेलने पर विचार कर रहा है।” बायें हाथ के इस पूर्व तेज गेंदबाज ने कहा, “ ऑस्ट्रेलिया में आपको तीन तेज

गेंदबाजों को टीम में रखना ही होगा। पर्थ की परिस्थितियों में चार तेज गेंदबाज रखने पड़ेंगे। मुझे लगता है उन्होंने योजना बनाकर टीम चुनी है लेकिन सिर्फ चार तेज गेंदबाजों के साथ जोखिम भरा हो सकता है।”जॉनसन ने इस मौके पर किसी युवा को एकदिवसीय प्रारूप में ऑस्ट्रेलिया का कप्तान बनाने की मूंग की। आरोन फिच के एकदिवसीय से इस्तीफे के बाद टीम की कप्तानी को लेकर बहस छिड़ी है। गेंद से छेड़छाड़ के कारण प्रतिबंध झेल चुके स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर ने टीम का नेतृत्व करने की इच्छा जतायी है लेकिन जॉनसन ने कहा कि दोनों खिलाड़ी अपने करियर के आखिरी पड़ाव पर हैं ऐसे में किसी युवा खिलाड़ी को टीम की कमान दी जानी

चाहिये। उन्होंने कहा, “पैट कमिस (टेस्ट कप्तान) को सभी प्रारूपों की जिम्मेदारी देने से उनके काम का बोझ काफी बढ़ जायेगा। चयनकर्ताओं के मन में ग्लेन मैक्सवेल का नाम हो सकता है। अगर आप भविष्य को देखे तो कैमरून ग्रीन भी एक अच्छा विकल्प होगा। एक ऑलराउंडर के रूप में हालांकि उनके लिए पहले से काम का ज्यादा बोझ है।

एक और विकल्प ट्रेविंस हेड के प्रदर्शन में निरंतरता की कमी है।” उन्होंने कहा, “वॉर्नर और स्मिथ दोनों को कप्तान नहीं होना चाहिए। वह पहले की तरह अब भी टीम का मार्गदर्शन करना जारी रख सकते हैं। उनके कप्तान बनने से फिर से पुरानी चीजें (गेंद से छेड़छाड़ मुद्दा) पर चर्चा शुरू हो जायेगी।

दलीप ट्रॉफी : सलामी बल्लेबाज पृथ्वी साव का शतक, पश्चिम क्षेत्र की 259 रन की बढ़त

एजेंसी

सलामी बल्लेबाज पृथ्वी साव ने शानदार फॉर्म जारी रखते हुए 96 गेंद में 104 रन (11 चौके, तीन छक्के) बनाये जिससे पश्चिम क्षेत्र ने शुक्रवार को यहां दलीप ट्रॉफी के सेमीफाइनल मैच के दूसरे दिन मध्य क्षेत्र के खिलाफ अपनी बढ़त 259 रन की कर ली। पश्चिम क्षेत्र ने पहली पारी में 257 रन बनाकर मध्य क्षेत्र को 128 रन पर समेट दिया था जिससे उसे पहली पारी के आधार पर 129 रन की बढ़त मिली। फिर साव ने शानदार पारी से सुनिश्चित किया कि पश्चिम क्षेत्र अपना शिकंजा कस ले। टीम ने स्टंप तक दूसरी पारी में तीन विकेट गंवाकर 130 रन बना लिये थे। पूर्वोत्तर की कमजोर टीम के खिलाफ क्वार्टरफाइनल में शतक जड़ने के बाद साव ने मध्य क्षेत्र के आक्रमण की



धज्जिया उड़ा दी। इसके बाद साव ने इच्छानुसार शॉट लगाते हुए रन गति बढ़ायी। पर इसके बावजूद पश्चिम क्षेत्र ने तीन विकेट गंवा दिये जिसमें यशस्वी जायसवाल और कप्तान अजिंक्य राहणे का विकेट शामिल रहा। इससे पहले अनुभवी उनादकट (24 रन देकर तीन विकेट) ने शुरुआती विकेट झटके जबकि स्पिनर तनुष कोटियान ने भी इसके बाद तीन खिलाड़ियों को आउट किया

जिसमें कर्ण शर्मा का विकेट भी शामिल था। दिन की शुरुआत में पश्चिम क्षेत्र ने दूसरे दिन नौ विकेट पर 252 रन से आगे खेलना शुरू किया लेकिन टीम इसमें पांच रन ही जोड़ सके। राहुल त्रिपाठी (67 रन) को तेज गेंदबाज अनिकेत चौधरी (48 रन देकर दो विकेट) ने आउट कर पश्चिम क्षेत्र की पारी समाप्त की। बायें हाथ के स्पिनर कुमार कार्तिकेय सिंह सबसे सफल गेंदबाज रहे।

कैच छूटना खेल का हिस्सा, अर्शदीप को लेकर बोले रवि बिश्नोई, उनकी जगह मैं भी हो सकता था

एजेंसी

नयी दिल्ली। रवि बिश्नोई की उम्र महज 22 साल की है लेकिन वह समझते हैं कि क्रिकेट कितना ‘निर्दयी’ खेल हो सकता है और उनका कहना है कि हाल में एशिया कप के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ महत्वपूर्ण कैच छोड़ने वाले अर्शदीप सिंह की जगह



बिश्नोई ने चार ओवर में 28 रन देकर एक विकेट झटक और महाद्वीपीय टूर्नामेंट में अपने पहले मौके में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज रहे। भारत के लिये 2022 में 10 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले बिश्नोई ने कहा, “पाजी

मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। हम सभी जानते हैं कि कैच छूटना खेल का हिस्सा है। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी से भी ऐसा हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता था कि वह गेंदबाजी कर रहा होता और मैं इस कैच को छोड़

सकता था। ” उन्होंने कहा, “अर्शदीप मजबूत इरादे वाला खिलाड़ी है। उस कैच को छोड़ने के बाद आपने देखा कि उसने ‘डेथ ओवर’ में कितनी अच्छी गेंदबाजी की। ऐसा बिलकुल नहीं लगा कि वह परेशान था। वह मानसिक रूप से इतना मजबूत है। ” बिश्नोई टी20 विश्व कप के लिये चुनी गयी टीम में जगह नहीं बना सके हैं क्योंकि उनसे सीनियर युजवेंद्र चहल को मौका मिला है लेकिन वह अपनी गुगली को घातक बनाने पर काम कर रहे हैं। जोधपुर के इस गेंदबाज ने कहा, “टीम प्रबंधन ने

किसी ने भी मुझे लेग ब्रेक पर महारत हासिल करने को नहीं कहा है। ” बलिक पूर्व लेग स्पिनर साईराज बहुतुले ने उन्हें कहा कि चिंता करने की जरूरत नहीं है जो टीम के गेंदबाजी कोच में से एक हैं। बिश्नोई ने कहा, “मैंने साईराज सर से बात की थी और उन्होंने कहा कि अच्छा है कि अगर मैं इस ‘वैरिएशन’ पर काम कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि तुम एक घातक लेग ब्रेक डालने पर काम कर रहे हो और तुम निश्चित रूप से इसे परफेक्ट तरह से फेंक पाओगे। मैं इस पर काम कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इसमें महारत हासिल कर लूँ।

पंड्या को और परिपक्व होने की जरूरत: ब्रेसनन

एजेंसी

इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर टिम ब्रेसनन ने शुक्रवार को कहा कि भारतीय हरफनमौला हार्दिक पंड्या को और अधिक परिपक्व होने की जरूरत है। ब्रेसनन को उम्मीद है कि ऑस्ट्रेलिया में होने वाले आगामी टी20 विश्व कप में पंड्या टीम के लिए अहम भूमिका निभायेंगे। पंड्या ने इंडियन प्रीमियर लीग के बीते सत्र में गेंद और बल्ले के अलावा अपनी नेतृत्व कौशल को साबित करते हुए पहली बार लीग में भाग ले रही गुजरात टाइटंस की टीम को चैम्पियन बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने एशिया कप के शुरुआती चरण में पाकिस्तान के खिलाफ बल्लेबाजी और गेंदबाजी से शानदार प्रदर्शन कर टीम का पांच विकेट से जीत दिलाई थी। ‘लीजेंड्स लीग क्रिकेट



(एलएससी)’ के दूसरे सत्र में ‘भीलवाड़ा किंग्स’ का प्रतिनिधित्व करने को तैयार ब्रेसनन ने ‘पीटीआई-भाषा’ को दिये साक्षात्कार में कहा, “ हमारे पास एक अच्छा विकेट है।” पंड्या चोट के कारण लंबे समय तक टीम से बाहर थे। चोट से उबरने के बाद उन्होंने आईपीएल के बीते सत्र से बल्लेबाजी के साथ गेंदबाजी करना शुरू किया। कार्यभार प्रबंधन के तहत

राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली टीम के अलावा नमिता 2016 में रियो ओलंपिक भाग लेने वाली टीम का हिस्सा थी। हॉकी इंडिया ने दो बार के एशियाई खेलों के पदक विजेता को देश के खेल में उनके योगदान के लिए बधाई दी। महिला टीम की राष्ट्रीय को यानेक शोषमैन ने कहा, “ नमिता का भारतीय हॉकी में बहुत बड़ा योगदान है। नमिता मैदान पर सब कुछ देने के अलावा टीम में युवाओं के लिए एक आदर्श रोल-मॉडल (प्रेरणास्रोत) भी रही हैं।” उन्होंने कहा, “ बहुत कम खिलाड़ियों को देश के लिए 168 मैच खेलने का मौका मिलता है और नमिता ने हर मैच में अपनी काबिलियत से टीम में जगह बनायी। वह एक बेहतर खिलाड़ी के साथ शानदार इंसान भी है। उसके लिए हर मामले में टीम पहले है।

पंड्या को और परिपक्व होने की जरूरत: ब्रेसनन

उन्हें दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आगामी घरेलू टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला से उन्हें विश्राम दिया गया है। ब्रेसनन से पंड्या के विश्राम का समर्थन करते हुए कहा, “ ऐसे खिलाड़ी पूरे मैच के दौरान सक्रिय रहते हैं, ऐसे में यह शारीरिक रूप से काफी मुश्किल हो जाता है। तेज गेंदबाज हरफनमौला खिलाड़ी खरे सोने की तरह होते हैं।”ब्रेसनन ने एशिया कप के मैचों को नहीं देखा लेकिन उन्होंने टी20 विश्व कप के लिए रोहित शर्मा की अनुवाई वाली टीम को सेमीफाइनल में पहुंचने का दावेदार माना। ब्रेसनन ने कहा कि भारत के अलावा टी20 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड को टीम अंतिम चार में पहुंच सकती है। उन्होंने कहा, “ आप भारत को हल्के में नहीं ले सकते।

रश्मिका मंदाना की संस्कृति और संस्कार छू लेंगे आपका दिल

साउथ इंडियन एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना नेशनल केश तो हैं ही साथ ही उन्होंने अपनी खूबसूरती के साथ-साथ अपने व्यवहार से भी लोगों का दिल जीतना शुरू कर दिया हैं। रश्मिका मंदाना, अमिताभ बच्चन और नीना गुप्ता के साथ फिल्म गुड बाय से बॉलीवुड डेब्यू करने जा रही हैं। फिल्म गुड बाय 7 अक्टूबर 2022 को बड़े पर्दे पर रिलीज के लिए तैयार है। फिल्म की कास्ट इस समय गुड बाय के प्रमोशन में लगी है। अभिनेत्री रश्मिका मंदाना अपनी फिल्म का प्रमोशन करने कि लिए दिल्ली पहुंची। इस दौरान जिस तरह का उनका व्यवहार रहा उसने लोगों का दिल जीत लिया। फिल्म के प्रमोशन के लिए जब रश्मिका मंदाना स्टेज पर चढ़ी तो उन्होंने स्टेज का सम्मान करते हुए स्टेज को नमन किया। रश्मिका ने इसके साथ ही सभी मीडिया कर्मी और प्रमोशन के दौरान जो लोग भी मौजूथ थे उनका हाथ जोड़कर धन्यवाद किया। रश्मिका की ये सादगी लोगों को खूब पसंद आया। सोशल मीडिया पर स्टेज को नमन करते हुए रश्मिका का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा हैं। इस वीडियो पर यूजर्स अपना प्यार रश्मिका के लिए कमेंट बॉक्स में भेज रहे हैं। वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए एक प्रशंसक ने कहा, क्या महान संस्कृति और संस्कार है... वह आगे बढ़ने से पहले मंच को नमन कर रही थीं। दूसरे यूजर ने लिखा था, यह उनका शिफ्टाचार। एक यूजर ने कमेंट भी किया, र्वाह वो बहुत खूबसूरत हैं। इवेंट के लिए रश्मिका ने ब्लैक एंड व्हाइट क्रॉप टॉप पहना था, ब्लू डेनिम जैकेट के नीचे, पिक पैट के साथ पेयर किया था। रश्मिका अपनी आने वाली फिल्म गुड बाय के प्रचार के लिए राष्ट्रीय राजधानी में थीं। शुक्रवार को गुडबाय का दूसरा ट्रैक द हिक् सॉनिंग रिलीज किया गया।



अपनी मोहब्बत आरपी से दूर होकर छलका उर्वशी रौतेला का दर्द

बॉलीवुड अदाकारा उर्वशी रौतेला पिछले कुछ समय से सुर्खियों में बनी हुई हैं। अभिनेत्री कभी क्रिकेटर ऋषभ पंत के साथ चल रही अपनी कोल्ड वॉर को लेकर चर्चा में बनी रहती हैं तो हाल ही में वह पाकिस्तानी गेंदबाज नसीम शाह से जुडी एक वीडियो की वजह से सुर्खियां बटोर रही थीं। अब एक बार फिर उर्वशी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई हैं और वजह है उनका लेटेस्ट पोस्ट। अभिनेत्री ने अपने लेटेस्ट पोस्ट में कुछ ऐसा कह दिया है जिसकी चारों तरफ चर्चा हो रही है। अभिनेत्री उर्वशी रौतेला ने गुरुवार को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अपनी कुछ तस्वीरें पोस्ट की हैं। अभिनेत्री की ये तस्वीरें उनके लेटेस्ट शूट की हैं। तस्वीरों में उर्वशी साड़ी पहने हुए सिंपल लुक में नजर आ रही हैं और काफी खूबसूरत लग रही हैं। लेकिन इस वक्त उनके खूबसूरत लुक से ज्यादा लोग किसी और की चर्चा करने में व्यस्त हैं। दरअसल, अभिनेत्री ने अपनी लेटेस्ट तस्वीरों के साथ एक कैप्शन भी शेयर किया है। कैप्शन में उन्होंने लिखा है, मौत से पहले भी एक और मौत होती है, देखो जरा अपनी मोहब्बत से दूर होकर। उर्वशी के इस दर्द से भरे कैप्शन ने लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया, जिसके अब सोशल मीडिया पर खूब चर्चे हो रहे हैं। उर्वशी रौतेला का कैप्शन यूजर्स की नजरों में आते ही सोशल मीडिया पर चर्चा का सिलसिला शुरू हो गया है। यूजर्स का मानना है कि अभिनेत्री का यह कैप्शन आरपी यानि क्रिकेटर ऋषभ पंत के लिए हैं। इसलिए यूजर्स उर्वशी की तस्वीरों पर आरपी का नाम लेकर मजे लेते नजर आ रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, आरपी बताओ। एक अन्य ने लिखा, कैप्शन कतई खतरनाक हो रखा है। एक अन्य ने कमेंट किया, दोस्तों ये कैप्शन ऋषभ पंत और नसीम शाह के लिए लिखी है।

कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव अभी भी वेंटिलेटर पर , धीरे-धीरे हालत में हो रहा है सुधार



एक महीने से अधिक समय पहले दिल का दौरा पड़ने के कारण अस्पताल में भर्ती कराए गए लोकप्रिय हास्य-अभिनेता-अभिनेता राजू श्रीवास्तव अभी भी जीवन रक्षक प्रणाली (वेंटिलेटर) पर हैं। उनके भाई दीपू श्रीवास्तव ने शुक्रवार को जानकारी दी। श्रीवास्तव को 10 अगस्त को दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में भर्ती करवाया गया था और उसी दिन उनकी एंजियोप्लास्टी हुई थी। हास्य-कलाकार और राजू के छोटे भाई दीपू श्रीवास्तव ने कहा कि उनके भाई धीरे-धीरे ठीक हो रहे हैं, लेकिन वह अभी भी बेहोश है। दीपू ने कहा, हालांकि, सुधार की गति धीमी है, लेकिन वह जल्द ही ठीक हो जाएंगे। उनकी हालत स्थिर है और वह फिलहाल वेंटिलेटर पर ही

हैं। 35 दिन हो गए हैं, मगर चिकित्सकों का कहना है कि राजू ठीक होने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमें आप सभी की प्रार्थनाओं की जरूरत है। यह पूछे जाने पर कि क्या परिवार अभिनेता को मुंबई के किसी अन्य अस्पताल में स्थानांतरित करने की योजना बना रहा है, जहां श्रीवास्तव रहते हैं, दीपू ने कहा कि ऐसी कोई योजना नहीं थी। उन्होंने कहा, उनका इलाज एम्स में किया जाएगा और उनके ठीक होने के बाद हम उन्हें घर ले जाएंगे। हमें चिकित्सकों पर पूरा भरोसा है।

श्रीवास्तव, 1980 के दशक के अंत

से मनोरंजन जगत में सक्रिय रहे हैं।

उन्हें 2005 में स्टैंड-अप कॉमेडी शो

‘द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज’ के

पहले सीजन में भाग लेने के बाद

काफी लोकप्रियता मिली थी।

उन्होंने ‘मैंने प्यार किया’,

‘बाजीगर’, ‘बॉम्बे टू गोवा’

(रोमेक) और ‘आमदनी अठनी

खर्चा रुपैया’ जैसी फिल्मों में

अभिनय किया है। श्रीवास्तव

उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद

के अध्यक्ष भी हैं।



रंगीन बिकनी में सनी लियोन ने शेयर की समुद्र किनारे से हॉट तस्वीरें

लोगों के दिलों की धड़कन बढ़ाने वाली एक्ट्रेस सनी लियोन आज-कल सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। एक्ट्रेस इस समय अपने पति डेनियल वीबर के साथ मालदीव में छुट्टियां मना रही हैं। खूबसूरत लोकेशन के साथ हॉट सनी लियोन अपनी वेकेशन की खूब तस्वीर पोस्ट कर रही हैं। सनी ने अपने इस्टाग्राम पर समुद्र के किनारे की बिकनी में तस्वीरें पोस्ट की हैं,

जिसने इंटरनेट का तापमान बढ़ा दिया हैं। सनी के फैस

कमेंट बॉक्स में अपना प्यार एक्ट्रेस को भेज रहे हैं। खूबसूरत सनी लियोन ने परफेक्ट कर्त्स को दिखाते हुए अपनी पोस्ट

को कैप्शन दिया, इस बिकनी को प्यार करो। इसने मेरी बाहों और कंधों को जलने से बचा लिया !! धन्यवाद। तस्वीरों में

‘रागिनी एमएमएस 2’ की अभिनेत्री को मालदीव के समुद्र तट पर रंगीन बिकनी में पोज देते देखा जा सकता है। मॉडल द्वारा

इन तस्वीरों को शेयर करने के तुरंत बाद, प्रशंसकों ने कमेंट बॉक्स में रेंड हार्ट ही दिखाई दे रहे हैं। बिकिनी तस्वीरों के साथ

सनी लियोन ने एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वह अपने पति के साथ बीच पर फायर शो का आनंद लेती नजर आ रही

है। वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, र्फायर शो !! वन मैन शो और बिल्कुल अद्भुत। समुद्र तट पर निजी डिनर

और फायर शो के लिए धन्यवाद। इस रात को कभी नहीं भूलेंगे! सनी लियोन अपनी मालदीव डायरी से हमें मदहोश करने की

होड़ में हैं। वह द्वीप देश से लगातार तस्वीरें और वीडियो शेयर करती रही हैं। समुद्र के किनारे बिकनी में पोज देने से लेकर

अपने ऑवरग्लास फिंगर को प्लॉटान करने तक सनी अपने वेकेशन के दौरान खूब जलवा बिखेर रही हैं।



करते हुए एक यूजर ने वीडियो पर कमेंट किया, “इश्क और प्यार का मजा लीजिए, थोड़ा इन्तज़ार का मजा लीजिए”। एक अन्य ने लिखा, मुबारक हो। एक अन्य ने कमेंट किया, प्यार जिंदाबाद। ऋचा चड्ढा और अली फजल की लव स्टोरी की बात करें तो दोनों की पहली मुलाकात 2012 में फिल्म ‘फुकरे’ के सेट पर हुई थी। दोनों एक दूसरे के दोस्त बने और फिर करीब आए। एक दिन घर

पर मूवी देखने के दौरान अभिनेत्री ने अली को ‘आई लव यू’ कह दिया, जिसका जवाब देने में अभिनेता ने तीन महीने लगा दिए। जैसे ही अली ने ऋचा के लिए अपना प्यार कबूला वैसे ही दोनों की प्रेम कहानी शुरू हो गई। पहले पांच साल दोनों ने अपने रिश्ते को निजी रखा। दोनों का रिश्ता उस समय ऑफिशियल हुआ जब वह वेनिस में ‘विवटोरिया और अब्दुल’ के वर्ल्ड प्रीमियर पर हाथों में हाथ डाले दिखाई दिए। मालदीव में छुट्टियां बिताने के दौरान अली फजल ने ऋचा को शादी के लिए प्रोपोज किया। इसके लिए उन्होंने स्पेशल व्यवस्था की थीं। अभिनेता ने डिनर खत्म होने के बाद शैंपेन की बोतल खोली और अभिनेत्री के सामने अपने घुटनों पर बैठ गए और पूछा ‘क्या तुम मुझसे शादी करोगी?’। ऋचा के हाँ के जवाब के बाद शादी की तैयारियां शुरू हुईं। ऋचा और अली अप्रैल 2020 में शादी करने वाले थे लेकिन कोरोना महामारी के कारण फंक्शन को टालना पड़ा।

